https://archive.org/details/bk177/page/n0/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

All Items on https://archive.org/details/realpatidar

Full Library on https://realpatidar.com/library

https://archive.org/details/bk177/page/n1/mode/1up

# Real Patidar Library

https://www.realpatidar.com/library

Real Patidar
Unravel Truth

This book/literature/article/material may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden.

The library does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The library shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material.

Full terms and conditions of use: http://www.realpatidar.com

## About Real Patidar books

Real Patidar's mission is to organize the information on Satpanth religion, which is a Nizari Ismaili sect of Shia branch of Islam, and to make it universally accessible and useful. Real Patidar Books helps readers discover the material on Satpanth online while helping authors and researchers in their studies. You can know more by visiting http://www.realpatidar.com

You can resize and move this box in any PDF Application like Adobe Acrobat Reader.

Use the Bookmarks facility in the PDF to directly go to the pages containing Highlights.

For Reference See Pages: 959.
For page numbers, see the page footer. Page numbers are in 'Page x of y' format

References by: RealPatidar.com - Created using: step2-QR-and-3-RM-v5.py

https://archive.org/details/bk177/page/n2/mode/1up

Digitally signed by realpatidar.com
DN: cn=realpatidar.com, c=IN,
o=realpatidar.com,
email=mail@realpatidar.com
Reason: I have reviewed this
document
Date: 2026.02.16 15:14:16 +05'30'

https://archive.org/details/bk177/page/n3/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n5/mode/1up



realpatidar.com

આ ગોધડા ગામ નો ને તાલુકો ને

અ ના ખોાા કુ છ ના છે આ વાડીલ

ગા માં છે ન ના મા આ ડ ર્મા દસ નઇ

ડાહ્યા ભા ઈ ... ર૦૯ ના માસ

મહીના ૨

realpatidar.com

realpatidar.com




realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

~~પેરતઅલી નીખરન~~ લખેવો અબરતાનાવાલેવો પેરતના ... લખવો

૪૨૫ પેરતઅલીનો જાગફરલી લખે છે પાંના ૪૨૫

પછે અરજ ગગીતા લખી છે લખેલો

પછે: પ્રીતમદાસની બારમાસી લખજો: પેરત તો મારે પાસે
હોએ તો ગીકુનાકુ આમારે પાસે છે તે આમ પોતે લખ ... મેરબાની કરજો

નેતો મારુ લો ... વાનામનતદેસ

https://archive.org/details/bk177/page/n9/mode/1up



realpatidar.com

| | |
|---|---|
| १ | जुगवांदसास चलख्षछे ... गताळीओछे |
| २४४ | भभाक्रेतनाळुलख्षछे तेनापरोला: ८०३ |
| २५२ | रक्तासंगवादलख्षछे तेनापरोला: ६५० |
| ३३९ | अरनंनपरछालख्ष छे: तेनापरोला: १५० |
| ३४९ | नंनतनाळुलख्ष छे: तेनापरोला: १५१ |
| ३५५ | ईरनुरोनानलख्ष छे तेनापरोला: ८ |
| ३५९ | नरसापतानाहुडालख्षछे तेनाकडया: ७ |
| ३८४ | नागडपाडालख्षछे तेनाकडया: ७ |
| ४०३ | मांमांरांपनावसावकालख्षछे: |
| ४१० | पलीपरतरुपलापुतकीनावुधा: |

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n10/mode/1up



२

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n11/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n12/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

रासा सोळको: ॥ ३६८४ ॥ तदांतं जे अेक दांन
करतवा की स्वामीना: नारे अेक दि आनं नर
नेन रेकितवा: तारे दद्दाकार की तां की स्वांमीना:
श्री नाशांऐ कावा यां: तं जे सो कां की सतगुरू: तारे
न का साद: न का सबद: न का नाद: न का वेद: न का
अंकार: न का क्षितपत: न का नवा: न का थिवा: न
का दरती: न का आकास: न का नीर: न का कैलास:
न का चंदा: न का सूर: न का तारा: न का मेर: न का इ
न्दु: न का मंडल: न का पवन: न का पांणी: न का अं
डा: न का पांडा: न का वेद: न का वेद: श्री सतगुरु

realpatidar.com

realpatidar.com



रम रपावाआं: कृतं प नें प्रछ कानाराइएसा देव: अ

जांकांधी पंना: आद पार संग: अजे नानाळ धांका

स्वामीजी: देव नें ना: अर नें नग: श्रीनाराइएसा वा

आ: तं प सा सा का सतगारू: नें आद पूर संग पंना:

तें आ पा: आ पगा: तें करावर पां: पें ठां सर नें तें कास

तगारू: न कातें सें पातां: न कातें सें पें तां: न कातें सें

पारनां: न कातें सें पं दवां: न कातें सें सगा: न का

तें सें सूदरा: न कातें सें पारसां: न कातें सें जपसां:

अपापारसाजपसा तें अगा सरंग: कासतगारू:

तारेन रनाराइएसा: तें अगा सरंग: कासतगारू:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n15/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n16/mode/1up



realpatidar.com



धान रांखो कुवचासः ते=अं कुवारजा द्वि छना स

=अवतारः ॥ ३५॥ द्वरनंते कास्वाजा सत गुरुः

=अं कुवार=आद द्विनाद: =अ लख न रं नं नं गः =अ

वान रनारां ऐ भानो रंगः तहांनी ल॥ १॥ नीलथी

=अंनील कुवाः ॥ २॥ =अंनीलथी सुन कुवांः ॥३॥ सुन

थी सांन कुवांः ४ ॥ सांनथी जे=आन कुवांः ॥५॥ जा

=आनथी गे=आन कुवांः ॥६॥ गेनानथी प्रांहांगे=आन कु

वांः॥७॥ प्रांहांगे=आनथी नुर कुवांः॥८॥ नुरथी तेज कुवांः

॥९॥ तेजथी नव कुवांः ॥१०॥ नवथी कुवार कुवांः ॥११॥

कुवारथी कवार कुवांः ॥१२॥ कवारथी कुवच कुवांः

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

५

धारि आरवांसा: ॥२८॥ आर वांसा=आधारि आर
जुग: २९ आरजुग=आधारि आरगोर: ॥३०॥ आं
रगोर=आधारि सरवे संसार: ॥३१॥ सरवे संसार
आधारि तेत्रीस क्रोड देवतां: ॥३२॥ तेत्रीस क्रो
ड देवता=आधारि सात सरंग: ॥३३॥ सात स
रग=आधारि सात सांईर: ३४ सांत सांईर=आधा
रि सात दीप: ॥३५॥ सात दीप=आधारि नवखंड प
रथवी: ॥३६॥ तथा=प्रिथवी सब परबत: ॥३७॥ =असंख
नर नें नाग: =प्रिवाछिता सब=अवतार: ॥३८॥ =अवतां
र हरनें तेना सतगुरु: ॥३९॥ श्री सतगोर ब्रह्मां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n19/mode/1up



realpatidar.com

वाचाः तंजे सोःआ हि जनाव से: नरना रांए आ
परसा दिः संसार गारुडथां तः हि स्वामीजीः तार
आद हिनाद हि तपतरचनाः नहि चंद्राः नहि सूर
जः नहि पवनः नहि पांणीः नहि धरतीः नहि आका
सः नहि नीरः नहि कैलासः नहि रूपः नहि रेखः
नहि संसारः नहि संजोगः नहि पारसांः नहि जाप
सांः नहि पाहिः नहि पांआः तारे आदनरंजनः तं
जे संसारना पांआः हि स्वामीजीः तंजे परथमः हि
तथकाफ सा हिपाआंः फे साथां कीई कुनी पाआंः त
ई कुथकार संत रचनाः तंई कुछ दिवसआता

realpatidar.com



भा: १ नरनारांएणा: ॥२॥ द्वपाकेसरनापूजा
करे: ॥३॥ तेने आवागवननाफेरा टळे: आस
तगार भरे पांवा आ: तेजे सोसाहाजुनावरा:
स्वामीजीमसारोभासत: ॥४॥ सत द्विपर दरमा:
॥२॥ दरमा द्विपर गर्भा: ॥३॥ गर्भा द्विपर नाला: ॥४॥
नाल द्विपर सेसनांग: ॥५॥ सेसनांग द्विपरद
यमा धोरी: ॥६॥ दयमा धोरीनां सोग द्विपर म्मो
करांई: ॥७॥ अे रखी ने तनं करानां: स्वांमीजी
अे सेसरनी मांई: ॥८॥ तेतजे सोसाहाजुनावरा:
गड जेरनीपारतां: श्रीनारांएणा करतपंग: सत

realpatidar.com



गीरखअरंपांप्रछते: कासवामीजी: तेगाडपीरजी
तां= श्री पूनीनानदिआछे: तेपूतां= श्री पूनीनान
नो= श्री पी कीगाडांछे: पूतां= श्री पूनीनानअंअथ
सतारछे: तेनेदपूथीकासवामीजी: देवननेना
=अरननी: श्रीनारांएसावाआं: तेपेसांसांकी
सतगरु: = श्री गाडपीरनावारतां: पांचलाख
नेसावासहनारनीनन: ॥५४००००॥ तेग
डपीरदिआछे: पीलाखनीनन: ॥२०००००॥
तेगाडपीरनो= श्री पांगाडांछे: पीसांलाखनीनन:
॥१५०००॥ तेगाडपीरजीअंअथसतारछे: कास

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n23/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

८

कुंनीनं न तर कोड़ा रूपं गः ॥४॥ कं तां=श्री कुंनीनं
न हाथा रूपं गः ॥५॥ =श्री नेह कुं हांसवाथा जःद्दे
पनीना=अरनीनोः श्री नाशाए सावा यांः तेज
सोसा हांस तगा रूः तेगाड पीर नी धार तांः प
आसह नार नीनानः तेप आंसा रूपं गः ॥५००००॥
पांसठ हनार नीनेनः तेलोहां रूपं गः ॥६५०००॥
=श्री कुलाख नें=श्री कुंहनार नीनेनः तेतां आ रूपं गः
॥११०००॥ =श्री कुलाख नेंप आसह नार नीनेनः
तेतरकोड़ां रूपं गः ॥१०५०००॥ खेलाख नीनेनः
तेहाथा रूपं गः ॥२०००१०॥ =श्री गाडपीर नी धार तां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n25/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n26/mode/1up



realpatidar.com

૨ ડૉ. શ્રી માધવરામજી

જુદા પ્રયાગજી

સત્પંથના શાસ્ત્રો ચોરી પ્રકાશ ખુલાસુ

હુત રોગનાશક ઉદાનજી વિધાનમાં

પાયેજ તમો નિબંધ લખો છો

તેમાં પ્રસ્તાવના નથી લખી તે

દીયા આદરમાં લખ રહુ

જ્યારે લખાઈ રહે ત્યારે તમોને

પાછા મળે તો આપશો ન ફાડુ

નિબંધ તથા ઉત્તર પત્રવાળું

રહેલ છે તેની પુર્તિ કરી દેશો

દીલાવર છે તેવા રાખશો

નાખીને આપી દેશો

લી: ડૉ.શ્રી માધવજી રામજી નાગરીત

પાત્ર સો

ડા.શ્રી પગાશ્રી માધવજી ના દેનદાર

realpatidar.com

realpatidar.com



realpatidar.com

realpatidar.com



र॥ अंतेता आनापतें आद्द स्रुणा:॥३॥ प्रत्तरपानां
प्रतं पंतनीपाआ:॥४॥ अनपचाआनापतक्
पंन द्वि पनावंत: परंपे सरंगकृहः साहा सेप
दूंप: द हातें आद्दपरपे सरंगः अंन तन्कृगपराप
रतंतः पंन छापापंनः आपद्वांनकृरतपंगः अंत
रश्री सांनांपपरकृास: आद्दपूर सनोतहे पंत
पां: आपद्दे ष्पांपंनां आपना ओ: सोहु ओ आपक्
र: कृरनीपां ओ सोना ओ हकृर: परपे सरंगः अ
रसपद्वि ह पपां: अे सोपे स्रुष्पनापेकः तेसपद्वि
परंपे स्रुरः द्विपाईसोक्रः तकृष्पकृंपालद्विपरः प

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n29/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n30/mode/1up



realpatidar.com

१०

इआंना सरंतेः तेहु इआनांः सपतपाताल धरनंतेः तेहु
इआनां इक्लुपासेः अरपांउ सरनंतेः तेहु इआना आ
रपांध सरनंतेः तेनूरनी नं पाखा आंलुपां हेथीः आ
दगरी तेनां अंदर पांपे इआछेः तेनूरना कुंआ आंलु
पांहेथीः आदगरी तेनां सुरन पे इआछेः तेनूरनां आं
फ पांहेथीः आर पवंन पे इआछेः तेनूरना अंरखापां
सेथीः आरनां जेपांखा पे इआंछेः ते पांखा अतंतरतप
करीनेः पेरांर सरूप पांअंतः पंवनवा सनगरीतंग
नवेतः तेसपवंन पांखापाहेः परजे सरलुहेइओः
इआपनूरनां वार नदइआंतः तेनूरनां नं पाखां नेव

realpatidar.com

पाकिंधी· भारनूपांजुां छे छेः ॥२२॥ तेनूरनां डांभांनेत्र

पाकिंधीः सांधनूपांजुांछे छेः ॥२५॥ तेनूरनांपारने

नोनदा=भोवेकिछेः प छे पांसापरपेइ=भोः तेनूरना

नेत्र पाकिंधी नोसरंतः तदांजुांसदांपादसत्रवेतः

सपतपांतांपनेः ॥७॥ =भेनूपासपरंपाकः ॥२४॥

तेपेर=भाधारेनूरतवंगः छपंननूरोडपसचाः

॥पद्०००००००००॥ द्विपनांवंतेपेदांसः =भेनू=भेनूपासे

धीकुपांः पांसापां सेधा=भसरनूपा· परभतद्विपनावं

तः पे रांरपांनूपपद्विः सपांईसः ॥८॥ =भेसां=भापुां

सर्छः नेने भेगागारनूकि छेः तेनूसूसूनापछेः

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

२२

वरार स्रु न पा कुं वा सपांईल: श्रीं कोसंसंनीगा:

पंचन सपाईला: पांकागागि जश्रीं त सपद्वि थी: पर थ

पापा सर टकाई: सीकु लगु का कांरन विका: पखां का

गागि जश्री: त स पां हि थी: श्री सर टकु वापर लतकु वां: ॥ ८ ॥

श्री कु वी सि स्रु रंगा कु वां: ॥ २२ ॥ सपत पाता का कु वां:

॥ ७ ॥ सिख पूछ ते का स्वा पीजा: श्री सपत पाता वा तें

कु पंन: त सपा द्वि कु पन रांना: तां कां कु वंन पर नां: कु

पंन वि पार नो कु वंन चल का: त ने ह कु था का स्वा पीजा:

हिप नं ना श्री रनं ना: श्री ना रांइ का वा चां: त पी सा सा का

सात गा रु: श्री सा ते पां तां का को रसं ना: पं वंन स नीगा:

realpatidar.com

पखांसाखांद्यां: तेनपपाहि: =अे कु =अे पाकुराने खांद्य
खांद्यां गुसतगुरु: प छ नीलनारालने: पवंनकेरा
=अां: प छे पवंन नारथानलला =अां: सेख पुछे तेगुखा
पीण: प छ तेकुवंन: नी लांरंन तेकुपंन: =अेनेद
कुगु दे पनेना =अरंनंना: श्री नाराइण वा या: तंप
सोहा गुसतगुरु: प छ नांप तो आरदरनंते: पेलां
नांप तो प छ कुगु =अे: ॥ १ ॥ बीजां नांप तो बरपांकुगु
=अे: ॥ २ ॥ त्रीजां नांप तो पडी बरं पांकुगु =अे: ॥ ३ ॥
चोथा नांप तो सतपरंपे सरं कुगु =अे: ॥ ४ ॥ तसेची
लो पुगा पुंडे छे: तेने प छ पुंडे छे: =अे कत थाहुस रो:

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

નાંવ રાંદનાં છીપે: ગગનમાંન સમાંણે પવંનનાં ઠેસ:
ણે સાંનીરાલંગનાં માતેયારછે: તેનાં માલુવંનલુવન
છે: પેલાંનાંમ તીણાભલુગીણે: ॥૧॥ બીજાંનાંમતીણે
મરતલુગીણે: ॥૨॥ ત્રીજાંનાંમતી નેમાલુગીણે: ॥૩॥ ચો
થાનાંમતી ગંમગંમલુગીણે: ॥૪॥ તેણાભણેમ્રતી સરૂપં
ગ છે: પરમમણેતનાં સ્વાંમાલુરતવંગ: ણેતાંમરથ
મપાતાલભાંદેતે: સેસર સરવેધાંગંતે: તદાંલુર
તવંગ: પરંમે સર સ્વાંમી: ચઉગીગી વંન સમાંઈલે:
પવનસરૂપીદેગીલુરતવંગ: તી સમેનાંમનીરાલં
ગ: પવનમેરાં: તેપંવન ગાંરઠેગલાણા: પરથ

realpatidar.com

realpatidar.com

९३

पानी रां लंगा: ते द्विप र पवंन: पवंन द्विप र पांसाी:
ते पवन पांसा नो डिनो: प प्यां सा छू र त पं ग सो सत
गरू: प्य र पां पुछे ते सो स्वांमी: श्री नारांएण सा वां प्यां:
तं पो सो सो सो पछु नी व रो: ए गां ड जेर नी वार तां: पर
थ ज पा ता जा सरनं ते: प रं थ ज प पवन द्विप र पांसाी:
ते पंवन पांसाी प प्यां सा: गां ठ वी ने प ड प्यां द्यां छे: पां
सा प प्यां सा नो डा नो: प र थ जी नी पा ठ प्यां द्यां छे: ए वा
री तें ए वां सा त पा ता जा नां प्यंद प्यां द्यां छे: ते तं ज सो
सो सो सत गरू: प र थ ज पा ता जा नां प र छां: श्री सु तगां
र प्य र पा वा प्यां: ते पं सा पां ता जा नी र प्य नां: छू सो ६

realpatidar.com

realpatidar.com

वनेनां=अवरनेनाः श्रीनारां=अभेलावाआंः तंमे सोहा हो
सतगुरुः परथमपातांमानुनांपतीः पछ वुठा=अभेः तेम
छतपातमाछेः तसमपद्दि रांनां पछ रांनां वुरे छेः ते रां
नां पछ नी दिहानां परंपांहासलआं छेः ते तं मे सो हा हा
वुनी वरोः परी ससांग्न नो नं नः ॥ २५००००० ॥ तेम
छ रांनां सांआं छेः सां तसांग्न नो नं नः ॥ १०००००० ॥ तेम
छ रांनां द्वि आं छेः=अभेवु सांग्न नो नं नः ॥ २०००००० ॥ तेम
छ रांनां नांपरसांआं छेः तेम छ रांनां नां=अभेया वुः
वसतारलआं छेः ते तं मे सो हा हा सतगुरुः तेमछ
पांतांमपद्दिः=अमसरदेसां मांहिः दोयांद्दसलंगाछेः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n38/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

છે: તેજ્યવનેં સંખ્યલાંનાં: સરખી દ્રિનિ ખાદ્દકા છે: તે
જ્યવનેં ખેખે દ્દકા દ્રિ છે: ॥ ૨ ॥ તાંનાલાંકનેં: ઐકદે
કા ખછનો છે: ખો જ્ય દ્દકા ખાંકા સનો છે: તાંકાનાંલાંક
જ્યવાનેંન: કરતગા રાંખાં: ઐ છે: તાંકાનાંલાંકનેં પાં
ચસે: વરસનો: આવરદાં નાંગાવે છે: ॥ ૫૦૦ ॥ તાંકાંખે
રપરખતનો: અરદ્દા પરડાં: અ: ઐકસંગાં છે: તેસં
ગાંખાંકે ખેકા રાંખા છે: તેખેકાન નાંખાતાં સાંખાવંત
કે છે: સાતકનાં રખાનેંન: ॥ ૧૦૦૦ ॥ તેખેકાનો ખં
ખવસતાંર છે: ઐગાકા સકરાંડ ખાનેંન: ॥ ૧૨૮૦૦૦૦૦૦ ॥
તેખેકાન: અનવાકાપડ છે: તાંકાં સદ્દા તેખેકા ચાંરખા

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n40/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

पछपाताळ: सपुरणां छे सही: ॥ ॥ [illegible]

रनपाताळनापरछां: श्री सतगोरअरपांवांआं: आ
नां क्रोरनपाताळनीवारतां कुहोरयांपीज: ईवर्न
ना=अरर्णनो: श्री नारांहेमावाआं: तंपेसो क्रोहोसत
गरू: आनांक्रोरनपाताळसरर्णते: तेआनांपाता
ळनुनापतो: क्रोरनकुहो=प्रे: तेसपाताळपहुं: रांनो
क्रोरनरांनकुरेछे: तेरांनां क्रोरननापरपांसलखा
छे: तेतेपेसो क्रोहोकुनापरो: सतांवासलाखनोर्न
न: तेरांनां क्रोरननां अंअवसतारछे: ॥२७००००॥
=प्रे कुलाखनोर्नन: तेरांनां क्रोरननांपगलां आछे:

realpatidar.com



૧૦૦૦૦૦ ॥ પાંચ ક્રનાંરનોનેન: તેરાંનાંઘ્રોરંનના
નઅલાંઆંછે: ॥૫૦૦૦॥ ઃઐઋવાસલાંઅનોનેન:
તેરાંનાંઘ્રોરંન ક્રિઆંછે: ॥ ૨૧૦૦૦૦૦ ॥ પચીસ ક્રનાર
નોનેન: તેરાંનાંનાઅરતાઅર છે: ॥૨૫૦૦૦॥ સાત
ક્રનાંરનોનંન: તેરાંનાંઘ્રોરંનનુ પાસતગા છે: ॥૧૦૦૦॥
ઃઐઋક્રનાંરનોનેન: તેરાંનાંઘ્રોરંનનાં પાઅ છે: ॥૨૦૦૦॥
ઃઐઋક્રનારનોનંન: તેરાંનાંઘ્રોરંનનુ તા પુ છે: ॥૨૦૦૦॥
પાંચ ક્રનાંરનોનેન: તેરાંનાંઘ્રોરંનના વાંસા છે: ॥
॥૫૦૦૦॥ એક ક્રનારનોનેન: તેરાંનાંઘ્રોરંનનુ પ છ ડલા
પ છે: ॥ ૨૦૦૦ ॥ સાત ક્રનાંરનોનંન: તેરાંનાંઘ્રોરંન

realpatidar.com

ના:=અંદરસલાં બાછે: ॥ ૧૦૦૦॥ તેરાંનાં ક્રોડ રેનનો:=અ

ઘો કુપ સતાંરછે: ઠાં સતગરૂ: તાંઠાં બીનાં ક્રોરેન

પાંતાં જપદ્ધિ:=અસર દેસાં પાંહિ: દોપાં દસંસંગ છે:

॥૨૨॥ તેની સલાયાં:=અંકુલા અમીનન: આ છે:

॥૨૦૦૦૦૦॥ પચાસ હનાર નીનંન: તેસંગાવો પાર તા

પોર છે: ॥૨૫૦૦૦૦॥ તેપાતા જપદ્ધિ=આચદેસાં પાંહિ:

=અંકુ જેર પર અતછે: તેપાં ઝલાં અને આઝાસ

હનાંર નીનંન: જેરપર અતઠ્ઠિઆ છે: ॥૫૪૦૦૦૦॥

=અઠાવંન હનાંરનીનંન: તે જેરનોપાર તા પોર છે:

॥૫૮૦૦૦॥ તેપાતા જપદ્ધિ રાંના ક્રોરનરાંન કુરે છે:

realpatidar.com

realpatidar.com

२७

तरांनां क्रोर ननां जस तज ढ्ढि पर: ऐक जोसारां
णी छे: ते जोसा नु नां पतां: पर कांस यंत जोसा
ण छे: सांत कनां रनों नेंन: ते जोसा नां वंबवस
तार छे: ॥ १००० ॥ ते र क्रोड नें चरसा कनां रनों नेंन:
पांक जोरासानु अर्नवा वाकु पडे छे: ॥ २३००३००० ॥ बांक्र
सरवे टांप अंधकार छे: ते पाताल पांढे सांत क्रोड
नोंनेंन: पांक पांसाना रू छे: ॥ १०००००००॥ ते पां कछ
क्रोड नोंनन थ काछे: ॥ ६००००००० ॥ ते थ का पांके स
सता न पांई छे: तां कांना सां कुनें जीजी दे ढ्ढि छे: ऐ
कुदेता क्रोर नना छे: जो ज्ञा देता पांसास नां छे: तां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n45/mode/1up



हांनां लोकुनां रे पांसणा पांहि: आरसेंवाणां आछे: तारे
कारन नां इंद्रगधां आछे: तेना रे थ पा पांहि आवे छे:
तारे पांसासनां इंद्रगधां आछे: आपुरांन तांहां कारन
करे छे: ते रां नां कारन न ने सातरांगा छे: ॥ १ ॥ आंने
पांनी तेनां सरवे परवार छे: ते रां नां कारं न नां रे च्यार
पार: प सतगाम्या हिररा आछे: तारे तेने आनु आ पाहा
प सधां आछे: ते रां नां कारं न प सतग: नां रे परपांहि
लईनां आछे: तांरे तांहां रांत प दे छे: आंने सरवे धपपां
हि आंद क्वांरथां आछे: तांहां नां लोकु ने प सेवरस: ना
आपरहांनां गावे छे: ॥ २०० ॥ तांहां वेरांर सरूप छे:

realpatidar.com

realpatidar.com

२८

तेवरार सतूपयांहि: सरवे संसार छे: सात पाताळनां:

गा ज्ञांनवास्तव रंगांकु: ॥ २४ ॥ ते सरवे धणीयां हे छे: आ

नांक्रीरेन पांताळ सात्यां: प राजेश्वर तेहां सतगुरु: ते

पाताळ पछि: फेर परब तनी सलाम छे: ते हिमरचीनां

पांताळनु पडयांदु छे: पाताळ लोकां वास छे: ॥ २ ॥ श्री

रंगा: ॥ २ ॥ सपुरस छे: संसार पतनावे: ॥ २ ॥ हां सतगुरु:

॥ ✿ ॥ श्रीनां पाताळनां परछां: श्री सतगुर रूप रूपांवा

आ: हां स्यां प्राण: कवेचीनां पाताळनी वारतां: कुहि है

वर्णनां अरनंनां: श्रीनारायण वाचाया: तेणे सोवा हां

सतगुरु: श्रीनां पाताळनु नां पतां: गनंद रूप हे छे: तां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n47/mode/1up



मां रांणी गानदर रांणकुरे छे: श्रीनां पाताळ पद्द दांवा
दसलंगा छे: ॥ २२ ॥ =अंकु लां अनांनेन तलंगद्दीया
छे: ॥ १००००० ॥ ते पाताळ पद्दे =अंकु पोर परव्यत छे: त
प आंस लां अनं: आगासक नारनां नंन द्दीयां छे: •
॥ ५४००००० ॥ =अठां वांन कनारनां नंन: तेना आरतोपा
र छे: ॥ ५८००० ॥ ते पांका द्दी परप आंकाना डानें: सात
कनारनां नंन नकुपड आंद्दु छे: ॥ ९००० ॥ श्रीनां पाताळ
पद्दे: रांणीगानदर रांणकुरे छे: ते रांणीगानदरनो व
सतारल आं छे: तेना दिनानकु परपांका: श्रीनारांएण का
कुपत: तेतां पासा का का सतगारू: =आठां लां अनां नं न:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n48/mode/1up



realpatidar.com



तेरांनांगानंदरलाआंछे:॥८०००००॥ =अेकलांखनी
नेन: तेरांनांगानंदरद्रिआंछे:॥१०००००॥ अत्रीसहनां
रनांनेन: तेरांनांगानंदरकुप्रछदुलांप्रछे:॥३२०००॥
सांतहनांरनांनेन: तेरांनांगानंदरनांअेकांनपांआं
छे:॥७०००॥ अेकहनांरनांनेन: तेरांनांगानंदरनी=आं
प्रछे:॥२०००॥ पत्रीसहनारनांनेन: तेरांनांगानंद
रनांदातांसधलांआंछे:॥२५०००॥ =अेकलांखनेन
पहनारनांनेन: तेरांनांगानंदरनांदिहानांपारछे:
॥१०९०००॥=अेकसोनांनेन: तेरांनांगानंदरनी: =आ
खनांनेत्रलांआंछे:॥२००॥ =अेकहनांरनांनेनस्व

realpatidar.com

छी: तेरांनांगानंदरना स्रुछ लांबा छे: ॥१०००॥ पन्ना स
कनार नीनंन: तेरांनांगानंदरना प सतगुना फेर छे:
॥२५०००॥ रांनांगानंदर तांहां=अेक रांनकुर छे: तेतो
पली=आपगार सरखो छे: पांच करोड नीनंन पांहे:
तांहां पांणी नरु छे: ॥५००००००००॥ आंकुं सरवे ठांपध प
पांहे=अंधकार छे: ते=अंधकार पांहे कोई रहेता नथी: ते
पाताल पछी पीर परबतना: =अर्द्ध परघा=अे छे: =आठ
कनार नीनंन स्रुधी: =अेक संजा कोडा छे: ॥८०००॥ तेसं
जा पांहे=अेक पीलारांखा छे: ते पीलानु नाप तोन्रुरदेवं
तो कहे छे: पांच कनार नीनंन: पीला नो फेर छे: ॥५०००॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n50/mode/1up



realpatidar.com



मर्हिदवरोडणोनंन स्हाः तेपोसानुं=अनवांधकूप
डछेः ॥ २४००००००० ॥ भाजुं सरवे ठांप=अंदवुंरांर छेः
तेपोसाआरपोरः सांजांथा भार=आवे छेः तारे सर
वेनांगापाकिदाव सथा=अे छेः तेपोसा आर पोर सांजां
पांकिनां=अे छेः तारे तेनां=अेगापाकिरांतपडे छेः तेपां
ताघ पाडु आरांसा लांभजवानोनवसे छेः॥ ८४००००००॥
तांकिांनांलोवूनं भेभे हेंका=अे छेः=अेवूहेंकागानंदरना
छेः भाजुहेंकापांसासना छेः तेवांन सपतनो=आरले
पांनां=अे छेः तारेगानंदरना हेंकाथा=अे छेः तेवांनपांकि
थानां=अे छेः तारे भांकिर=आवे छेः तारे पांसासना हेंका

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n51/mode/1up



થાએછે: તાંહાં રાજા ગાનંદર એવડું રાજ કરે છે: તે રાં
જાંગાનંદરને પાંચ રાંણી છે: ॥૫॥ તે રાંજાંગાનંદર તા
એ પરછે: બાંધ સરવે જવાંનીન પરછે: આવાંગ
વંન કરે છે: તાંહાંનાં લોક નેં એક સો વરસનાં આવ
રદા છે: ॥૧૦૦॥ તાંહાંના લોકના દેહ આં: નવ તાંપ દ્રિ
આએછે: ॥૯॥ તાંહાંના લોકને જ પ્રગત નથી:
ચી જાંગાનંદર પાતાળના સાંભ્યાં: સપુરસા છે: સં પાં
પતનથી હાં સતગરુ: શ્રી પછ રાંણાં: ॥૧॥ શ્રી ઘોર નરા
નાં: ॥૨॥ શ્રી ગાનંદર રાંણાં: ॥૩॥ પાતાળના સા: ॥૩॥
॥ ॥ સાંભા પાતાળના પરછાં: શ્રી સતગોર



realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n52/mode/1up



realpatidar.com



અરજાંવાંઆં: ગોસ્વાંમીજી: ગવે ઓધાપાતાળની
પારતાં: ઘણાં દેવ બને નાં=પ્રગટણાં: શ્રી નારાંઇ ગાવા
આં: તેમે સોહંમી ગો સતગાઉ: તે પાતાંળ માંહે હોવાં દ
સલંગ છે: ॥૧૨॥ તે લંગ=એક લાખ જોજન કીયાં છે:
॥૧૦૦૦૦૦॥ તે લંગ ઉપર ઓધાંપાતાળનુ પડ ક્યાંઉ છે:
તે પાંણીપાઆંણાંગાઉ વાને પડ ક્યાંઉ છે: તે સાત ગણા
રણાં જોજન ને હજાં પડ ક્યાંઉ છે: ॥૭૦૦૦॥ તે ઓધાપાતાં
ળનુ નાગતાં: જાંગાંસઆ દેવ વૈકુ છે: તાંગાં=એ વારચ
નાથ ઇ છે:=અંને તે ઓધાંપાતાંળમાંહે: રાંજ સાંઆહે
બરાંજ ઘરે છે: તે રાંજાં સાંઆ દેવની દેગો: નુપરમાંગા

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n53/mode/1up



realpatidar.com

લખ છે: તંજે સાહાહે સતગરૂ: પાંચ લાંખ નોંન
ન: તેરાંનાં સંખ દેવ ક્રિયા છે: ॥ ૫૦૦૦૦૦ ॥ એ લાં
ખ નોંનેન: તેરાંનાં સંખ દેવ લાં બા છે: ॥ ૨૦૦૦૦૦ ॥
= એક લાંખ ને બાવંન હજાંર: તેરાંનાં સંખ દેવ નો
બંધ્ય વ સતાર છે: ॥ ૧૫૨૦૦૦ ॥ તે પાંતાં ગ પદેવ ના
ખારાં ડ નોંનેન પાહે પાંસાન રૂ છે: ॥ ૩૦૦૦૦૦૦ ॥ બાંધી
સરવે ઠાંપાથ ગ છે: તેથ ગપાંહે સરવે: પાંન વાર રહે છે:
તાંહાંના લોક નો દેહ ન્રુપ રપાંસા છે: તંજે સાહાહે સ
તગરૂ: સતર તાડપાંન વા ક્રિછે: ॥ ૧૭ ॥ તે પાંસા સનાંથ
સગાન ક્રિપરે: સરપનાં સરખા: પાંચ પાંચ પસાં છે:

realpatidar.com

realpatidar.com



प॥ तांहांनां लोकनी देही तोः पांहांकनां सरषी जम
कछेः तांहांनां लोक पां येवसच्चसः पातांनां पेरपां
हथी आवे छेः तेने पने पाहेहावद्द छेः तेम तेमपवस
त्रवद्द छेः तांहांनां लोकने अेक सो वरसनी आव
रदा छेः ॥२००॥ तेपातालपंद्दे अेाचंद्दे साधाहेः पोहे
रपरव्यत छेः तेमां चलां अने आकाश सहनारनी
नंन ह्रियो छेः ॥५४०००॥ तेपेरपरव्यतनी अरद्द
परडा अेः अेक संजारांया छेः ते संजां पांहे पेसारां
ख्या छेः तेपेसाकनाथ तीनां पद्देवेतालहेहे छेः पांच
हजारनी नंनः ते पोहानां पेर छेः ॥५०००॥ तेरकरां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n55/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

પંચક મઘામાં સુર્ય વા. દેડકો ફુલ કાજલી ૩

Thurs16Augu73તા.૧૬-૮-૭૩(૨૮૪
શ્રાવણ વદ ૨ ગુરૂ ભા. તા. ૨૫ શ્રાવણ
मा.मि भा.व. २शके९५ श्रा. कृ. २ गुरु
આસ્પંદાદ ૨૪ રજબ ૧૬ મી. રજબ ૧૮
ઉ. ૬-૨૧ ચં. કુંભ રાત્રે ૮-૫૦ અ. ૭-૪

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

પંચક સંકટ-બોળ ચોથ અમૃતસિદ્ધિ

૨૮૫) Fri 17 Augu 73 ૧૭-૮-૭૩
શ્રાવણ વદ ૩ શુક્ર ભા. તા. ૨૬ શ્રાવણ
मा सि. भा. व. ३ शके ९५ श्रा. कृ ३ शुक्र
આસ્પંદાદ ૨૫ રજબ ૧૭ મી. રજબ ૧૯
ઉ. ૬-૨૧ ચ. મીન અ. ૭-૪

realpatidar.com

realpatidar.com



हेवे अंतर छे: आ खोस रवेजवानीन परे छे: तेल
अझा रांसानो अरोपरे छे: ॥ ८४००००० ॥ एम चोथा
पातालनासांमां: सप्रखण छे: संपायतन वे: तेह
परपायमलपातालथीअंत: को सतगुरु: चोथा आसं
अहेवपाताल: संपायतनवे: ॥ ✿ ॥ पांचमा पाता
तालनापरछे: श्री सतगोर अरेपावायां: कोस्वां
पीछ: कवेपांचमापातालपदे: कुवंनरांना: कुवं
नपरना: कुवंनरयनासरनंत: एगनांनखुकदे
वनंनांअरनंनो: श्री नारांएणावायां: तपसोलाको
सतगुरु: तेपातालपदे देअआदसंलंग छे: ॥ १२ ॥ तेअ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n59/mode/1up



[illegible] ॥૨૦૦૦૦૦॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥૧૦૦૦॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥૬૦૦૦૦૦॥
[illegible] ॥૨૦૦૦૦૦॥
[illegible]
[illegible] ॥૧૨૫૦૦૦॥ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n60/mode/1up





तनां घुप छे: ॥५०००॥ आर फनार नोंनंन: ते रां ना
पेरां फ तनां दात छे: ॥४०००॥ सात फनां र नोंनेंन:
ते रां ना पेरां फ तनी पू सर छे: ॥१०००॥ सात फनार
नोंनंन: ते रां ना पेरां फ तना पग छे: ॥१०००॥ ते रां ना पे
रां फ तना अंखु दात बा को छे: ते पातापाप डे अंगारे
सापाफ: पंफ र पर लत छे: ते पांच सांख ने आ पा
स फनार नोंनेंन के आ छे: ॥५४००००॥ ते पंर पर ल
तनी अर द पर ड अं: अंखु संजा रां खा छे: ते संजा
पांफ अंखु पेसा छे: ते पेसानुं ना पातः पर खा स पंती
खुफ छे: चार फनार नोंनेंन: ते पंसाना लांल प सता

realpatidar.com

र छे: ॥ ३००० ॥ सो काळ रांडनो नेन सहु छी: तेने सानु
=अनवाळ पडे छे: ॥ १६००००००० ॥ तेपातावावद्धे चसा
ळ रांड वद्धे पांसानरु छे: ॥ ३००००००० ॥ तेर ळ रांडनो
नेनवांफ:पवाछे: ॥ १३००००००० ॥ वाळसरवटाव
=अंधळांर छे: तेनेसा आर पार संनाथी वाफर=अवे
छे: तारे तांफांहावसथा=अछे: तेनेसा आर पार संनां
पांफना=अछे: तारे तांफां रांतपडे छे: तेनेसा नुनापताः
दिदनांसवंताळफछे: तां फां नांसांळ नवीवीदफा द्विछे:
=अ ळ दिफावेरां फतनाछे: =अनवीजदिफापांसासनी
छे: तेवंनसपतापाफ=आरसेवांनां=अछे: तारेतव

realpatidar.com
realpatidar.com

सांहेतनी देहाथा=अेछे:=अने मांछाथी वमांहे=आवे छे:
तारे मांहा सनी देहाथा=अे छे: तेरांनां वेरांहेतने मां
मरांहा ह्रीछे: ॥५॥ तेरांनां वेरांहेततो=अंमार छे:॥
माफ्री सरवेजवानेनमारे छे: तांहांनां सोफुने सो
परसनी ह्रीमार छे:॥१००॥ तेमांहा सने=आवागवन
नो फेरो छे: तांहांना जीवलख चोरांसी मांहे रहवडे
छे:॥८४००००००॥ तांहांनां सोफुने. चारपरहा देहा छे:
सरदे:॥१॥ गरदे:॥२॥ साफा:॥३॥ सेत:॥४॥=अेवा चा
रनांत छे: हासतगर: =अेवा मांयमामां ताहानी सा
मां: सपुरहा छे: संमांपतनवे: श्रीमांछमांतां मा:॥१

https://archive.org/details/bk177/page/n63/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

નીર્નન રહ્યા: તેના સલાંખો દ્રિસા છે: ॥ ૨૦૦૦૦૦ ॥ પાંસા
પખાંસાગાગ ઉથાને: છત્રપાંતાળખાંધૂછે: તેસાતફના
રનીર્નન: નેદ્દવેઉરાને પડખાંધૂછે: ॥ ૭૦૦૦ ॥ તેફિપર
સરવે સે સરના પાંઇ છે: તાંહાંવસાળઉરાંડ નીનંનપાં
ફિપાંસાનાન રૂછે: ॥ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ॥ આખાસરવે ધણા છે: તેપ
રની પાંફિ સરવે પાસા સવસે છે: તાંહાં છત્રંપાતાળપ
દે: રાંનાં દ્ધખ પાંગરાંન ઉરે છે: તેરાંનાં દ્ધખ પાંગના
દેફાઉ પરપાંસાસ ખૂછે: તે તંખ સાંસાંફાં સાતગાઉ: સ
તાપા સનીર્નન (લાખ): તેરાંનાં દ્ધખ પાંગલા ખાં છે: ॥ ૨૭૦૦૦૦ ॥
પાંન રસાંખ નીર્નન: તેરાંનાં દ્ધખ પાંગનાં ખાંખવસ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n65/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

२७

कृतिका छे: तेरांना द्वअवांगा घोरा=अंबर छे: आली
सरवेणुयानीन परे छे: तेपातावापद्दे=आन्दे सां
पाति: पेरपरअत छे: तेप यासलांअनेयापास
हनारनीनंन कृयां छे: ॥ ५४०००० ॥ =अकुलाअने
पयोतरहनारनीनंन: तेपेरनो पारतोपार छे:
॥ १७५००० ॥ तेपेरपरअतनी=अरदअरडा=अ: =अकु
संजांकुरा छे: तेसंजांपाति=अकुपेसारांपी छे: यार
हनारनीनंन: तेपेसानो पार छे: ॥ ४००० ॥ तेपेसाक
नापतो:=आदसंकुरवंतीकुति छे:=आठारकुराडनीनं
नसरुद्वा: ॥ १८००००००० ॥ आंकी सरवेठांप=अंद्वकार छे:



https://archive.org/details/bk177/page/n68/mode/1up



realpatidar.com



रासीनो फेरो फरे छे: ॥ ८४००००० ॥ तेमां कोड नरगा:
कोड सरगा: कोड रसातालना जीव: ते छउ वांद अवां
गपातालनी सांधां: सपुरसा छे: संपापतनवे:
॥ ६ ॥ तेद्विपर सातपांपाताल आद्वां छे: तेरांनां द्व
अवांगनां सागद्विपर छे: ना सतगुरु: श्री पाछपाता
ल: ॥ १ ॥ श्री कोरनपाताल: ॥ २ ॥ श्री गानंदरपातां
ल: ॥ ३ ॥ श्री संखदेवपाताल: ॥ ४ ॥ श्री वेरांफंत
पाताल: ॥ ५ ॥ श्री दअवांगपातांल: ॥ ६ ॥ पाता
ल छो सपुरसा छे: ॥ ६ ॥ ना सतगुरु: ॥ ॥ सात
पांपांतालना पर छो: श्री सतगोरं अरंपांवांसो:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n69/mode/1up



हो स्वांमीजी:: हवे सात तंमां मां तालम हि:: कुवंन रांनो::
तां हां कुवन रंग्रनां सरनंतः तेनो दकु हो दिवनंना श्र
रनंनो:: श्रीनारांएणवाचा:: तंम सो णो हो सतगुरु::
हवे सात तंमां मां तालम हि:: रांनो परनांनों वसतार
छे:: तांहां सातमां पाताल तलो:: दो श्राद संलंग छे:: ॥१॥ र
श्र कुसाम्रनोनंन:: ते लंग द्विया छे:: ॥२०००००॥ ते लं
गनी ससांख्या छे:: तथा द्वम जंगनां सागडां द्विप रः
पंवन पांसा अंग्र आं सा नो जने:: द्विपरां द्विप रंगां ठ्वां
छे:: श्रकुसांमनं आं वंन हनां रनोंनंनकु:: पडपा
तालमां दूछे:: ॥१५२०००॥ ते सात कु पाताल:: श्रवे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n70/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n71/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n73/mode/1up





realpatidar.com



संख नांगने छे: ॥१०००॥ तेरां सेंख नांगनें नांरखू
खेधी: अेक थंत आपर जेसरनें नपेछे: तेरांनां
संख नांगः संतस तोफेन पेछे: ॥१०००॥ तेरांना सं
खनां गनां पूखपाहे: सात कोडें अंपरतनां पारां
छे: ॥७॥ ते सात पांपातांपाहे: चंद्रपां सूरन नप
डपा फरे छे: ने पाळु आपा पीरहेरनी: धारपां पा फरे
छे: ते पा चंद्रपां सूरननां अफरफरे छे: ते अळु आनां
डावडां ने फेर फेरे छे: ते सतगरु: ते पंछ पहे सांपा
हेथी: सातपा पातां पाहे हुत रे छे: ते अळु आनां दां हिडां
ने फेर थईने: सात पा पातां पाहे: पंछ पाखआपाहे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n75/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

realpatidar.com

३२

कुपानागः॥२॥ चाषतनागः॥३॥ अेवांचसनागः
तेपुरव्यदेसापांकिरांनकुरेछेः॥२॥ संखोदरनागः
॥१॥ अनांनंदनागः॥२॥ वैताळनागः॥३॥ अेवाचस
नागतेः पछपदेसापांकिरांनकुरेछेः॥३॥ अेवानव
नागतेः चसदेसापाकिवसेछेः अंने सोधी देवस
देसापदेः॥२॥ रांनावपरांनकुरेछेः तेरांनावप
नीः तेहांकिगतसपाछेः ॥ ✿ ॥ तेवेसुदामारत
गरः सोधीदपसदेसांपांकिरांनांप पाने रांन आ
पछेः नारेते रांना पपानं: पातापपांकि सोपा छेः
तारेआनारां एसदेवेः सा...देकुकुरांछेः नारेतेरां

realpatidar.com

नांभवपांसेः साधाचरणापांत्रीं दइराधागाछैः॥३॥
तारे सरवेपरथेपाः चरण ३ गसाथिइछेः॥३॥ तवेपाञ्ज
अरदुद्गलः परथेपापजरा छैः तारे श्रीनाराएणदेवः
पापान ३ पेकुवासागाछैः अवधपारांना दयेअरदु
दगलः दरती पजरा छै तेआसोः तारे अवधपारांनापोहोना
दिधा अकुवासागाछैः अट्टे पांदारांनतं पेनादांदे पोः
तांदांथी दरतीपापीलेओः तारे श्रीनाराएणदेवः पाप
न ३ पेकुवासागाछैः दअवधारांना तंपारादेनाः परथपा
थाव्यानछैः तेपादिथानरामेंआसोतांछैः तारे अवधारा
नांकुवासागाछैः दांरे स्वांपी तंपेकुांछां ते सायीवात



realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n78/mode/1up
2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)
realpatidar.com



छे: धांडुस्यांगीजा तेमानेगमेतो: अंमारा हेरा पंसाते
मो:आगाल छे: तारे श्रीनारांजे साहेब: ते धांमान रू
पे रांनी अपमानो: मसत गद्दिप रमा आंमें लख्यां छे: ते अप
मरांना ने सातमे पाताल: हअलाहे सामांके आपो छे:
तां हां श्रीनारांजे साहेबना मगा: ते अप मरांनां अंम ताथ
पडे: तमामगना आंधा सवालागा छे: कये स्यांगी
जा अंमारा हेरा तो अफिपछला छे: ते तेमने अखा कसे:
तारे श्रीनारांजे साहेब: नोहे आ आवा छे: तां हां अप
रांनां अंमे आजा हेरा द्वरा छे: अंने ते सरवे ठांमे हाडे
छे: ते अप मरांना तो सरदा: पाताल: ने मरतलोक:

realpatidar.com

એવા ચરાચરી નાં વંન પાહાડ હોઈ છે: ॥૩॥ તે અપારાંના અં
તા અંપનાં રહે છે: ને કાંઈ ખાસી નાં અંગા હોઅ: તાંહાંને
કાન રહે: તારે તેનાં હાંનકને નકઅંતો: તાંહાં શ્રી નારાંએણ
દેવ નાપગ છે: અને તાંહાં શ્રી નારાંએણ દેવ નેનપે છે:
તારે નંગાં પાંઅપારાંનાં ને: દેવ પઈ આપ પાહાંઆં પા છે:
વળી તેનાં અંગાપાં આવાને: અપારાંનાં કે વાલાગા છે:
અરે પાંહાંરાંને અંપે અંટ લાહાં નપુન કાંહાં છે: તે નયા
રસાં નગાન કાંહાં છે: તે પુનને આસ સાંકે નહી: તારે
શ્રી નારાંએણ દેવ ને દે આ આવા છે: તાંહાં શ્રી નારાંએ
ણ દેવ: અપારાંનાં ને દપરણ દે સાં પાહાં: પાતાપાકરાં

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n80/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n81/mode/1up



अने संसार कुपावरतेः तेमारे देखता हे जेसनोगे
छेः अेतो श्रीनाराहि सादेखेः तोहां अवधारांनां नेकोल
दादाछेः जे आरपाहनां करतनथीः नारे ते अवधारां
नानेः देखे देवस्वादे सांकः माता मामाहि रांन आलखछेः
तारे अवधारांनां तो पारत सो कुपांहेः आवानेः इसप
रः आगामः आवाने तप सांकादाछेः तारे पांहां रूदरप
र सांनथेः आछेः अने मागमांग जे मागसो देहेः तारे
अवधारांना केवालागाछेः हारे स्वामी गुरुनने सेस
त रूनदेः अोः अे सेवर देः अोः जे मा सनवसा पिलखा
इपरुः अने मारा दावा लेहेः तारे श्री सांकर कुवां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n82/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

realpatidar.com



सांगा छे: ने अधातम ने पांन पांनो पर आसो: प छे ते
दईत अधरांना तो: धरत सो कुपा कि आधी नो: सं
सचा अरनें न आपत रो: ते दईत सं सचा कम न स
आपत रो: अे कू अे कूकुने सं सचा कि स तीम अधादी
दु छे: ॥१०००॥ अे सो पर दईत ने ईस पर दीदी छे: अे
ता श्री नारां ए सा दे वे: अ धरां नां ने कोल दादी कु तो:
ते धाटे मार पकी नां पांन तारां भी छे: ते धाटे कुर अ
सो कु वे धार कुरतां न भी: ते सो कु कु कि छे ने दे व सु तां
छे: पं सा दे व कू पा सर अे: अे तां वा सन वे आ प सां कुं
स भा त्र: अे धा पां न तां दीदी छे: ने अ धरां नां ने दअ

realpatidar.com

realpatidar.com

ऱादिसांनुरांनं=आस्रछेः तेअधरांनांनी=आसाहनःकि:
नेंकांइरांनअसंछेः तेनुनापतांहांरांनांअपांकुंइछेः
=अंअधरांनांनीहयांगतः सपुरसाइछेसंपापतनांचे:
॥ ❀ ॥तांहांइसपरनुपरतकुरंछेः पातापपांहिः
नपकुपनागाछेः तेतां=अंपारछेः॥२९॥आकातेनोपर
पांरछेःतेसरषंपरंछेः॥२९॥तांहांनांलोकुसरषे=अं
नपांसीपा=अंछेः तांहांगहि=आइद=आलेछेः तेकांपाहे
नअंअंकुनाहदपरंछेः॥२॥तांहां=अंकुनागरषेसछेः
तेनेंसपसानापुलपा=अंछेः तेनागरषेलपरसपा
हिः=अंकुपारंपुले=आपंछेः तेपाघसरसाइः॥प॥गारू

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n84/mode/1up
2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



पारने दाडे: तेने सुवरणाना फुल पाथरे छे: ते फुलनी
पाखडी करीने: तांहां कुंकुसना कोरे घाले छे: तांहांनां
लोक सरवे कुंकुस थापना करे छे: अने तांहांने तन
तत्त्वगंगाना पाणी पाणे छे: तांहांने तन तकुंकुसनी पुजा क
रे छे: तांहांने कोई रखे सरदेव तो छे: ते सरावणा सुद: ११
दातवारीने दाडे: सरव जगत पाणीने: कुंकुसनी पुजा
करे छे: तांहां देवनो जगत करीने: पछे ते फुलने पाथरे
छे: तांहां लोक सरवे पाणीने: अपरपार वासन पवापाहे
सरन पाने छे: पछे राजा पाखी गतने: तांहां अंते पाणी को
सदा दाछे: तांहांना लोक सरवे: वासन पने नंखे छे:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n85/mode/1up



तां हां =अे वां रखे सर देव तां: =आ सत पंथ द्वर पा द्वा =अे
छे: तां हां सरवे रखे सर: गोर नर नेव यंने आले छे:
ते देव तां सरवे पापी ने: तां हां ब्र रंभा: वीसन व: पाहे
सर नेनं पे छे: तां हां देव तां सरवे गत पापी ने: =अेक पं
ने =अेक पंत कर्रीने: ब्र रंभा: वीसन व नेने पे छे: ते सा
ते पां ता धन नारां नां पाखी गत: सरवे देव तां सत पंथी छे:
ते सत गोर नेव अने: गे नान व आरी आले छे: तां हां =अे
वा गे नानी सो कव से छे: ते सरवे कोई गे नान नां सां छे:
ने ब्र रंभा: वीसन व: पाहे सर: =अे त्रसा देव तां सा ते पां
ता प पाहे: ते वा पक थ ईने र =आ छे: ॥ ७ ॥ =अेक पा सेव

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n86/mode/1up



realpatidar.com



रपांडुपाहिः नरापुरीनेव्रे ठांछेः ॥ २१ ॥ तंपेसांणां कास
तगाद्रः नेव्रेरपा॰वी सनव॰ पाहिसरः ॥ ३ ॥ अवाचसा
हेवतां पारतसोह्रनेवपे आवांछेः तंपरगारद्रूपद्वरी
नेः आ सतपंथपाहिव्रे ठांछेः नांईपुनावरातंपेसहिः
पुरीनांसांनां तव्रेरंपा॰वी सनव॰ पाहिसरः अंचसाहे
वतां आनेनांव्रुहापेः नरतव्रंडुः पुआरपुाव्रेचपां
हिः नरापुराव्रे ठांछेः अंने आीन पुपेपुाहेवतांः पछ
पाहेसां पाहि सेचहापे अेरांव्रंडु छेः तांहांद्रूपद्वरीनेव्रे
ठांछेः तंतंपेसरवेगातनेपातः पाखीपुसापुरनेव्राई
रव्रेसरः वेदपुारांनेः गं आनद्व आनेनांसातांहां अत

realpatidar.com

realpatidar.com

नासाणीः तेणारे सतपंथ द्धाणीः अंनेनेतनातेआ
नगातणाहिणणनीः नांशरण्येसरोअेपसहासा
यः तेश्रीनळजेळीनाराएसाळहिछेः तेतंणेसासा
हिसतगाऊः नांई द्धंन द्धंन तेणारतलोळनेः नांईद्धं
न द्धंन तेअप तांरपाग्रनेः नांई द्धंन द्धंन आसतपं
थनेः नांई द्धंन द्धंन ते सतपंथनालोळनेः नांईद्धं
द्धंन तेणासासणातनेः नेआपाअपतारपाग्रनेपू
नेछेः अंनेने ळोई आनगोरनरनेनेपेछेः अंनेस
तगोर ण्अरंणां तीनांळहाणपांहिण्एगांछेः नेपाण्मी
ळसापारंगातननरे देण्येछेः नांई द्धंन द्धंन तेणार

realpatidar.com

realpatidar.com



तं लोकनां मानवीनेः मांई छंन छंन ते मांय सा सहेव
नेः ने सत पंथे पुरांछा ऋषे छेः सत गोर ब्रह्मा जीः नर
नारां ए सातं मेः म रत लोकना मास सनी सत लोक
रा ब्रह्म जीः सात पाताळनां लोक ऋषे वीहीवा मांगो छेः
तां हाना लोकने ब्रह्म ब्रह्म दे हो छेः ऋष ब्रह्म दे हो तो ना गा नी
छेः ऋषे ने बीजा देह तो मां रास सनी छेः ॥ २ ॥ ते सात मां
पाताळ मा छेः दस कराड जोजन मांहे मां रासा मरु छेः
॥ १००००००००० ॥ ते मां ता मा छे धंहर मां खरेने हिंगो छेः
ते मां छ माहे सां मांहे हिंगो छेः ऋषे ने पुरब्रह्म दे सां मांहे ऋषे
मे मे छेः तार पछी ऋष स मान द्रिपर नी ऋषे छेः ऋषे सात

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n89/mode/1up

पातालनावारतांछे: पहेलापातारांनांपद छः ॥१
बीजांतारांनांछोरनां: ॥२॥ त्रीजांतारांनांगनहदरः
॥३॥ चोथातारांनांसंखदेव: ॥४॥ पांचमातारांनां
वेरांहत: ॥५॥ छठातारांनांहलवांग: ॥६॥ सातमां
तारांनां सेखनाग: ॥७॥ एवासातेपाताळनारां
ना: तेआसतपंथहदरंगेत्यालेछे: एवासातेपाता
ळतीनरत्नने आदांछे: ॥७॥ तेआदतापांचलाख
नीगआछे: ॥५॥ तेपाताळनालोकनेपासेपर
सनीआवरहांछे: ॥५००॥ एवुं सातपाताळ
आदुछे: ॥७॥ हसतगरू: एवतवेरांटसरूपछे:

realpatidar.com

realpatidar.com



तेमांहि सातपातालनां ॥ १ ॥ ते प्रथवी सघळ रमांडछे ॥
२४ ॥ ते प्रथवी से स्वरंगछे ॥ २५ ॥ तेमांहे देस प्रस
मानछे ॥ २० ॥ तांहां प्ररस ध्रुरसी अंनेलोहिळुसं
मछे ॥ ४ ॥ तेश्रीनारायण साहेब सरणं ते ॥ तेज सोळ
हो सतगरू ॥ ते परात्पर रूपनां आठ नांमछे ॥ पेलां
नाम तो परात्पर ॥ १ ॥ बीजानाम तो अखेरंभा ॥ २ ॥ त्रीजां
नांम तो ईछा ॥ ३ ॥ चोथानाम तो सेसर ॥ ४ ॥ पांचमं
मांनाम तो आदबिनाद ॥ ५ ॥ छठांनाम तो ज्यार ॥ ६ ॥
सातमानाम तो आदसुन ॥ ७ ॥ आठमानाम तो रं
तनी माया ॥ ८ ॥ तेप्रथवी सातेमांतां [illegible] छे ॥ १ ॥

realpatidar.com

तंपछीसोरा नीसातगारू: नें सातेपाताळ:॥७॥ अनें
अठकुवीसअपरंपारछे:॥२१॥ तेपछीरेपरंअतसू आं
धांछे: तेतोपछीरे आधारे रांख्यां छे: ते सातपाताळ
नीपर:॥७॥ सातदीपव्यांधांछे:॥७॥ तेपांनेदीपाद
सलंगछे:॥१२॥ तेनी सलांख्य अठकुसांखनोनें
नक्रियाछे:॥१००००००॥ ते सातपापाताळपद्ध: अ
ग्रदसांपानेपछीरेपरअतछे: ते पांचसांखनेयापी
सनणारनोनेनक्रियाछे:॥५४००००॥ तांनेरांनांसांख
नागरांनकुरेछे: ते पाताळपद्ध पछीरनी सांखरवयै:
तथांलंगनी सलांख्यावयै: रांनां सांखनागनी फेरा

https://archive.org/details/bk177/page/n92/mode/1up



realpatidar.com



छे: ते रांणी सखणांगानी फेरा द्विपर: भरतखंड
पडयांछे: ते अणेडसांखने आयंत कनार: जोजेन
न अणेपनां कुपडयांछे: ॥ १५२००० ॥ ते द्विपरे भरत
खंडवसेछे: ते द्वरती द्विपरे सरवे पापोनवा वसेछे:
अपां सातपाताननी वारताछे: ते श्रीनारायणे आदेवे
कलछे: ते सतगोर अंरपां: रखे सरने सतना पापी
छे: ते पे सोक्षा काजनी वरो: भरपा: वीसनव: पाके
सर: ॥ ३ ॥ अणे अरधादेवता भरतखंडमाके आयांछे:
श्रीमछ पातारा: ॥ १ ॥ श्री कुरम पातारा: ॥ २ ॥ श्री गान
ड्रपातारा: ॥ ३ ॥ श्री संखदेवपातारा: ॥ ४ ॥ श्री वेरा

realpatidar.com



realpatidar.com



पांउ तेः तारे अरंपा पीसनथ पाहेसर अेक
दुथ तो पारत लोक पांहे आवांछेः ॥ ३ ॥ तां हांश्रीनारा
ईका दुथतोः सतगोर अरपांन कहछेः जे सतगोर
ना कथे तेपेः परमपीपांहेजेईनेः ज्ञांईकसतनो अ
लकरोः अंनेपरमपीछिपरपडाकापांडेः तारे सत
गोर अरपांनेः अेक अरंपांनः श्रीनारांईकां नुथ
छेः तांहांश्रीनारां अेका अेककहछेः तारे सतगोर
अरंपांना अेतोः छपंनकरोड जीवनेः परमपीनी पी
उ आंहांछेः ॥ ५६००००००० ॥ ते परमपीनानवआंउ
आंहांछेः ॥ ९ ॥ तेपरमपीनासातहाप आंहांछेः ॥ ७ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n95/mode/1up



तेपरथमजीनांसातसंमुदरआंद्यांछे:॥७॥ तेपरथमजी
नीपोहुतां: छपंन॰ छपंन॰ छपंन॰ क्रोडजोजनआं
द्यांछे: ॥पद्य००००००००॥ पद्य००००००००॥ पद्य००००००००॥ ते
द्वीपरनवखंडपरथमजी:॥९॥ सातदीप:॥७॥सातसमु
दर:॥७॥ अेवाअढारआंडते: तेनीफोगातलखीछे:ते
तंपेसोळांकोडनीवरो: फेवेपरथमजीनोरचनारे अं
त:श्री नारायणआवाआंअथार: तंपेसोळांकोसतग
ुरु:नवखंडपरथमजीअढारआंडकेछे:॥९॥ पेलातां
अेरांखंड:॥१॥ तेछक्रोडजोजननछे:॥६००००००००॥१॥
बीजांतोजरतखंड:॥२॥ तेबारक्रोडजोजननछे:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n96/mode/1up



realpatidar.com



॥१२००००००००॥ त्रीजा तांपरंपाखंडः॥ ३॥ ते सातक्
रोड जीवनछे:॥ १००००००००॥ चोथा तांईलासखंडः
॥४॥ ते सातक्रोड जीवनछे:॥ १००००००००॥ पांचमा
तां रुद्रखंडः॥ ५॥ ते च्यारक्रोड जीवनछे:॥ ४००००००००॥
छट्ठां तां सापखंडः॥ ६॥ ते छक्रोड जीवनः॥ ६००००००००॥
सातमा तां अंद्रखंडः॥ ७॥ ते नवक्रोड जीवनछे:॥
॥३००००००००॥ सातमा तां अंद्रखंडः॥ ७॥ ते आठक्रोड जी
वनछे:॥ ८००००००००॥ आठमा तां कंपसखंडः॥ ८॥ ते नवक्रो
ड जीवनछे:॥ ३००००००००॥ नवमा तां करांनखं
डः॥ ९॥ ते नवक्रोड जीवनछे:॥ ३००००००००॥ अवां

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n98/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n99/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n100/mode/1up



realpatidar.com



सातद्वीप जाहि: ॥७॥ नवखंड धाया छे: ॥२१॥ ते कोरा को
रा परकारे आंद्वा छे: ते नेदुह कोई देवने नाअवरने नो:
श्री नारायण सावायां: तं जे सो कां ते सतगुरु: परथ
वीनां जुदा करानी वारतां लखी छे: अने सरव सेस
रनी रचना: तं जे सोकां ते जुनीवरो: खीर समुदर
वी स कराड नीनं न छे: ॥२००००००००॥ ते द्विप रसंग दा
पज्यां द्वा छे: ते छ कराड नीनं न छे: ॥६०००००००॥ ते माहि
छ कराड नीनं न अरां खंड छे: ॥६०००००००॥ तांहां अं
नन कफोका नारां अरकाज तखत छे: ते अरां खंड माहि
अठार भार वंन सपती वसे छे: ॥१८॥ नेजा का साग

realpatidar.com

रसभूदरआरोछे: ते सतांवासभूरोडनोंनन छे:
॥२९००००००००॥ तेद्वीपरनांब्रह्मापआंहूछे: तेआरकरो
डनोंनंनछे: ॥१२००००००००॥ तेमाहिआंरकरोडनोंनंन:
नरतखंडछे: ॥१२००००००००॥ तेनांब्रह्मापमाहिमानवा
पसेछे: तांहांसतगोरआरंभानुतखतछे: नांब्रह्मापं
नरतखंड: =आंनकू=आरकाखे=वकेहेछे: तेकपानुग
पोरोधा=मे: तांहांसद्धानक्रजोब्रानारांएकानो: इसपो=अ
वतार: तेनांब्रह्मापमांहिद्वरीआवेठांछे: तेब्रह्मकरीनेइई
तब्रांजोगानेसंघारसे: नांहरखसरनेरांनकराव
से: तेसकलकरीनेनांसानो: तारेद्रूनी=आंनेपांपे: पर

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n103/mode/1up



નેંનછે: ॥ ૨૯૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તેમાંહિ સાત ક્રોડની નેંન છે:
॥ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તેઈ લાસખાંહ: બે ક્રોડની નેંન ખરો છે:
॥ ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તેમાંહિ બે ક્રોડની નેંન કેજાપાંખાંહ ઘાલી
છે: ॥ ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ ઈલાસખાંહ: સાત ક્રોડની નેંન છે:
॥ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ કેજાપાંખાંહ બે ક્રોડની નેંન છે: ॥ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ॥
નેંનન દ્વીપ નવ ક્રોડની નેંન છે: ॥ ૨૯૦૦૦૦૦૦૦ ॥ એવા ચાર
જણીને જન ક્રુ: ॥ ૩ ॥ એ ઢાર ક્રોડની નેંન છે: ॥ ૧૮૦૦૦૦૦૦૦ ॥
તે એ સર ક્રુ પાપ રખતે રૂદ્ધાં છે: કો સતગુરૂ: ॥ ૮ ॥ દ્વહા સં
જ્ઞદર એ ખ ક્રોડની નેંન છે: ॥ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તે દ્રુપ રખાં ય
ર દાપ બાંધ્યું છે: તે ચાર ક્રોડની નેંન છે: ॥ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તેમાં

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n104/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n105/mode/1up



દુસંજદર=એકક્રરોડની નંન છે:॥૧૦૦૦૦૦૦૦॥ તેદ્રિપરખા
ક્રધાદાપખાંડુ છે: તેદસક્રરોડની નંન છે:॥૧૦૦૦૦૦૦૦૦॥
તેમાંહિ=આઠક્રરોડની નંન: ઇલાસખંડ છે:॥૮૦૦૦૦૦૦૦॥ તાંહાં
એકક્રરોડની નંન ખરા છે:॥૨૦૦૦૦૦૦૦॥ તેમાંહિ એકક્રરોડની
નંન: હીરાંનખખંડ ઘાલો છે:॥૨૦૦૦૦૦૦૦॥ તેહીરાંનખ
ખંડુ ચસાક્રરોડની નંન છે:॥૩૦૦૦૦૦૦૦॥ તે=એપાચસાખન
ખમાશાનં:॥૩॥ બાવીસક્રરોડની નંનરોખ્યાં છે:॥૨૨૦૦૦૦૦૦૦॥
હીસતગાઊ:॥૭॥ તાંહાં=આગાખાખાંસા છે: તાંહાં=અઢારદ્યાત
નાવસતોનીખનં છે:॥૧૮॥ હીસતગાઊ: શ્રીસતગોર
બરંખાવાચાં: હીસ્વાંમીજી: તે=અઢારદ્યાતનીવસત

realpatidar.com

पूरी सा थोरा छे:॥१८॥ ते नी दुक होद्दे वने नां अरे नें नी:
श्री नारा ए सावा थां: ते अढार द्वात नां नां पास थां छे:
ते तंजे सोसो हो सतगुरु: ऐसा तो धुं थं न:॥१॥ पीनां तो
तर धू:॥२॥ त्रीजु तो आप:॥३॥ चोथु तो नें कत:॥४॥ पां
चपा तो धीर:॥५॥ छठु तो पातो:॥६॥ सात पा तो हार:
॥७॥ आठ पा तो सास:॥८॥ नव पा तो पंथ सल:॥९॥ दस
पा तो पांनां:॥१०॥ अग्यार पा तो परवा पां:॥११॥ बार
पा तो आनी:॥१२॥ तेर पा तो धांदधु:॥१३॥ चउद पा तो पां
री:॥१४॥ पंनर पा तो पंन सुल:॥१५॥ सोल पा तो अपार
पा:॥१६॥ सतर पा तो कड ताल:॥१७॥ अढार पा तो अ

realpatidar.com
realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n108/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n109/mode/1up



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n111/mode/1up



रांछे:: श्री सतगोर अरजावाच्यां:: हो स्वामीजी: ते सां
तदरी आंपरधमा द्विपर कोपरांमां छे:: ते नदद्रु होदेप
ने नां अरजनो:: श्री नारांअे कावांच्यां:: तंपते सोहा
हो सतगोर:: ते सातदरी आन पांहां तेइ ह्रुस लांमु
छे:: तेस मउ दरनां पांहां:: सात तां अदरतोथी द्रिमांछे::
॥१॥ अेवा सातदरी आनां पांहां छे:: ते परधमा थाम
या परे छे:: तारे सतगोर अपरंमां प्रुछे छे:: हो स्वांमी
जी:: अे सातदरी आनां पांहां:: दरतोथी सात तां
प द्रिसारे हां छे:: ॥२॥ ते परधमा द्विपर कोपरे मातान
थी:: ते पांहां परधमीनं कोपमो मतांनथी:: तेनो द

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n112/mode/1up



realpatidar.com



फकीर देवने नां अरनेना:: श्री नारां एसावायां: ते
पे सां कोर सतगरू:: ए सा ते हरी आनां पांसा ता::
सां हे मना फारपां नी छे:: ते सां हे मने फार पां ने रे
हां छे:: न हाता पर थी पी सर वे रुआवे:: ते एक आप
ना पसफ पाहरूआवे:: पंसा सद्धि था पा रां ने हते फा
रपां न छे:: फार पां नी ते फपां न छे:: एफार पां नी ते फां
फार छे:: हो सतगरू:: व पा आनो ने हल आ छे:: ने म
म फप पांसा ने लोको छे:: ने म सं फप पांसा ने लोक स्व
परीत छे:: ने म संफप पांसा ने हेआ:: लो क्र सा पफ या
लो आवे छे:: ते पां सा ने अस पां न स्व परीत छे:: ते

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n113/mode/1up



realpatidar.com

या सतथी एक सपांन सुधां ना लोगत रहु छे: एम सां
ते हरी एना पांखा: ने एक सपांन साथे परीत थ्या छी
छे: ते सप्त हरनां पांखा एक सपांन खडे छे: ते पांखा
तो एमन लों पांहे लावाने: परधमी पद्धे परथ्यां: पर
सातम्ध रे छे: ते नेह संप्त हरनां खातां नथी: ते नेह तो पं
के देवे रांख्या छे: ते श्री परमेसरे रांख्या छे: एसे पां सात
हरी एमां सपूरना छे: संपापतनवे: ॥१॥ श्री परथं
भी पाहे मारह सां: एमने आरम्धना छे: एसे पा एम आठ
ह सापाहे: एम आठ परथ्यत रासावंत छे: ॥८॥ परधमी
द्वि परह्वा पाद संसंगा छे: ॥१२॥ ते ह्वा पाद संसंगना सां

realpatidar.com

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)
https://archive.org/details/bk177/page/n114/mode/1up



थे: सात पाताळना बंद बांध्यां छे: ॥१॥ ते सतगुरु:
श्री सतगोर ब्रंमा वाच्यां: ते स्वामी जी: बार संग
तेडी आदी आ छे: ते नेहद के देवनेना अवरनर्णां: श्री
नारायणे साचा वाच्यां: ए बार संग नां नांम सांभळ्यां छे: ते
तमे सांभळो ते सतगुरु: पेलां तो बंदराळे हार संग के
छे: ॥२॥ बीजां तो द्वां सा वसवनाथ संग के छे: ॥२॥ त्री
जां तो सारनाथ सोमनाथ संग के छे: ३ चोथा तो पांचां
कांचा सार संग के छे: ॥४॥ पांचमा तो हीस पारस सार
संग के छे: ॥५॥ छठा तो सेत बंद रेरां मे सर संग के छे:
॥६॥ सातमां तो मेरु सुमेर संग के छे: ॥७॥ आठमा तो

realpatidar.com
realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n117/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

वा ऋहनारहा रीनाः ॥२०००॥ ऐ एकगाद्रि एकरो छे: ॥२॥
ऐ वां यारगाद्रि नाः ॥४॥ ऐ एक नोंनें न करो छे: ॥२॥ ऐ
वा यारनोंनें ननाः ॥४॥ ऐ वी रीत धरती एक पठांसा
क रुछे: ऐ साथे रे परथ पीनां गाद्रि व्यांद्यां छे: ऐ पाक
री न परथं पी नां नोंनें न व्यांद्यां छे: ऐ वा परथ पी
नी नारपः सप्रुरसांग छे: संपापत नावे: ॥ ❀ ॥ पर
थ पीक नर वारग लखू छे: परथं पी पांह सांत द्याप
छे: ॥७॥ सांत सपुदर छे: ॥७॥ नव खंड व्यां द्यां छे: ॥ र्
श्री नारां ऐ सावांआं: परथ पी द्रि पर नव खंड नां: प
ठां सा लख्यां छे: तेतां पे सोसाठा सतगुरु: दुद्दी सपुदरः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n118/mode/1up





॥१॥ श्री अरदा पः॥२॥ रुदर खंड:॥३॥ तेनी रत खुणांमा
हे छे:॥१॥ ईलासख खसुखदर:॥१॥ सोगपा दा पः॥२॥
खरंपा खंड:॥३॥ तेद खणाहे सांमां हे छे:॥२॥ पाद्र सख
दर:॥१॥ पांकुणा दा पः॥२॥ व्यंदर खंड:॥३॥ तेव्यंगा न खु
णा मां हे छे: हीरां न य खंड: या णा मां हां याणा: व्यांहां
हईतथा मोगारां न क रे छे: ते पूरव हे सांमां हे छे:॥४॥
सुरा संखदर:॥१॥ पलछा दा पः॥२॥ सांमा खंड:॥३॥
तेईसा न खुणा मां हे छे:॥५॥ कमामा खंड:॥१॥ व्यंने
मेर परवत: तेव्योत रहे सांमां हे छे:॥२॥ ते मेर नेव्या
धारे समुद्र हे नवं नामां द्वा छे: ॥२४॥ ६॥ रतनागरसं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n119/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n121/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n122/mode/1up



૫૫

તેઓ પાસ દેસ વસે છેઃ ॥ ૨૪ ॥ તે જુલવ તથાં દેસ
નાંનાં જ લખ્યાં છેઃ તે તંત્રે સો કાહો જુગ ની વરસઃ પેસાં
તાં જુગ સો કાસોઃ ઝાંને દેસ ઝાંઓ ખ્યાં જાં કુ જાઃ ॥ ૧ તેં
જાં કેઃ તે જાં કે ચ્યાર કરોડ ગાઉ વસે છેઃ ॥ ૧૨૦૦૦૦૦૦ ॥
બીજાં તાં જુગ ઝાનાંનઃ ઝાંને દેસ વીરાંટઃ તે જાં કે
અઢાર કરોડ ગાઉ વસે છેઃ ॥ ૧૮૦૦૦૦૦૦ ॥ ૨ ॥ ત્રીજાં તાં
જુગ પર ઝાનાંનઃ ઝાંને દેસ ગાંનનાંદઃ તે જાં કે બ્યાં
તર લાખ ગાઉ વસે છેઃ ॥ ૭૨૦૦૦૦૦ ॥ ૩ ॥ ચોથા તાં જુગ
કુ જા પઃ ઝાંને દેસ જાદ્ધ ઝાંરઃ તે જાં કે ઝાં સાલાખ ગાઉ
વસે છેઃ ॥ ૮૦૦૦૦૦ ॥ ૪ ॥ પાંચ જાં તાં જુગ પર તાં જાઃ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n123/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n124/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n125/mode/1up



लख रांहाप: = अंनेदिसनरवांसाखासा: तेपांहिछसां
खगाापव सेछे:॥ ६०००००० ॥ १६ ॥ सतरपातीफूस
फू=आरख: = अंनेदिस पांसांखासा: तेपांहि सोपासा
खगांपव सेछे:॥ १६००००००॥ १७॥ =अठारपातीफूस
फूहखसी: =अंनेदिसफूसूपेर: तेपांहि च्यारलांख
गापव सेछे:॥ १२००००००॥ १८॥ =ओगणीसपातीफूस
फू फीरंगी: =अंनेदिस द्वीपासादरूपांउपा: तेपांहि च्यार
फू रांडगापव सेछे:॥ १२००००००००॥ १९॥ वीसपाती
फूलख लवंगा: =अंनेदिस पखरसांसा: तेपांहि च्यार
लांखगापव सेछे:॥ १२००००००॥ २०॥ =अेकवीस

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n126/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n127/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n128/mode/1up





तेनी जे हकहां हैयनें नां प्ररनं नों: श्री नारां प्रेसावां
यांः तेनहा हिनानरपांसालयां छेः तं जे सांसांहांसतज
रः परथमा नां प्रेसा कुलप्रमां हेः नहां हिनयांसकुरां
ड छेः ॥ २६२६००००००००॥ १॥ बीजा प्रा प्रेसां कुलप्रमां हेः
नहां हिनयांसकुसांप्र छेः॥ २६२६००००००॥ २॥ त्रीजा प्ररन
सां कुलप्रमांहेः नहां हिनयांसकुहजार छेः॥ २६२६०००॥ ३॥
चोथा प्रसाप्रां कुलप्रमां हेः नहां हिनयसेनयांसकु
छेः॥ २६२६२६॥ ४॥ प्रेयाचारकुलप्रमांनेः प जज
प्रेके प्रोछी: सां कुरांडनहां हिनांः सरवां जांप्रां हां
छेः॥ २६२६२६२६२६२६२६२६२६२६॥ तेम हे मां टानहां हिः प्रेकुसां

मने आउणनां र छि: ॥ १०८०००० ॥ ते पांचे थीवधी पोट
नदा द्विनय: सलदार ठ्ठा छि: ॥ ९ ॥ तेनावधीनांप
लख्यां छि: ते तंपे सोनां मांथनीवरे: पेलीनदातांगं
गांना: ॥ १ ॥ बीजीनदातां नंदानांना: ॥ २ ॥ त्रीजीनदा
तां सरसती: ॥ ३ ॥ चोथीनदातां गोपातीना: ॥ ४ ॥
पांचमीनदातां गोदावरी: ॥ ५ ॥ छठीनदातां वेर
णांना: ॥ ६ ॥ सातमीनदातां कासीना: ॥ ७ ॥ आठमीन
दातां नासकाना: ॥ ८ ॥ नवमीनदातां नरमदांरेवा
ना: ॥ ९ ॥ एवानवनदा द्विना ठ्ठागत: संपूरं सागा
छि: संपापतनावत: ॥ ❀ ॥ नवनगरी द्विनांपर

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n130/mode/1up





हो सतगुरः श्री सतगुर रखेसरं पांचांयां: हो स्वां
मीणः पर धरमी हिपरनव ढमाल संघारां:=अंने स्वं
मीतं मोणतां: ॥ ९ ॥ तेनां=अेगा तंमोफहो: ढिवनेनां
=अरनेनां: श्री नारां=अेसावा आं: तेनां=अेगा पाहि
नव ढमालणतां: तेनगरी नां नां पालख्यां छे: ततंमे
सोसा हो सतगुरः मे सातां=आसी: ॥ १ ॥ व्रीने तां
फ्रां सीः ॥ २ ॥ त्रीने तां फेतफोः ॥ ३ ॥ चोथे तां पफरां:
॥ ४ ॥ पांचमे तां=अनोढां: ॥ ५ ॥ छठे तां=अवीतफां:
॥ ६ ॥ सातमे तां ढारफां: ॥ ७ ॥ =आठमे तां संफां: ॥ ८
नवमे तां रतंनां परीः ॥ ९ ॥ =अेवी नवनां=अेगा पां

कि: नवद कीतनेजतां छे: तेनवनगरीसपूरसाछे
संघांपतनवे: ॥ ६ ॥ ❀ ॥ कि सतगरू: सतगोरसं
घसतीलनाघरछां: श्रीसतगोरवधरंघांवांयां:
कीस्वांमीजी: आसतगोरसंघसतीलः तेघांसांको
सावंसतीछे: तेनेदधूकीदेवनेनां: अरनंनो: श्रीन
रांअसावांयां: तंघे सो सां कि सतगरू: तंघे सतगो
रसंघसतीलः नकीद्दरतीनकी आघ्रांसः संतगोर
संघसतीलः नकी यंदरघांनकी सूरर्ज: सतगोर
संघसतीलः नकीपवंन नकीपांसा: सतगोरसंघ
सतीलः नकीरेहेसा नकीदीवसः सतगोरसंघस

realpatidar.com

तासः नकाभरःदर सरवांः सतगोर सांभ सतोलः
नको वीसोळंगः सतगोर सांभ सतोलः नको वेद
सासवांगः सतगोर सांभ सतोलः नको रांगनोजां
भांः सतगोर सांभ सतोलः नको जोगनको जोगतीः
=आ सतगोर थी पाई=प्रः=अंभरपद भा भभा गतीः
तेतंभो सो सा को फुनीवरेः=आन फुलजुगभांकेः स
तगोर भरंभावंनांः नफोई=अवतार पुनसेः=अं
नेनफोई भानांगोर भेवासेः तेजव कुनीनरंगम
केतः को सतगरूः तंभेनगोनजग=अकुभांर भांहेः=आं
धरपीनवे भरंभांः ॥ १ ॥ वीसनय=अवतार रूपीः

https://archive.org/details/bk177/page/n133/mode/1up



॥२॥ जीनां द्वप मांहे संरंगः ॥३॥ अेकु भरत नें जं
द्वप कुरत वंगः हां सतगरुः ॥ ✿ ॥ सात पारां
नां परछांः श्री सतगोर व्रमा रंभांपांआंः हां स्वांमी
नः पर धपा पर सात वार छेः ॥७॥ तेमां कुंभा
लो मास रज छेः तेनें द्वकु हां द्वपनें नां अरनंनां
श्री नारां अेमां आवां आंः तेमां सांसां हां सतगरुः जे
सा तां आ छात वार कु छेः तेमां हे आठ द्वसांः नेआ
सर कु जपर भत सरनं तः ॥२॥ भोनां तां सोप
वार कु छेः तेमां हे सरनं तः सात साहुरः ॥७॥
अे कुसांभनें आठ हनां रन छहीः ॥ १० ८००० ॥२॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n134/mode/1up



realpatidar.com



त्री जातां मंगलवार कहे छे: ते मांहे सरनंत: स
रवे से सरने: अठांर नांरवंन सपती: ॥३॥
आथा तां बृधवार कहे छे: ते मांहे सरनंत: इसो
असमानं: ॥१०॥ अंने नवलाख तारां माहे पा:
॥४॥ पांचमा तां नरसपत वार कहे छे: ते मांहे सर
नंत: सरवे रखे सर देवतां: नांमां. जेधा. केन
र. करोड तेत्री स अंनंत: ॥५॥ ९९०००००००॥
॥५६००००००००॥ ३२०००००००० ॥ ३३००००००००॥ करोड
अंनत: ॥१०००००००००००००००००००००००००००००००० ॥५॥
छठा तां सोकरवार कहे छे: ते मांहे सरनंत: आर

https://archive.org/details/bk177/page/n135/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

६२

तंम सो स्वामि सतगुरु:: पेला तो जुग आर:: ४ ।। बीजा
तो कुलप आर:: ४ ।। त्रीजा तो गार आर:: ४ ।। चोथा
तो नोर आर:: ४ ।। पांचमा तो जमी आर:: ४ ।। छठा
तो जांप आर:: ४ ।। सातमा तो घरपांर आर:: ४ ।।
आठमा तो वेद आर:: ४ ।। नवमा तो कुतब आर::
।। ४ ।। दसमा तो वरत आर:: ४ ।। अगीआरमा तो दी
न आर:: ४ ।। बारमा तो तीरथ आर:: ४ ।। तेरमा तो
मंत्र आर:: ४ ।। चउदमा तो भांखा आर:: ४ ।। पंन
रमा तो वांसा आर:: ४ ।। सोलमा तो देसा आर:: ४ ।।
सतरमा तो भुवां आर:: ४ ।। अढारमा तो रुप आ

https://archive.org/details/bk177/page/n137/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

६३

तो कुल फल चार छे: ॥४॥ पेलां तो नां ज्ञान सां कुल फल: ॥१॥
बीजां तो फल ज्ञान सां कुल फल: ॥२॥ त्रीजां तो चमरनं सां कु
ल फल: ॥३॥ चोथा तो मुलां पां कुल फल: ॥४॥ जुग तो चार
छे: ॥४॥ पेला तो कृत तां जुग: ॥१॥ बीजां तो त्रेतां जुग:
॥२॥ त्रीजां तो द्वापर जुग: ॥३॥ चोथा तो कल जुग:
॥४॥ गोर तो चार छे: ॥४॥ पेला तो पर पां: ॥१॥ बीजां
तो गोर पनेर पा: ॥२॥ त्रीजां तो गोर पादर वेश्वास: ॥३॥
चोथा तो गोर: सोदर दीन: ॥४॥ नोर तो चार छे: ॥४॥
पेलां तो ज्ञान रसां का: ॥१॥ बीजां तो ज्ञान रां प संद: ॥२॥
त्रीजां तो ज्ञान परसंन: ॥३॥ चोथा तो ज्ञान कुले कु: ॥४॥

realpatidar.com

पाखी तो चार छे:॥४॥ पेहलां तो पाखा परसांन:॥१॥ बी
जां तो पाखी कुरीयंद:॥२॥ त्रीजानां तो नगर सरपन:॥३॥ चो
थां तो कुं पखावु=अर:॥४॥ ना पतो चार छे:॥४॥ पेहलां तो
नर सांन:॥१॥ बीजां तो रांपन:॥२॥ त्रीजां तो कुरसंन:
॥३॥ चोथां तो पीरसांन:॥४॥ धरपांर चार छे:॥७॥ पे
हलां तो सोनानां धरपार:॥१॥ बीजां तो रूपांनां धर
पार:॥२॥ त्रीजां तो त्रांबानां धरपार:॥३॥ चोथां तो
पीरीनां धरपांर:॥४॥ वेद तो चार छे:॥८॥ पेहलां तो
रघवेद:॥१॥ बीजां तो नगर वेद:॥२॥ त्रीजां तो सां
मवेद:॥३॥ चोथां तो=अथरवेद:॥४॥ केतां चार

realpatidar.com

छे:॥९॥ पेलातांतो रातकेतांभ:॥१॥ बीजांतो=अजर
केतांभ:॥२॥ त्रीजांतोनंजरुखकेतांभ:॥३॥ चोथांतो
फुरफ्रांनकेतांभ:॥४॥ परतआर छे:॥१०॥ पेलांतो
=अंफ्रांदसी=आतवारी:॥१॥ बीजांतो अद्रिदसजगाल
वारी:॥२॥ त्रीजांतो=अंजावासससोजवारी:॥३॥ चोथा
तो बीजस्वफरवांरी:॥४॥ दानआर छे:॥११॥ पेलांतो
कुअरदांन:॥१॥ बीजांतो=असवदांन:॥२॥ त्रीजां
तोगद्रि=आदान:॥३॥ चोथांतो=अनादांन:॥४॥ तीरथ
आर छे:॥१२॥ पेलातो=अगनतीरथ:॥१॥ बीजांतोस
फलतीरथ:॥२॥ त्रीजांतोअरंपतीरथ:॥३॥ चोथांतो

https://archive.org/details/bk177/page/n141/mode/1up



प्रगततीरथः॥४॥ खेत्र चार छेः॥१३॥ पेहलातो हरीत
खेत्रः॥१॥ बीजांतो परनांखेत्रः॥२॥ त्रीजांतो कुपाश
खेत्रः॥३॥ चोथातो कुरुआरख्याखेत्रः॥४॥ चारथांभा
छेः॥१४॥ पेहलातो सबंतथांभाः॥१॥ बीजांतो इंद्रथांभा
॥२॥ त्रीजांतो ब्रिंदबान थांभाः॥३॥ चोथातो नरसंघथां
भाः॥४॥ वांभातो चार छेः॥१५॥ पेहलातो सोनवाभाः॥१॥
बीजातो सप्तांजीतवांभाः॥२॥ त्रीजातो अजीतवांभाः
॥३॥ चोथांतो अरंभवांभाः॥४॥ देसातो चार छेः॥१६॥
पेहलांतो आयदेसांः॥१॥ बीजांतो दखसादखणदेसांः
२ त्रीजातो पुरबदेसांः॥३॥ चोथातो पछमदेसांः॥४॥

realpatidar.com

भ्रुसा तो चार छे:॥१७॥ पेहेलां तो ईसान भ्रुसा:॥१॥ बी
जा तो नीरत भ्रुसा:॥२॥ त्रीजा तो अगन भ्रुसा:॥३॥ चो
था तो वाव भ्रुसा:॥४॥ रुप तो चार छे:॥१८॥ पेहेला तो
सरद रंग छे:॥१॥ बीजा तो नरद रंग:॥२॥ त्रीजा तो
संज रंग:॥३॥ चोथा तो सेत रंग:॥४॥ नगार तो चार
छे:॥१९॥ पेहेला तो हंस पर:॥१॥ बीजा तो अगापर:
॥२॥ त्रीजा तो सांज पर:॥३॥ चोथा तो ईजांज पर:॥४॥
जांहांदेव तो चार छे:॥२०॥ पेहेलां तो संजम:॥१॥ बी
जां तो वसम सर:॥२॥ त्रीजां तो जांहांदेव:॥३॥ चोथा
तो आदम:॥४॥ साप्रेना तो चार छे:॥२१॥ पेहेलां तो स

न फूनी:॥१॥ पीनातो कूरदेवां:॥२॥ त्रीनातो सांभ
सोदांन:॥३॥ चोथेतो सांतां हनें दाः॥४॥ दागतोथ
र छे:॥२२॥ पेंलातो वंनदांग:॥१॥ पीनातो नपादाग:
॥२॥ त्रीनातो अंगनदाग:॥३॥ चोथातो नोपदाग:
॥४॥ पाचगतो आर छे:॥२३॥ पेंलातो सरी अंत:॥१॥
पीनातो तरीपत:॥२॥ त्रीनातो हफोगत:॥३॥ चो
थातो पारूपत:॥४॥ गांभ्यांतो आर छे:॥२४॥ पेंला
तो वें आफूरस:॥१॥ पीनातो सारसत:॥२॥ त्रीना
तो सेसफूरत:॥३॥ चोथातो परांफूरत:॥४॥ अ चो
पीस सोननी हफोगत: सफूर साग छे: संपांपतन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n144/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

55

https://archive.org/details/bk177/page/n145/mode/1up



थाले छे: ते पर जांता ने जनांजन दाखे छे: ते न दी
नु पांखा तां जांन सरोवर जांहिनां=प्रे छे: ते पांख लप
रतानां वंतरी नागरवेस छे: तां हां सरवे पापनां
संनोग हां=प्रे छे: तां हां पे लोवर से: ते पांखा पी=प्रे तो
पांप थां=प्रे: भनो वर सांत वर सेता: ते पांखानु कां
सो वखा था=प्रे छे: चीनो वर सात वर सेता: ते पांखानु
सरवे द्धांन थां=प्रे छे: ते नां भू दाप जांहिनां भू वर भ
छे: ते वा सते था नां भू दाप कुवां=प्रे छे: ते प्रे सोखा हो प
नी वरो: न भ सद रको पर ल हां=प्रे: ते भ पर भ तको
पर ल हां वे: ते स र प्रे र पर भ त क्षिपर: रु प प वा रखे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n146/mode/1up



realpatidar.com

65

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n147/mode/1up



ध्रिगे अंने आथम पा: तेर सां पां हिने र सां आ पनां पस
छु आवे छे: तेर सा हजार गा द्रिछे: अगारे अने पागारे
सुद्रा संध छे: ते सुरजन जवनं सगा: पां त्र से वर सब
वार छे: ॥ ५०० ॥ इंन अेकु पर ते: जीनंन वसा आसे छे:
॥ ३ ॥ तरे अेकु सुरजन जवंन पां त्रे छे: अे सुरजन गती:
स पुर सा छे: संपा पते जवे: हो सतगुरु: ॥ ❀ ॥ सुर
जन जवन ना पर छां: श्री सतगुर प्रं पां वां थां: हो स
वां भी जो: पर थ पा सुरजन जवंन ना वारतां कहं: इेव
जे ना अपर जं नो: श्री नां रां अे सावां थां: तंप सो सा हो
सतगुरु: पेलां ता सुरजन जवंन ना सप्यां छे: तेपंनर

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n148/mode/1up





सांभळोः चाथा सहनारनोनंनः परथंजीवधणी
सुरना दियां छेः ॥ २५४०००० ॥ =अेवु सांभळोनंनसु
रना नो खांखव सतार छेः ॥ १००००० ॥ =अेवा सातना
पंनः ॥ ७ ॥ परथपाथणा दिया छेः तांहां वाईन र
गोः तांहां वाई =आवागवंनोः वाईर सातावानो =अेः
ते =अंनत जुग फुलपालगोः तांहां परसाजुववसा =अ
गोअरः =अपसपफहानपसोः ते =अेवु परपोसं
रंगः परथपपवहंते सुरना नावंनः तांहां पाहेनाखे
॥ र ॥ खांपरूपीवारंगनांः देवरूपीनरपसांः तांहां
=अंनवुलीखांनोगवेः तेपंन ईछांनोनंनपरांवे

realpatidar.com

रतंतेः पेलासंकुरतंपंगाः तांहांनकाघोई प्यांसाः
नकाघोइपरद्धांः तांहांनकाघोई कासांः नकाघोइ
प्यासांः तांहां कासां प्यासांसरपे ऋषिकुपंनआंपंनांः
को सतगरूः श्री सतगोरप्परंपावांयांः को स्वापाजुः
तेपेले स्मरननापंने कोकासां कुपसो छेः तेको पारत
लोकुपांहेः कुंपनपरतसांद्धासांः ऋषिंने कुपांहान
पुनकद्धांछेः ने पेले स्मरननापंने आपावांछेः तेगो
नांनकुकोदेवनेंनां अरनंनोः श्रीनारांः ऋषिरावायांः
तंप्रे स्मरसा को सतगरूः एकांते लोकुपसो छेः नेकोप
रतलोकुपांहेः ऋषिकादसो आंद्दात पारानावरत

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n150/mode/1up





साधां छे: ते सांपक पक रां पव रनां छे: ते लोक आं
सा स्रु रनं नवंन आवा जाता छे: ते लोक हां सत
गरू: श्री सतगोर ब्रह्म पावां यां: हां स्वांमीज:
ने पेलां स्रु रन नवंन मांहें लोक छे: ते अंपर थ
आ फेन नहीं: श्री नारां अेसावांयां: नारे सतगरू:
अेलोक तां ब्रह्म हण नारपरसनी: आव रहा नोगवे:
॥२०००॥ पछे परवने परतलोक मांहें पडयु:
आवां गवंन मांहें: पेलां अवतार ता: स्रुवांनना
नोगवे: हां सतगरू: श्री सतगोर ब्रह्म पावांयां:
हां स्वांमीज: ते सांमांटे: श्री नारां अेसा वांयां:

realpatidar.com

तंमें सोखी हो सतगुरु: ने नेनां नेर ते सतगोरवां
र पां: नेनां=प्रोधाम ते=प्रपतां रपांच: ने संसार
गार प्रथमे हांन दहेतवां: पां हांवा सनपरूपी: वे
हकोरांन सांखांन हंनांसाते: ने सतने=प्रसतप
रतवां: हे मा फेनफ फांपनी परनांतवां: ने हंमां
प्रफ=प्रातपांव सनुफरी: ते फेप पांमे हो सत
गरु: अवा प्रधानवंन=प्रंपरांपरी: पेलां सुर
नानवंन: सप्रफरंखा छे छे: सं पां पतनवे: ॥❀॥
भानां अंदर नवननांपर छां: श्री सतगोरवार
पावांमां: हो स्वांपीजी: भानां अंदर नवंननावां



realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n152/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



रतां: कहीदेपनेना=अरनंनो: श्रीनारां=ग्रंसावां
यां: तंपे सोरंगा हो सतगरू: सपतनपंन=आकासे:
तांहां कोहीनरगा: कोइ=आवांगवंनो: कोइरसां
तांघनां=ग्रे: =अवाजवकहानजवे: ते=ग्रेकपर
भे सरंगा: वंदतेपांकजंदरनंपंन: तेसुरनो
लोकथी द्विपछे: तेपांचलांखने यांवीसहजार
नोनेन: सुरनथा द्विपर: जंदरलोकव सेछे:
॥५४००००॥ =ग्रेकलांखनोनेन: तेजंदरपांनोचे
खपसतांरछे: ॥१०००००॥ हो सतगरू: श्रीसह
गोरखरंपावांजा: हो स्वांपांकज: ने जंदरपांने

https://archive.org/details/bk177/page/n153/mode/1up
2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

स्मरण छे:॥ २॥ तेनी भक्ती सपधार छे:॥ ३२॥ तेणे हाक
हाणां मे छे: तेने दख हे दिवन नाम्र रणनां: श्रीनाराअ
हावां यां: तं मे सा हा हि सतगरू: ने सा पाक पां यद
रपां नी छे:॥ १६॥ ते पां न वा नी ध्यां प्रा पार्ह छे: तेनां हा
ता पां नवी नां घर पां वस छे: तेना तांनां पल ध्यां छे:
तं मे सा हा हि भ्रुनाथ रो: पे सा पाक पानों: आतपारू
पी नगवां न छे:॥ १॥ पीन पाक पां नों: न पनी हिन्ना
ती हाने:॥ २॥ पीन पाक पानों: सत सरूप रारांभवी:
॥ ३॥ पांधी पाक पानों: वेद वेपारा पालवू:॥ ४॥ पां
च पा पाक पानों: नो दरातन वी सत स्म:॥ ५॥ छठा पा

realpatidar.com

realpatidar.com

१२

पांनें: पअपीवातनकरवी: ॥ ६ ॥ सातपीकपांनें:
आंतपांजपनें सांकतरेवः ॥ ७ ॥ आठपीकपा
नें: रहांपाहेंआरांप्पवी: ॥ ८ ॥ नवपीकपांनें: अ
कसंतसरेवः ॥ ९ ॥ दसपीकपांनें: नांगसनांग
तरेवः ॥ १० ॥ अगीआरपीकपांनें: रंगरूपकर
पासाहेबसः ॥ ११ ॥ बारपीकपांनें: सतसकरी
संताकरांप्पवी: ॥ १२ ॥ तेरपीकपांनें: नांगरतरं
गीअंजपसः ॥ १३ ॥ चउदपीकपांनें: अंतांअंपो
नकरवी: ॥ १४ ॥ पंनरपीकपांनें: रुहे [illegible] नांगज
पडी: ॥ १५ ॥ सोळपीकपांनें: जपतरवानांपांतक

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n155/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com



आ पासन कर पुनकरं स्रः ॥५॥ सातं पा कपां
नेः जप न स्रष सांतां रांष्य वः ॥७॥ आठ पीकपां
नेः संताकपां हरिवः ॥८॥ नव पीकपांनेः कांप
करांद्धवां री अर्पः ॥९॥ दस पीकपांनेः रीसनक
रपी जप स्रः ॥१०॥ अगीआर पीकपांनेः पंथं
नवारी अप्रंन स्रः ॥११॥ बार पीकपांनेः अंग
नीकांपसलवीः ॥१२॥ अपी बारं कपांः ते स्ररण
नी छेः हां सतगरः श्री सतगार बारं पांचां सां हां
स्पांप्राणः ने सांप कपां संदर पांनी छेः ॥१५॥ सां
पकपां स्ररननी छेः ॥१६॥ तेमा हं बार कपां रवा:

realpatidar.com

॥ १२ ॥ ऋने साधफुवा सरसी: ॥ १३ ॥ ज्यां फी आरफुवाने
ध्रुऋे स्मरननी: ॥ ४ ॥ तेफांगाईज्ञ सी: तेन्नदेफुफोदेवने
नां ऋस्मरनेनी: श्रीनां रां ऋफेगावां आं: तं जे सोसोफोस
तगारू: ते आरफुवां तां ज्ञरं पागोमांननी छे: ऋंपासे
तनी छे: नेफोई ऋोरांनां: दोरांनां जोतनवां: सदसा
धू छे: ते आरफुवां सती लोफु: फुनीवरनां घरवांफे
वसी छे: ते आरफुवां सती लोफे सांधी छे: ते आरफु
वां सतनी स्मरन परवां रूा: ॥ ४ ॥ ते आंदरवां परवांस्मा
नफी: ते वा सते था स्मरन वांफे ऋगानी छे: तेवाटे स्म
रनतेली छे: साधफुवा आंदरवांनी: ॥ १४ ॥ ऋने सो

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n159/mode/1up



जोग्ना सोजुग से छे: ज्ञेना परत लोक पां हे: केवा हे
न पूनवरत णा द्वां छे: तेगनांन जुहो हे वर्न नाआर
नं नो: श्री नारां ए ग्नावां आं: तं जे सो ग्नो हो सतगुरू:
ए हांत सो जुग से छे: ने ग्ना पां ग्ना ना परजू पां ढावा हे
छे: ने ग्नात पाव ख ग्नां वां छे: ने ग्ना टां छां सी पां आंन
दान आं लां छे: एहांत सो जुग से छे: हो सतगुरू: श्री
सतगुर पंर पां वां आं: हो स्वां पीरजी: ने संदर नाव
न पां हे सो जु छे: ते अं परथी आ के न हो: श्री नारां अेजा
वां आं: नारे सतगुरू: ज्ञेते आर हनां रवरसनी आ
पर दे हं तो गावे: ॥ ४००० ॥ पछे परवूने परत सोजु पां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n160/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

realpatidar.com



कपडघूः आवागवंनपाछुं: पेलो अवतार:: तेगुरु

नीजोगवे:: कॊ सतगुरु:: श्री सतगोरखपरंपावां त्यां::

कॊ स्यांपीछः ते सांपांटे जोगवे:: श्री नां रां अंसथावांत्यां::

तेपीसांसां कॊ सतगुरु:: नेनेनां जे रते सतगोरखपरंपा::

नेनां आंधमते अवतारपांत्र:: पांकॊ आ सनवरूपा::

पंदथॊरांनसांम्यांनकीनांरुाते:: सतने अ सतधूरत

पा:: प सं पपरां नीनंननकीधूरतवां:: दे पा धूंन धूकां

पनीपरनांतवां:: नेकॊपां अनु आतपां पसनधूरी::

तेधूपपांपी कॊ सतगुरु:: अपा अपानवंन अंपरांप

री:: पीछ अंदरनवंन:: संधूरसा छि:: संपांपेतनेवे::

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n161/mode/1up



॥ ✿ ॥ त्रीजां जवनना पर छां: श्री सतगोर प्रेरं मां
वांचां: हों स्यांमीजी: त्रीजां जवननी वारतां कहो:
ईपनं नां अरनं नो: श्री नारांऐण वांचां: तंमे सां
मी हो सतगरू: सपतन जवंन आंणां से: तांहां कोईन
रगी: कोई आवागवंनी: कोई रसातां धनां अे: अं
नंत कुगं अंनत कुल पा स्हद्यो: तांहां पारसा जूपमा:
ते अगा संरंग: अवी अपा कूठानां मजी: ते अे कप
रं जे सांरंग: प दंत चीकू तांरां जवंन छे: तेमां मणां
मने सांधो सहमां रंगोनं न: संदर लोकु थी दि स्
तांरां जवंन छे: ॥ ५४०००० ॥ अे कुलां मणो नंन:

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n162/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

तेजो नां न कहुं हें वणें नां आ रणें नी: श्री नां रां अेसा
पां आं: तंणे सा का कें सतगुरु: ईहां ते लोक वसे छे:
नें का सें लोर वां पां अ सां पां आ छे: ते प सी न रां का
हां छे: नें का पां रां सं पां रां आ छे: आं नें अ रां पासा
नें अहु हां न हा हां छे: ते लोक आ सो तां रां न पनें आ
पां छे: को सतगुरु: श्री सत गोर अ र पां पां आं:
को स्वा पी जी: ते तां रां न वंन पां कें लोक छे: ते आं
पार थे आं कहे न कें: श्री ना रां अेसा पां आं: नां रें सत
गुरु: आ ते तें पां र कणां र वार सनी आ पा वर हां नो गवे:
॥१२००० ॥ पू छे पार वर्ण पार त लोक पां कें पड के: आ

realpatidar.com

realpatidar.com

९६

वागवंनपांद्धः पेसो=अवतारः तेवीरसांनो जोग
वेः हो सतगरूः श्री सतगोर ब्रह्म रंपावांआंः होस्यां
पीज्योः ते सांपांइ जोगवेः श्री नाराएण आवांआंः तपो
सोहा हो सतगरूः ने नां नेरते सतगोर ब्रह्म रंपांः ने
नां=अोपापां ते=अवतार पांचः ने से सरगोर ब्रह्म ये
द्वांन तृ देतवांः वसपारांने गनान हो कुरतवांः पां
हांपी सनवरूपाः वेदकोरांन=सांस्यांन हो नांसातोः
ने सतने=असत कुरतवांः देख्या कंन कुकांपनी
परनातवांः ने सो पां यन्न=आंतपांव सनकुरीः ते
कुपापांपे हो सतगरूः =अवीम पा=अपारां मरीः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n165/mode/1up



realpatidar.com

चीनांतांरानवंनसप्रसागा छे: संपापतनवं:
॥ ३॥ ॥ सोधांदरुनवंननांपरछां: श्रीस
तगोरप्रजरंपांवांमां: हांस्वांपीण: हवे सोधा
नवननी: हप्रागतप्रहांदेवनेना=प्ररनांनां:
श्रीनारां=प्रेसावांमां: तंपे सोसांहां सतगरु: स
पतनवन=प्राप्रांसे: प्रांइनरगी: प्रांइ=प्रावा
गवनी: प्रांइरसातांपनां=प्रे:=प्रंनतनगग=प्रं
नतप्रलप्रस्रधा: तांहांपारसाजवसा. ते=प्रगोसं
र: =प्रवापपाप्रहानांपपे: ते=प्रेप्रपरपेसं
रंग: पदंते सोधुदरुनवंन छे: प सांसलांप्र

realpatidar.com

नेयांथी सहनांर जोजेन:: तारांनपवनथी हिम
दरुनपवंन छे:॥ प४०००० ॥ =अेकलांखजोजेन:
तेदरुनांआंअवसतांर छे:॥ १०००००॥ =आठसां
खजोजेंनपांहे: तेदरुनपवननांआंअवसतां
र छे:॥ ८०००००॥ ४॥ तेओथांनपवंन पहे: =ओच
देसांपांहे: =अेकपेरपरबतछे: ते=अेकतरास
लाखनेसाठहनांरजोजेन:: परतलोकथी थाद्र
पहुपासद्धा छे:॥ ३१६००००॥ तेओथेनपवंन: पेर
परबतने=आठसोरंगछे:॥ ८॥ ते सो रंग द्विपर
आठपरी द्विपसे छे:॥ ८॥ हो सतगरु:: श्री सतगो

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n167/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

૧૮

જાં કાં દેવ રૂપી નર જાજાં: તાં કાં અંને કુલી જાં ના
ગવે: વેલા સકુરત વંગ: જાંન ઇ છાં નાંન નઃ પરી
વરતંતે: તાં કાં ન કાંઇ વ્યાજાં: ન કાંઇ વરદાં:
તાં કાં ન કાંઇ ખીસા: તાં કાં કાસાં ખીસાં સરવે અં
કુનાંવનાં: કાં સતગરૂ: શ્રી સતગોર અવરજાંવાં આં:
કાં સ્વાંમીજી: તેકુવલા સજો રાને જાકસો રંગ જાદ્ધે:
જો સાલો જુવસે છે: અસો જારતલો કુજાંકે: કેવાં દાં
ન પુન વરત કો દાં છે: અંને કેવાગરૂની પુનાં કરી
છે: ને આવા રાંજ પાંજાં છે: તેગોનાં ન કુકાં દેવ નેનાં
અરને નાં: શ્રી નારાં અંસાવાં આં: તંજે સો સો કાં સત

realpatidar.com

realpatidar.com

गरु:: ने मांहांतमसांभरी छे:: ने स्रोद्रुमरतमध्रु

द्रां छे:: अनागोरबरांमज्ञानेवचने:: द्विआनरूपी

हांई अवतरां छे:: तेलोक आ हिआवांछे:: हां सत

गरु:: श्री सतगोरब्रमे मांवांया:: हां स्वांमीजी::

ने कुंवसासमोरीने:: महासोरंगमांलोक छे:: तेह्मां

मरथ आकुंनही:: श्री नारांअज्ञावांया:: नारे सत

गरु:: अतोमेनरहनारवरसनी:: आवरहातो

गवे:: ॥ १५००० ॥ मछे मारवने मरतलोकमांहिंमड

ये:: आवागवनमाट्टे:: मेलो अवतारसांनांतो

गवे:: हां सतगरु:: श्री सतगोरब्रमे मांवांया:: हांस

realpatidar.com

realpatidar.com



पांमीज्ञ: ते सांभारे आंगवे: श्रीनां रां=मेकावांयां:
तंमे सोकां के सतगरू: ने नांजेरते सतगोर अपरं
मां: ने नां=मोधामपंते=मवतां रमांचः ने से सरगा
रमजपे दांननकादेतवां: ने वसमरांने गननकी
फरतवां: मां कांया सनवरूपी: वेदफेरांन सां
भ्यांनकानां खातां: ने सतने=म सतफरतवां: दे
ष्मी फेनफफांमनी. परनांतवां: ने कां मां भ्रम=फ=मा।
तमाव सनफरी: ते फेमफांमे के सतगरू: =मवाय
माजांचंन=मंमरांमरी: पेलामंछमादे सां; संपफरता
छे: संमांपतमावे: ॥१॥ ॥ ❀ ॥ भ्रीज=म्रांचदे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n171/mode/1up



realpatidar.com

सा नाम र छी:: श्री सतगोर ब्रमे पांचां यां:: तो
स्थांपीजो:: ब्राज=जोग दे सां नीत ब्राग त छे:: ते नी
इक्कादेवनेना=अरनेनी:: श्री नारां=जेसा वां यां::
तंने सोहांतो सतगरू:: ब दृते ब्राज=जोग दे सांपां तो::
=जेकनां पे पंनां ई सो रंग की छे:: ॥१॥ ब्राने ना पे ता
वा सनव परी की छे:: ॥ २॥ तेनो=जेकलां ख्याने नपा
तो:: पांब्रवसतार छे:: ॥ १००००० ॥ =जेकलां ख्याने न
नो:: =आप सपा दे =आतारो छे:: ॥ १००००० ॥ २॥ तां तां पां तो
नापंनर छे:: ॥२५॥ क्रांम रूपी=अपछ जां:: पांतां देवरू
पीनरपजां:: तां तां=अंने कलाजां जोग वे:: वेला स

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n172/mode/1up



realpatidar.com



ગુરત પંગઃ પાંનઈ છાં જાંનેંન પરી વરતંતેઃ તાં હાં
ન હોઈ ઈઆંજાંઃ ન હોઈ વરદાંઃ તાં હાં ન હોઈ
હા ણાંઃ ન હોઈ આ ણાંઃ તાં હાં હા ભાખ્યા સાં સરવે અંક
જાંપનાંઃ હો સતગુરુઃ શ્રી સતગોર અ રં પાંવાં આંઃ
હો સ્વાંમીજીઃ આ હલો કલો ભવ સે છેઃ એ લો પાર
તલો ભ્રમાંહેઃ કેવા દુરં પવરત ખા દાં છેઃ અને ભ્રુવંર
માન પતપ સાં દાં છેઃ તે આવા ગુંપ પાંમાં છેઃ તે ગોનાં
ન ભ્રહો દુંપનેનાં અરનંનોઃ શ્રી નારાં એ કાવાં આંઃ
તંમેં સોરાણો હો સતગુરુઃ ઈ હાં તે લો ભવ સે છેઃ તે લો માં
હાં પ્રન પાનાં વરત ખા દાં છેઃ અને માં હાં પ્રનાં ઈપદખા

realpatidar.com

દ્વાં છે: ને કો=અંન દ્વાંનવ સત્વ દ્વાંનવ્રાંછે: તે લોક
=આ કાળ વ સનવપરી=આવાંછે: કો સતગુરૂ: શ્રી સ
તગૂરવ્રપરપાંવાંચ્યાં: કો સ્વાંમીજી: ને પંનાઈસો રં
ગની: વ સનવપરી પદ્દ લોકછે: તે=અંપરપ=આવે
નકી: શ્રી નારાં=અેસાવાંચ્યાં: નારે સતગુરૂ: =અે તોપં
નરકનારવરસની: =આવરદ્વાં જોગવે: ॥ ૨૫૦૦૦ ॥ પ
છે પરવૂને પરતલોક પાંકિપડવ: =આવાંગવંનપદ્દે:
પે લો=અવતારતી: પાં કાંરાંનનો જોગવે: કો સતગુરૂ:
શ્રી સતગૂરવાંરપાંવાંચ્યાં: કો સ્વાંમીજી: તે સે=આ
પાં રે જોગવે: શ્રી નારાં=અેસાવાંચ્યાં: તં પે સો કો કો

सतगरू: जे नेनां नेरते सतगोरखां रमां: जे नां आ
पणतेज अवतां रमां: जे सो सरगोर प्रभु दानव
ने हेतवां: पा सां परां नंगानन ने पुरतवां: पां हांवा
सनव रूपी: वेदकोरांन सांभ्यां नहीं नां सातां: जे स
तनेज सतपुरतवां: हेखा केन पुजांमानी परना
तवां: जे सोमां अजुज आतमा व सनपुरी: ते दुपापां
पी हो सतगरू: ज अवा रमपानं वन जांपरांप री: जे
पापी पीनाइ सो रंगने: व सनव पपरां सपुरसा छे:
सांमां पतनवे: ॥ २ ॥ ॥ जो पुरख हे सांनांप
रछां: श्री सतगोरखम रमांवां आं: हो स्वांमीजी:

realpatidar.com

=ओग पुरख हे सांनी कल्पगात:: पुकां ईवनेनां=अेर
नेनोः:: श्रीनां रां=अेसावांग्रां:: तंपे सोकंगा कां सतग
जुः:: ते पुरख हे सांपांकिः:: =अेपुनां पेतां गांगान सोरं
गपे छे:॥१॥ आ जुनां पेता पुरसनां परापे छे:: ते
नोः=अेपुलां अवनोनेन पांकिः:: आंअवसतां र छे::
॥१००००००॥ =अेपुलां अवनोनांन नोः:: =आपसंपाहे=आ
तरा छेः॥१००००००॥ तां कां पो=अेनी पंनर छे:॥१५॥ पां
पाकृपो=अपछ रां:: ते पांकां हे वकृपी नर पाकांः:: तां
कां=अंनेपुलीकाचोगावे:: वेलासपुरतवंगा:: पं
नइ छांचोनेनपरावरतंते:: तां कांन कपाइ आंपां::

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n176/mode/1up



realpatidar.com



નહી કોઈ વરદાં: તાંહાં નહી કોઈ હીસાં: નહી કોઈ આ
સાં: તાંહાં હીસાં આસાં સરવે: એક પાંનગાંવનાં: હો
સતગરૂ: શ્રી સતગોર અરંપાંવાંઆં: હો સ્વાંમીજી:
ઈહાં કો સા લોક વસે છે: એસો અમરતલોકમાંહે: ઠેકાંદ
રઆવરતકો દાં છે: એને કવસાન પતપસાંદાં છે: ને
આવાગાંમ પાંમાં છે: તેગોનાંન કહોદેવનેનાં અરનેનો:
શ્રી નાંરાં એસાવાંઆં: તેમે સોસોહો સતગરૂ: ઈહાં તે
લોક વસે છે: નેસોન તનં તે અસનાંન કરાં છે: નેસો
ગંગાજી માંહે અસનાંન કરાં છે: નેસો પૂરી આ આ આં
રમાંવાં છે: નેસો તાંસાપારદગ: વધિવનાં ગઆ છે:

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n178/mode/1up



realpatidar.com

63

[illegible]

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n180/mode/1up



realpatidar.com



रोछे:॥१००००००॥ तांहां जो=ओनी पंनरछे:॥१५॥ ते
जांप रूपी=अपछरां: जांहां देव रूपी नरपजां: तां
=ओनें कुली जांजोगवें: वेला सकुरतवंता: पंनर
छां जाणें न परी वरतंते: तांहां नको ईध्यांजां: न
कोई वरछां: तांहां नको ईकरां: नको ईध्यी
कां: तांहां कांध्यीकां सरवे=ओके पंन जांवनां: को
सतगरू: श्री सतगोर प्यर पांवांश्यां: कोस्यां पाणी:
ईहां कोमालोकव सेछे: =ओसो पारवलोकपांकीये
पांहर पवरतको ध्यांछे: =ओनें कुवमान पतप सां
ध्यांछे: नें=आवांठांप पांपांछे: तेजोनां न कुंहां देव

realpatidar.com

તે નાં ઉપર તેનાં: શ્રી નાં રાં એસા વાં ચાં: તંજે સો
ક્ષાંહાં સતગરૂ: ઈહાં તે લોક વસે છે: તે ક્ષાં છત્રી
સ રાંગ નાં ત્યાં છે: ॥૩૪॥ અંને વા સનવપદનાં
ત્યાં છે: તે ક્ષાં વા સનવપ પરીધાંપા છે: તે ક્ષાં વા સન
વનાં દ્વારે પપાં ક્ષ છે: તે લોક ઈહાં વસે છે: હાં સત
ગરૂ: શ્રી સતગોર ત્યારે પાંવાં ચાં: હો સ્વાંમીજી:
તે ગઈ પાર સોરંગ તે: સો નાંગપરી પાંહે લોક છે:
તે અંપાર થે આં કેનહાં: શ્રી નાં રાં એસા વાં ચાં: ના
રે સતગરૂ: એતી પંનર પરસની આવર દાંનો
ગાવે: ॥૧૫૦૦૦॥ પછે પાર ધૂન: પાર તલોક પાંહે પડઃ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n182/mode/1up



realpatidar.com

८५

आवागवन मटे:: पेलो अवतार तो:: आतम कुम भांहे
जोगवे:: आतम देहा दुरां ने:: सकुम अवतार जोगवे::
हा सतगरू:: श्री सतगोर ब्रह्मा वांसां:: हा स्वामी जो::
ते से आमां रे जोगवे:: श्री नारां अंहावां सां:: तं मे सा
मा हा सतगरू:: ने नां जे रते सतगोर ब्रह्म रंमां:: ने ना आ
म मते अवतार माचा:: ने से सर गोर मके दान कुदे
तवां:: ने व संभारां ने गनन हा कुरतवां:: मांहे वास
नव रूपी:: वेद कोरां न सांभां न हा नां हातां:: ने सत
नां अ सत करतवां:: दे भा कुं न कुकां मनी पे रमां तवां::
ने हा मां सन्कु आतमां व सन कुकरी:: ते कु भामां मे हा

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n183/mode/1up



realpatidar.com

सतगरः अबीचल पीरांनां वचन अपरंपरीः श्री सो
भी गढाधर सांईगनेः सांनाग परीः ते सपूर्ण छेः
संपापत नवेः ॥ ४ ॥ ✿ ॥ पांच पीरा बावनघडानां
परछांः श्री सतगोर पीर बावाग्यांः ते स्वामीजीः
ने पांच पीरा बावनघडानीः तथा गत गुरु हैदवनेनां
चरणेनीः श्री नार अबावायांः तेणे साहेब ने सत
गुरुः ते बावनघडा पढेः अबुनां पीर नी सां सांईगर्व
छेः ॥ १ ॥ भाजुनां पातीः पांसवंत पराक्रु छेः ॥ २ ॥ तांस्रां
हैवा तेग कांनः नवांनी वसे छेः तेनां अबुवा भनी
नंनपांकेः भांभवसतार छेः ॥ १००००० ॥ अबुसाभ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n184/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]



https://archive.org/details/bk177/page/n186/mode/1up



realpatidar.com



नी: आवरदा जुग वीः ॥ १५०००॥ मछि जात खूने पार
तलो कुपांहे पडवक: आवा जावं न पाइे: लख चो
रासी ना फेरा फरी ने: ॥ ८४०००००॥ पेलो अवता
रतो कुंपडी ना जुग वी: नी कुंपडी न थांइ जेतो: स
रा पात थाइ: नी सरी पांत न था जेतो: न रा हा री
थाइ: एवां च खान अवतार थां हे थी: ॥ ३॥ ए कुं
अवतार जुग वी: हो सतगुरु: ॥ १॥ श्री सतगोर
र थावां चां: हो स्वांमीजी: ते सांभा रे जुग वी: श्री
नारांइए ला वां ज्यां: तं जे सा खा हो सतगुरु: न नां जे
र ते सतगोर प्यंरं थां: नी नां आ पा पते अवतार:

જે સે સર ગોર પ્રખેદાંન નકી દેતવાં:: જે પ સર પ્રરાં
જેગાન નકી પ્રરતવાં:: પાંકાંવા સન વરૂપી:: વેદ
પ્રોરાંન સાંખાંન કીનાંકાતાં:: જે સતને અસતપ્ર
રતવાં:: દેખી પ્રેન પ્રપ્રાંપની:: પરનાતવાં:: જેસાં
પાંચ જત આતપાંવ સન પ્રરી:: તે પ્રે પાપાં પ કાસ
તગરૂ:: અવાચપાનાંવાંન અપારાંપરી:: અતેપાં
ચપીવાંવ પ્રસાપાદે:: દેવી કાગપાન નવાંની ઋખાં
નપ્રછે:: તે સપ્રરસાગ:: સંપાપતનવે:: ॥ ૫ ॥
છત્રીઈસાંન પ્રસાનાંપરછાં:: આ સતગોર પ્રરપા
વાંચાં:: કી સ્વાંપીજી:: કવે છત્રીઈસાંન પ્રસાની::



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n188/mode/1up





हफीगतफहां देवनेनां=अरनेनो: श्रीनांरां=अेहावा
आं: तंमे सोहोहां सतगरू: तेइ सांनकहाजदे: =अे
कपहावसे छे: तेन्हनांमतांद्दि मसां रंगफे छे: तांहां
देवाद्दरगां नावांना रहे छे: तेनां=अेफसां मनेनेन
मांहे: मांमयवसतारछे: ॥१०००००॥ =अेफसां मने
नेनना: =आपसंमदे=आतरां छे: ॥२०००००॥ तांहांमां
=अेना पंनरछे: ॥१५॥ तफांमरूपी =अपछ मां: मांहां
देवरूपी नरमयां: ते=अंनेफले मांनागवे: वेसा
सफरतवंग: मंनइ छां नांनन पहावरतंत: तांहां
नहाफाइ थांमां: नहीफाइवरद्दां: तांहां नहाफाइ

realpatidar.com

अलख

ह्रसां: न हकोइ पापसां: तां हां हसां पापसां सरवेनाव

नां: हो सतगुर: श्री सतगुर परम पांथां यां: हो स्वा

माजी: इहां कोस लोक वसे छे: ओ सो पार तलोक

मां हे: के पाद्दर पवरतकाद्दां छे: अंने कुषंसान्प

तपसां द्दां छे: ते ज्ञानांन कुहां देवनो नां अरनं नां:

श्रीनारां ओ सावां यां: तं जे सो सो हो सतगुर: इहांत

लोकवसे छे: ने सो दरद्यां देवी आगांआ: के पापम्

नां करी छे: ने सो तलन वहो मां छे: ने सो नं तनं तह

रद्यां देवी ना सेवां कद्दा छे: ने सो द्दरंगा देवीनां नांप

करी छे: ते लोक आवी नां गांपांपां छे: हो सतगुर:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n190/mode/1up



realpatidar.com



श्री सतगोरब्रह्मरे मांवांयां:: हो स्वामीजी: नें दिन
मसोरंगम द्वे लोक छे: ते ऋमंमरथ ऋमांके नहो:: श्री
नारां ऋषेसावांयां: नांरे सतगुरु:: ऋषे तो पंनर हजार
वरस नो ऋावरदा जोगवे:॥ १५०००॥ पछे मर रवनो म
रतलोक मांहे पडया: ऋावागवन माहे: लख चोरां
सीनो फेरो फरीने: पछे ऋवतार तो: मांहांव हां रथी
नो जोगवे:॥ ८४००००००॥ के मांहां नोती कथीं ऋषे: के मांहां
दुंनवंत थां ऋषे: क्रांमांहांपंडुतथां ऋषे:: ऋषेवांचांरे ऋव
तार मांहे थी: ऋषेक ऋवतार जोगवे: हो सतगुरु:: श्री
सतगोर ब्रह्मरे मांवांयां: हो स्वामीजी: ते सांमांरे जो

realpatidar.com

गवे: श्री नां रां =ओ सावां सां: तं जे सो सो को सतगरू

ने नां जे ट ते सतगोर पं र पां: ने नां =ओ प पां तं =अ

वतार पा अ: ने से सट गोर ब पे दान ब हे तथां:

ने व स प रां ने ग न न को ब र तथां: ने पां कां पा स

न व रू पी: वे द ब्रो रांन सां पां न को नां सातां: ने स

त ने =अ सत ब रतथां: दे पा पं न ब ब्रां जनी: परनी

तथां: ने को पां य ब =आ त जा व सन ब ब री: ते बे प

पां जे को सतगरू: =अ वा य ब नां वन =अं प रा परी:

=ओ छ ठा ई सां न पू सा ज दे: दि यं प सो रं गां छे: तां हां

दे पी दू रंगा नवां नी धान ब: स पूर सा गा छे: सं पां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n192/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n193/mode/1up



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n194/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n195/mode/1up



गरथां=अे:=अेवी पांनमां इहांनो=अवतार नोग
थे: हो सतगुरू: श्री सतगोर पीर संपावां थाः हो सपां
पीरज: सांपांर नीगथे: श्री नारां=अेसावां थाः तंपे
सोहां हो सतगुरू: नेनां नेरते सतगोर पीर संपाः ने
ना=अेपांपते=अवतार पात्र: ने ससर गोरपांपे
दांनन होइतवाः नेव सपारां नेगनन होपूरतवाः
ने पांहांवा सनवरूपी: थे इप्रोरांन सांपांन होना
होतां: ने सतने=अ सतपूरतवाः इ पांपूंन पूप्रांप
नीपरनांतवाः ने हापांयन=अ=आत पांवसनपूरी:
तपूपपांपे हो सतगुरू:=अवायवा नांवन=अंपरप

realpatidar.com



Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

८२

री: सात पी=अगनाथ्फुस्ता पाद्छे: रे पत सा रंगा फे छे:
तां हां दे पी कुपानां नवानी कुधान कुछे: स फुरगा:
सां पां पतनाव: ॥ ७ ॥ ❀ ॥ =आठ पी नी रतन्फुस्ता
नां पर छां: श्री सतगोर ब्र रंपां वा श्यां: हो स्वां पी ज:
ह पे =आठ पी नी रतन्फुस्तानी: ह फ्रोगत कुहां दे पनें नां
=अ रनें नां: श्री ना रां =अे स्तावां श्यां: तं पे सां स्तां हां सत
गरू: तेनी रतन्फुस्ता पाद्छे: =अे कुपरा व सो छे: तेने पां
स ब्रांत सांरंगा फे छे: तां हां दे वा =आद सफुतनवानी
रेह छे: तेनां =अे फुलां ब्र नों नें न पांहे: ब्रां ब्रावसता
रें छे: ॥ १००००० ॥ =अे फुलां ब्र नों नें न नों: =आप सं पाद्छे

realpatidar.com

=आतरोछे:॥ १०००००॥ तांहां पां=अेनी पंनरछे:॥१५॥
तेपांपरूपी=अपछपां: पांहांदेवरूपीनारपपां:
तांहां=अंनकुसीपांनीगावे: पेलांसकुरपंगः पंन
इछा-नोनेनपरावरतंते: तांहांनकोकोइ पंपां:
नकोकोइपरछां: तांहांनकोकोइ कसां: नकोकोइपा
सां: तांहांकसांपीसासरवे:=अेकुनांपनां: होसत
गरु: श्री सतगोरपीरपांपांयां: होस्वांमीजी: इहां
कोसांसांकुवसेछे:=अेसोपारतसोकुपांहे: केवांहरं
पवरतकाछांछे:=अंने सागोरनी=आगनापाफी
छे:=अेसोकुवंननपतपसांछांछे: नेआवांठांम

https://archive.org/details/bk177/page/n198/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

पर तसो कुपांहिपडयाः = आवागवंन पांह्ंः स पसों
रांसी नो फेरो पारीने :॥ ८४००००० ॥ पछे ढंन वंताः
पांहां ढनवंतां नो = अवतार थीआ = प्रेः = प्रे वो पांनपां
हेकी नो = अवतार जोगवीः ही सतगुरः श्री सतगु
रपांरपांवांआंः हीरवांपीज्ञः ते सांपांहि जोगवीः
श्रीनारां = प्रेसावांआंः तं पो सोराने ही सतगुरः नेनां
नेरते संतगोर रुपरंपाः नेनां = ओधांपांतें = अवतार
पाचः ने सेसरगोर रुपपे ढांन करे तवांः नेवसपारां
नेगान नकी करतवाः पांहांवा सन वरुपाः वेदपारां
न सांपांनकी नो हातांः ने सत नें = अ सतकरतवाः

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n200/mode/1up



realpatidar.com



हे भाई एन कलजुगमां जनी: पर एनां तवां: ने हो पां सग
आतपाप सनकूरी: ते एजपां जे हो सतगुरू: अ
पी सघनां पंन आपरां परी: ते नी रत भुल पां
हे: आ ठपी पां लख अंत सां रंगा: सपुरे लागा छे: सं हो:
ओ पी आ ठ दे सां पहे: आ ठ परी छे: ॥८॥ अंने सा
भुदरू नां पन: सां पुर लागा छे: सांपां पतना वे: ॥४॥
॥❀॥ पांच पांनां पंननां पर छां: श्री सतगोर
भर ए पां पां सां: हो स्वां पी जे: हवे ने पांच पां नवं
ना भूहे छे: ते नी हक गात भ हो हे पने नां अंरनं ना:
श्री नां रां अे लावां सां: तं पे सो लो हो सतगुरू: सप

realpatidar.com



२८५

सी धां मांगा वि:: वे ला स कु र त धं गा:: पं न ई छा मा

मं न प र वा व र तं तं:: तां हां न की कोई आं धां:: न की को

ई प र द्धां:: तां हां न की कोई की सां:: न की कोई पी सां::

तां हां की सां पी सां स र वि:: ओ कु पं न ना व नां:: हौ स

त गा रु:: श्री स त गो र प रे पां वां आं:: हौ स्वां मी जी::

ई हां को सा सां कु प से छि:: ओ सा प र त सां कु पां हैं:: को

पां ह्र रं प व र त को द्धां छि:: आं ने कु वां गो र नी आ गा नां

पां की छ:: आं ने कु पं न न प त प सां द्धां छि:: ने आं वां

हां प पां प्रां छ:: ते गो नां न कु हां दे प ने नां अ र ने नां::

श्री नां रां अ ह सा वां आं:: तं पे सो सा हां स त गा रु:: ते ई हां

realpatidar.com

लोकुप सेछे: ते सांकुनां दान दीधां छे: ने अनेलोल
पर स्नांवां छे: ने अनां गार रूपरां पस्नानेय अनेद्दर पाक
द्धां छे: ते लोक ने आंसोधा न कु ने आंवां छे: हा सतगरु: श्री
सतगोर रूपरे पांवांयां: हा स्वांपा मे: ते रुछना पं
न पांहे लोकुछे: ते ने अंपार थे ने अपकुनहा: श्री नारांए
सपांयां: नारे सतगरु: ने अते पांची सहनार वर
सनी: ने आवर दान तोगावे: ॥३५०००॥ प छे पार पूनें
पार तलोकु पांहे पडवे: ने आवा गावन पांहे: पेलो
ने अवतार सांछ ने आना तोगावे: हा सतगरु: श्री स
तगोर पांर पांवांयां: तंप सोसाहा सतगरु: नेन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n204/mode/1up



realpatidar.com



ना मेर तें सत गोर ख्यर पां: नां श्री पाख्यं तें अव
तार पांच: से सर गोर पञ्चे दांन न को दे तवां: नें
प स प रां नें गान न धर तवां: पां कांवा सन व रूपा:
पे दुझो रांन सांभ्यांन को नां कोतां: नें सत नें अस
त धरतवां: दुभ्या धुंनधुंपनी पर नां तवां: नें
सोपांज्ञा ऋ आतपाव सनधुरी: तपे प पांजे कास
तगरू: अवा अपनां वन अंपरापरी: अपांस
पां रू छनां वन सपरसागछे: सां पांप तनवे: पा
॥ ॥ छठां नवं न नां पर छां: श्री सतं गोर ख्यं
र पांवांचां: कोस्यांपीजे: कपे छठां नवं न नीवा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n205/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

र तां: कुहां देवनंना=अरनंनो: श्री नारा ऐ सावांया:
तं पं सोसां हां सतगरू: सपतन वंन=आ कुंस: तां हां
कोई नरगी: कोई=आवागवंनी: कोई रसातावनी
=अ: =अंनतजुग: =अंनतकुलप: तां हां पार सांज वसा
=अगा अरंग: =अवा अवकुदान अवे: =अं कुपरं पोसं
रंग: वंद तेछ कुनवंन =अंदरा ससा वे छे: तां हां रां नो ए
द ररान कर छे: ते पां असां अन आवी सहनारनोनं
न: रुछ नवंन थवा: =अंदर सां कहुअ छे: ॥ ५४००००० ॥ ६ ॥
=अं कु सां अनां नन पां हि: =अंदर नवंन नो अंजवस
तार छे: ॥ १०००००० ॥ तां हां पां हेनी आवी स छे: ॥ ७ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n206/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

realpatidar.com



तेजुगां जरूपी अपछवां: जां हां देवरूपी नरपजां: तांहां
अंने कलीयानां जगवे: वेसास करतपंग: पांन ई सां
नांनांन परावरतंते: तांहां न हा क्रोई ध्याजां: न हा क्रोई
परद्धां: तां हां न हा क्रोई हासां: न हा क्रोई प्यीसां: तां हां
हा ग्रांमी ग्रासरवे: अके कपांन नांवनां: हा सतगरू:
श्री सतगोर ब्रंहमा वाच्या: हा स्यापीत्र: ई हां क्रोरा
सां कुपसे छे: अने हां जरतलो कपां हे: केवा द्दरपवर
तकद्दां छे: अने हांके वांगोरनो आंगनां पापी छे: अंने
केवानपत पकद्दां छे: ने आवां ठांमपापां छे: तेजनां
नक हां देवनं ना अरननो: श्री नारां अने हावां च्या:

realpatidar.com

तंपेसोमा नो सतगरु:: इनांतेलोकव से छे:: ने मोतोमा
दान करवां छे:: ने मोतीरथ दान करवां छे:: ते नागोरखप्र
पसानेव अने:: दान पुनवरत करवां छे:: ते लोकमा
पीनागापां मां छे:: नो सतगरु:: श्री सतगोरखपरमावां
आं:: नो स्वामीजी:: ने छ कै ते दरजावंन मांहे लोक छे::
ते आंपरथे आवेन नो:: श्री नारां ते से वांआं:: नारे स
तगरु:: ते नेआ मासमना रवर सनी:: ते आवर दानो
गर्वे:: ॥ ५०००० ॥ पछे पर वनेपार तलोक मांहे पड पु::
ते आवागावन मांहे:: पे लो ते अवतार न सतीनांगां
पे:: पछे लख चोरासीनां फेरा फेरे छे:: ॥ ८४००००० ॥

realpatidar.com

हो सतगरू: श्री सतगोर ब्रह्म ने पावां सां: हो स्वांमी जी:
ते सा भाटे पोरां प्रार छे: ते ने दउ हो दीप ने ना=अरणं नो:
श्री नारा=अेसावां सां: तेने सांसा हो सतगरू: ने ने नां
नोर ते सतगोर ब्रह्म ने पां: ने नां=अो पाप ते=अवतार पां
म: ते सर गोर पु खं दांन कहे तवा: व सपरां ने गान
न हो उरतवां: पां हांवा सनव रूपी: वे द पोरांन सां
भ्यांन होपां भतां: ने सत ने=अ सत उरतवां: दे खी ने
न उपाभ नी परणा तवां: ने सां पां य ज=आत पावस
न उरी: ते मे भ पां भे हो सतगरू: =अवी य पान वं न=अ
भरांपरी: =अे छ क=अ दरनं वंन सपूरसां छे: सांभां

https://archive.org/details/bk177/page/n209/mode/1up



पतनावे: ॥ ६ ॥ ॥ ॥ सातपानावचननाथ्र

ॐ: श्री सतगोर ब्रह्म राजा बावा आं: तिस्यां पाणज: ने सा
तपानावांन छे: तेने = असवा सद = अंबरांपरी वृक्ष छे:
तेनो ब्रह्मा गात वृक्ष: ईद्रवनेना = अरनेनो: श्री नाराय्रण
बावा आं: तंपे सांकतां तिसतगोरू: ने सातपानावांन
= अंबरांपरी छे: तपां अलाख ने आवास तिनारनो
नेन: = अंद्रलोक था ऊपर: = असवा सदा = अंबरांप
री छे: ॥ ५४०००० ॥ तेनो = आठ लाख ने सात तिनार:
पां असेने = अवुवासनोनेन: पां ति ांबवासतां
र छे: ॥ ८०१५२२ ॥ तां तिंपां ओस तेवांई वांई सतीनो

realpatidar.com

ती: तांहां पांप्रते सुख सांतां: ॥ अंने सुख सेनांगा
सरीरने: तांहां सरवे दुख नासंतेगा: तांहां पांहि
नी सतर: ते अंदर पांवद्दनी: ॥४७॥ अंने सतर
सुरन रंगानी: ॥४८॥ तांहां आर आर दिवफेनां:
॥४९॥ ते सरव पेप पानेपानफु: पद्मासन आरनां छे:
॥५०॥ अंफु फार पे सरने घेरे: सती अो सोव स्त्री
नारी छे: तांहां पांप्रपी ते अरद्ध अंगनां: ते पारत
लोकनी छे: ॥५१॥ ने कोई सती साधवी: अंफु पांन
सुद्धलानी सेवा करे छे: ते सरवे उपर तांहां पटरां
णी थासे: ते अरद्ध गना फुपानजगनी छे: तांहां पांन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n211/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n212/mode/1up



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n213/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n214/mode/1up



realpatidar.com



ते=अेकोकोंगरे=अेक=अेकसरण छे: ऐकनार
सारसेने=अेकवासः तेकोरने सारतांको ठारांसां
छे: ॥२४२१॥ ते=अंपरांपरनी=अेकी कोपसतारछे:
तेणे सोहों होकनावरो: ते=अंपरांपरीनां कोटणां
के: रखे सरनां पांकोसरखां छे: ते पालने सोनांना
छे रूनें: कसकरीनागारां: प्रणे णेला छे: तेपालनी
पर सोवसानीवणी=अां: =अंने रूपांना सरी=अा छे:
साका सकनार सारसेने=अेकवासनोनेन: ते रखे
सरनां पाल हिसां को छां छे: ॥५००४२२॥ ते=अेको कोपां
लनो हिपरतां: सात कणस सोवसानां रडांवां छे:

॥१॥ तवूजासनेस्रुरजनासरखानोतजायलू छे:
तंजे सोसाको सतगाडू: तेघरनी आगाजोनुरांसाकुना
दिपरीजे: पांत्रसेकुवरसतादिनां: गाकुदिहडेरंजेछे:
तेनाकांथमांके सोनांनीगाकुदि छे: अंनेपासालकुजीती
अे तेनांजडु जडांछे: तेघरनीजपालापांसे: सातस
रोवर अंपी अेंनरांछे: ॥१॥ तेसरोवरनेसोवरसाना
सीरां: अंनेकुसतकरीनागारांछे: तेणेकुरीनेसरो
वरनीपापव्यांद्यछे: तेजेसोसांकोकुनीवरो: पासा
कुजातीनेरतनपदारथनी: तेसरोवरमांके वंपाघ
सांछे: तांकां अेजाझारमेसरनेअेघांवरआपसे:

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n216/mode/1up



realpatidar.com



=अेकोच सोभा =अेनां: ॥१०१॥ =अेकोच सोभा पनां:
॥१०२॥ सातपंथ सासरीनो: ॥१॥ पण वेंदनकावंघा
भा हिसाहिब सेवा: तेजुनीवर तांहां =अेवोवर भांभ
से: =अंने साहिबनो हुकम थासे: नेतांभे सरवेनोते
डो: =अंभरांपर भां हनो =अे: तां हां वारेण वां =अेकवे
=वकातनदा =आवेछे: तेमेतेनदा सितरानेना =अेा: भंका
ने कोई रखे संरसंसार भांहि: सतगोर बरंभानेव
मने: सामा हसे: =अंने श्रीनारां =अेकादेयननां भेपू
रां हसे: तेजुपवेंदन =वकातनदा सिसितरसे: बाको सर
वे =आरें सिनाभ इरसे: ने कोई जुनीवर वां छकाां छन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n217/mode/1up



त रेनरमपांमसेः नेकोई गोरनोरनेवचनः प
रमांनेपुरांमसेः तेपरसला हुतरानेः अंमरांप
रीमांमनासेः तेजवलाववांनघाटा हुतरसेः नेको
ई रमे सर आ सतपंथनीः सगाई अे सांयांमसेः
ते अेवा ठांम पांमसेः हा सतगुरुः श्री सतगोरब्रं
मांवाआंः हा स्वांमीजुः ई हांकोमालोकवसे छेः
अे हा परतलोकमांहेः केवा द्वरं पवरतको द्वां छेः अं
ने केवा कमां ईको द्वा छेः अे हा केवा गोरनी आगनां
पाली छेः अं ने कुवहानेपतपसां द्वां छेः अे को हा गो
रने वचनने वचनने आला छेः तेजेनानकुहांदेवनेनां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n218/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n219/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n220/mode/1up



[illegible]

१०४

https://archive.org/details/bk177/page/n221/mode/1up



पांचां: तेने सोहां हे सतगुरु: ते आठ पांच सपान
तोन रांधार कीहे छे: पांच लाख ने पाछी सहनार
नोंनेन: सात पाच वनथ पहेपर: आठ पान रां
धार नवंन छे: ॥ ५४०००० ॥ ते अेक लाख नोंनेन पां
हे: तेनो पांच वसतार छे: ॥ १००००० ॥ ते सरवे सा
लख छे: तां हां सरवे सुन दास छे: तेना अेगा पांहे सर
वे पालाअेक रहे छे: अने देव देवानां रहे छे: सरनर
कुनी परतां लख धी आवसे: ने पापां सारु पंधांतां: कु
साकु सांरी: धरमा अेरहा: ने पा सांनां कु सारी अग्नान पा
हे: ते पापुनी पर कुसी अें: सतपंथ पार ठीअें: ते पापु

https://archive.org/details/bk177/page/n222/mode/1up





मस्तक साधु सावे ता :: अंमरां पर पापसी :: अने पु
ण्य जुगत लखावे ते :: कधु करणी गत जुना वरसर नां छे ::
नवी नव सतपंथ :: पर रसाई फल पाप ते :: आ स
तपंथ सदा आत मांग छे :: ने सतसे ने पर तां पे :: पु
न पाप जुनी वर लंगते :: हो सतपंथी सतगोर जी ::
ने आ तुमांनारां जुआर न वंन छे :: ते सप रल्यागा छे :: सं
पा पतन वे :: ॥ ८ ॥ ❀ ॥ नो पा अ स पा न ना
पर छां : श्री सतगोर स्वरंगां वांचां :: हो स्यां पी जी ::
कवे न पमां अ स पानां छे :: ते नी कण्डी गत जुका :: ई
प ने ना अर नंनां :: श्री नां रां अ सायां वांचां :: तंप सां सां

realpatidar.com

हो सतगरु:: अनेवपुनवंन तेपुरसी पुहे छे:: ते
पांचलाख ने आकाश सह जोजन नी नेन:: नरां कारनं
वंनवधे:: द्विपरपुर रसी अरस पांन छे:: ॥५४००००॥
अंनत नी नेन पांहे:: ते पुर रसी नवंन नो वांसवस
तार छे:: तां हां नरां कारन ते न अंनंत छे:: हो सतग
रु:: श्री सतगुर खरं पांवायां:: हो स्वांमीजी:: ते पु
र सी पुवंनरुपी छे:: तां हां पुवंन रमनां रया छे::
तेगे नानपु हो देवनेनां अर नेनो:: श्री नारां अं
वायां:: तं पीसासां हो सतगरु:: ते पुर सी नें सी कुंतपा::
अंन सख पारवांनी हंस:: अपु नवेर अपु मसपां::

https://archive.org/details/bk177/page/n224/mode/1up





अेकनर अेकपाहीः तांहां कांसांहारांहाथपांः हुरां
मरनरनां ऊभछेः तांहां अनंतलीपांकुरतवांः तांहां
पां अेपोसांली होतवांः तेकुरसीनवननीरयनार
षीछेः अेवीलीपाछेः तेनेहुरांपरीकहीछेः तेनवपां
असपांननेकहीछेः तेसपूरसागछेः संपायतना
पेः ॥२६॥ ॥दसपां असपांननापर छोः
श्रीसतगोरपरंपावांआः होस्वामीजेः तेदसपां
असपांनकहीछेः तेनाहपीगतकहोदेवनेना अ
रनेनांः श्रीनारांअसावांआः तेपीसासाहोसतगरुः
तेदसपांनवननुनापातांअरसकहीछेः तेनापांहां

https://archive.org/details/bk177/page/n225/mode/1up



नवनाथजो:: अंकुलां ख्यनोनेन दिओ छे:: ॥ १०००००
अंकुलां ख्यनोनन था हि नेन अरसनो वां व्यवसतां
र छे:: ॥ १००००० ॥ हां सतगुरु:: श्री सतगुर अर थावां
या:: हां स्वांमीजी:: ने तेन रूपी नं रनेन छे:: ने अंनत
जुगत छे:: ने न्हर सरूपी नां रां अंकुला छे:: ते कुवंनथान
कुवस छे:: ते कुवंन रूपी अरसनवंन छे:: तेनो नान
कुहां द्वव नोना अरनो नो:: श्री नारां अंकुलावां या:: तंपी
सोहां हां सतगुरु:: ते अरसतां न्हर सरूपी छे:: ते तां हां अं
नत न्हर छे:: तां हां अंनत तेनो छे:: तां हां अंनत नोत छे::
तां हां अंनत तेनना वां व्यवसतार छे:: तां हां न्हर रूपी

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n226/mode/1up



realpatidar.com



नारां अंसा छे: तां हां तेन रूपी नरने न छे: तां हां प्र
गमूर संगव से छे: नगा चजावां नांगा: श्री पर ग
सार तां हां व से छे: तां हां तेन नात स्वत द्वीप रे: सांहं
स्वपातवेठा छे: तां हां नूर रूपी नरनेनव से छे: अं
नत नूर अंनत तेन: तां हां परश्वासनव ने छे: तां
हां परनूर आंपे आप: तेन नात स्वत द्वीप रवेठा छे:
तां हां सरीनर: पूनीव रदेव तां सवद सूतो छे: तां
हां सर वे कुपा आग पा अगीयार: तेन रूपी सांहं स्व
अंपार छे: नख तल सर वे लखां: अंतनां पीनर
नेन पूछे छे: तेनां हं कुप पा पश्वा सर वे से सर माले

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n227/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

१०८

तें सपूरखजा: संघापतनवे: ॥१०॥ ॥ ❀ ॥
श्री सतगोरब्रह्मापाया: हो स्वामीजी: =ऐसर
पेरखमनांकुहा: तें सासावातलखी छे: पंडा सात
पापांतावाथीकुटीनो: ॥१॥ दस=अवसपानसुद्दो:
सपांरकुहछे: तेंनोतेंदकुहोदवनोना=अरननो:
फेरला=अेकुजीननो: श्री नारां=अेसावाया: तेजे
सोहा हो सतगरू: परषप सात पे पातावाथी: दसपा
=अरसपान सुद्दो: परकुंस नवे तेजा: =अेरलानरवा
हालखांछे: तें=अेदरईपापसांहांकुहछे: तेजे सोहा
होजुनीवरे: नवपदपा: ॥६॥ =अडतालीसलीलपा:
॥४८॥ सोची सप्परख: ॥३४॥ =अोगहा तेर=अरख:

realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n230/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



पार ख्यानाना पर छां:: श्री सतगोर ब्रह्म पावांयां::
ना स्वांमीजी:: पर धर्मी द्विपर ख्यार ख्यांडाना द्वितपत
छे:: तेनी नकलीगत कहुं ना:: हेवने नाम्र रननो:: श्रीना
रांम्रेझावायां:: तंथी सोझानी सतगुरु:: पेली सवत
ख्यांडा पद्रे:: म्रेकुपी सलांख्य जुवांनन छे:: ॥२१०००००॥
ते पछी नवलांख तारा:: ॥१६०००००॥ म्राठलांख पर
ख्यत:: ॥८०००००॥ चारलाख्य वाम्रेवा हमी:: ॥४०००००॥
ते सप द्वियज्ञाव सतां:: ॥३॥ म्रोतपप पवीत्र छे:: तारां::
॥१॥ तराख्युः ॥२॥ नेकयंन:: ॥३॥ तेवसतां यज्ञापर
ख्यारूं छे:: तारा रूपीन वेख्यरं पां:: वाख्या रूपीने नाम्र

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n231/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

रनंनाः ॥२॥ ॐ मन रुपी तंपांद्वीपपांहि सरः ॥३॥ तेस

प तख्यांश्रा पद्धि अंकुवी सम्रप तारः ॥२४॥ पांनख्यांहेश्रा

नानांगवछेः पंली सपतख्यांश्राः सपुरश्राछेः ॥१॥

॥ श्री सतगोर ब्रह्म पावांयांः हां स्वाभी न्नः भीन्न

ईकुख्यांश्रानी फली गतफ्हांः द्वेपनं नाम्र रनंनाः श्रीना

रांम्र श्रावांयांः तंपे सोश्रां हां सतगरुः भीन्न ईकुख्यांश्रा

पद्धिः अंकुपी सलांख्यन्नवानीन पारेछेः ॥२१०००००॥

त पांहिनय सांख्य नांत नांगपाम्रांः ॥८०००००॥ आठ

सांख्यनांत पंपीम्रांः ॥८०००००॥ यांर सांख्यनांत नध

यांरां ॥४००००००॥ तपांहि त्र श्राप सतकुतांपपात्र छेः ॥३॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n232/mode/1up



realpatidar.com



ને સઃ ॥ ૧ ॥ ગરડઃ ॥ ૨ ॥ ખાંકુંનાઃ ॥ ૩ ॥ તેવ સતોઅ કળપ
રજા રે છેઃ ॥ ૩ ॥ ને સરૂપી નવે અવતારંમાંઃ ॥ ૧ ॥ ગાંરડઃ રૂપ
નીનાં પરનંનાઃ ॥ ૨ ॥ ખોરનરૂપી દેવપાંહેસરંગાઃ ॥ ૩ ॥
તઈ ક્રિસ્નાંમાંપાંહે અકલી સપ્રવતારઃ ॥ ૨૧ ॥ પાંનમાં
હેનાનાગવે છેઃ અલી ઈક્રિસ્નાંમાં સપુરખાગ છેઃ ॥
॥ ✿ ॥ શ્રી સતગોર અંરપાવાંઆંઃ હેસ્વામીજીઃ અલી
નેહલીના આંમાં છેઃ તેનીં પાગતપહેઃ દેવનેં નારાયણ
નાઃ શ્રીનારાંએ માવાંઆંઃ તેં પેસોમાંહેં સતગરૂઃ અલી
જીનેહલીના આંમાં પદઃ અકલી સલાખ જુવાંનીન
પારે છેઃ ॥ ૨૧૦૦૦૦૦ ॥ તપાંહેનવ લાંખનાંતનાંગાદ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n233/mode/1up



=आं: ॥ ९०००००० ॥ =आठ लांखनात सागादी =आं: ॥
॥ ८०००००० ॥ आर लांखनात कुदपुदी =आं: ॥ ४००००००
तेपांहि अवताव सतो =आंत जपपवो चछे: =आंन: ॥ १ ॥
वारहा: ॥ २ ॥ यंदन: ॥ ३ ॥ तेव सतो चजापरपार छे:
=आंन रूपीन वंबरं पां: ॥ १ ॥ वजा रूपीनं नां =अरनं
नां: ॥ २ ॥ यंदन रूपी तंप्रदेवा: =आंप्रदेवपांहि सरग:
॥ ३ ॥ =आंवा हिंदवीन मांजापांहि =आंकुवा स=अवता
र: ॥ २१ ॥ पंन मांहिंजानां नोगवे छे: =आंचो कु हिंद
वीन मां जा: सपूरजागा छे: हो सतगारू: ॥ ३ ॥ ❀
श्री सतगोर भरमावाया: हो स्वामीजी: पोथी

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n234/mode/1up



realpatidar.com



न रांखांना नी कजीगा तः जु कि हिवणेनां अरणेनोः
श्रीनारां अेशावांआः तंजे सोशोको सतगाडः सो
धीन रांखांशा जाडिः अेजुवा सलांखणुवांणेन
फरे छेः ॥ २१००००० ॥ तेजांकेनव लांखनांत हिअे
पगांः ॥ ६०००००० ॥ आठ लांखनांत सोअेपगाः
॥ ८००००० ॥ आर लांखनांत जाई सआरीः ॥ ४००००० ॥
तेजांकियशाव सकअेतें जप पवीय छेः ॥ ३ ॥ अस
वः ॥ जुगरः ॥ २ ॥ [illegible]ः ॥ ३ ॥ तेवसतीयशापर
फुरि छेः अ सव ड्पन वेअरेजाः ॥ २ ॥ नर ड्पा
नेनां अरणनो ॥ जुगर ड्पी तेहिवजां कसरं गाः ॥ ३ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n235/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

॥४००००००॥ अंस रवे अंजुवा सलां मनां तः सेनां
यसीअणके छे: ॥२१००००००॥ तेमांके अणाप सक: ॥३॥
अंतपपवी अछे: नंप: ॥१॥ तप: ॥२॥ संपां: ॥३॥
तेपसतां अणापरपांरे छे: नपरूपीनावेसरं पां:
॥१॥ तपरूपीनं नाअरनं नां: ॥२॥ संपारूपी तेपां
देवी: अंनदेवपांके संरंग: ॥३॥ अंव्यासेन असीत्र
तेपांन सां देकापांकेपसे छे: अंवापांयपासां का:
सपुरणगछे: संपापतनवे: ॥५॥ केसतगरू:
॥ ॥ श्री सतगोर सरंपां वांयां: केस्यांपां कः
अंवा यार सां का छे: ॥४॥ तेपांके कपनापे रां छे:

https://archive.org/details/bk177/page/n237/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n238/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

छे: ॥१॥ त्रेतां जुगनां वरसां कह्यां: द्वापर जुगनां
हे आठ लाख छे: ॥२॥ द्वापर जुगनां वरसां कह्यां:
ते आठ लख जुगनां हे आठ लाख छे: ॥३॥ आठ लख
ना जुगनां वरसां कह्यां: ते द्वे जप्रुनां हेनां से: ॥४॥ ते स
तो पुरीनां हानी: हां सतगुरु: आंदेवी लख पा रांसा ना
पार तां: सं पुरसा गछे: सं पापत नव: ॥८४०००००॥
॥ ❀ ॥ श्री सतगोर अजरं पावां आं: हां स्वांमी जः प
रपनो तपार सपह हे छे: अरं पा: वासनव: नोपा
हे सर: सपुत रूपी वेदुवी आर: परपपाळांव्यं द्व:
आँ जुसा पॅसा पां सेपी रूपां: तेना हपळा गत पुहां: द्व

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n240/mode/1up





नें नाअरनंना: आनारांजेरूपांयां: तंपे सो सांहि
सतगरू: पेलां तां नीत सरूप नरंजन नरांकार
नां रांजेरूप: तें आपां आपनीत सरूप थी: संसार
गीरप्प रंपांहुवां: ॥१॥ तंप्परपांपां सेथी: अहुंकार
हुवां: ॥२॥ तें अहुंकारपां सेथी: पंद्र आर हुवां: ॥३॥
तें पंद्रआरपां सेथी: हवाहरस हुवां: ॥४॥ हवाहर
सपां सेथी: अगेपाअ द्वरंपाहुवां: ॥५॥ तें द्वरपापां
सेथी: दिदफहुवां: ॥६॥ तें दिदफपां सेथी: नवखंड
परथीपापां: सरव [illegible] हुवां: ॥७॥ तें नवखंड परथ
पापांहि: ॥८॥ छपन क रोड नांजन कांखंड वां हां छे:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n241/mode/1up





realpatidar.com



પાનથી: તેને આવાંગવનના પેરોછે: તે એવા અંધ
ભાંરપાંહેરહે છે: તેઈ સાંનપ્રસાપાંહે અંધભાંર છે: તાંહાં
આત્ર દિસાંપાંહે એકપીરપરખતછે: હો સતગરુ: શ્રી
સતગોરખરંપાવાંઆ: હોસ્યાંપાણ્ણ: પરથપીદિપ
રત્રસાએરસાકેહે છે: ॥૩॥ અંને સાડાત્રસાપાઠકેહેછે:
॥૩॥ તેની હભાગતકેહે: દેપનેનાઅરનંનો: આના
રાંએસાવાંઆ: તંપેસોસાહોસતગરુ: પેલાંતા હુકમાં
રએરસાછે: ॥૧॥ આનાંતાંગંપભાંએરસાછે: ॥૨॥
આગ તાંનીપભાંએરસાછે: ॥૩॥ એપીત્રસાએરસા
પરીપરતં તેહો સતગરુ: પરથપીપાંહેસાંડત્રસાપી

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n243/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n244/mode/1up





नवी सात:॥१॥ बीजी तां आर कंसनी:॥२॥ त्रीजी
तां पसे वासां यंनी:॥३॥ चोथी तां क्यां पर्ख यर:॥४॥
पांचमी तां संप सरी:॥५॥ छठी तां पदं पसा:॥६॥
सातमी तां कंसतसा:॥७॥ आठमी तां मंतनी:॥८॥ नव
मी तां सपसा:॥९॥ दसमी तां द्दरनी मंत:॥१०॥ अ
गीआरमी तां जेसा क्यां:॥११॥ बारमी तां रंन्नां:॥१२॥
तेरमी तां अंतवसा:॥१३॥ चउदमी तां तजा तंप्रां:॥१४॥
पंनरमी तां मीजार गख्यां:॥१५॥ सोळमी तां पछ्यां:
॥१६॥ ऐवी सोळ मातनी अ सची ओछे: हो सतग
रु: श्री सतगोर पर्रं पांवांयां: हो स्वांमीजी: परधे

realpatidar.com

realpatidar.com

पीढि पर आठ परब्त तेणा टाणां छे: ॥८॥ नेमे आधारे
सांते पाताळ थ्याहां छे: ॥ ७ ॥ तेनी ह्मक गतखू कों: ह
पनेनां अरनंमोः श्री नारां अेसावां यां: तंपे सांसा
कां सतनाढू: पे लातो हपांन पपरब्त: तेई सान
ख्यूसापांहे छे: ॥ १ ॥ ब्योनां तो पासी आगर परब्त:
नेनेगरी आ परब्त खूहे छे: तेपू रब्य इ सांपढे: या
सानगरी पांहे छे: ॥ २ ॥ चोनां तो हिंदे आय पपरब्त
तखूहे छे: ते अंगान ख्यूसापांहे छे: ॥ ३ ॥ पांचा तो हुर
सागर परब्त खूहे छे: ते ह्मसा इ सांपांहे छे: ॥ ४ ॥
पांचमां तो सेलां सां परब्त खूहे छे: तेनी रतख्

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n246/mode/1up



realpatidar.com



सापांहि छे: ॥५॥ छ तांतां द्वीपां गर परबत कहि छे:
तेप छपां दे सां पां हि छे: ॥६॥ सात पां तां ओ ने अे सां
परबत कहि छे: ते वां व ख सापा द्वि छे: ॥७॥ ने आठ
पाताल पेर परबत कहि छे: ने सर वे परबत नां
सल द्वार छे: ते ने आद दे सां पां हि छे: ॥८॥ ने ने आं
द्वारे सात पां तां ना व्यां द्वां छे: ॥९॥ ने अंने ने अरुवा
सेव परपांकु रांख्यां छे: ॥२९॥ ने ने दे से ने अस पांन कु
हि छे: ॥१०॥ ते पेर ने आ द्वारे व्यां द्वां छे: हां सतगरु: ने अे
गाड पेर नो पार तां: स पुरस गा छे: सं पाप तन वे:
॥ ❀ ॥ ने अेरुवा सप रा द्विना पर छे: श्री सतगोर

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n247/mode/1up



परंपांवांयां: हांस्वांमीज्यु: ने पीर परमतना=आ
धारे:=अेमुवा सपरीद्दछे: ॥ २१ ॥ ने ने=अेमुवा ससा
रंगमुहछे: ॥ २१ ॥ ने ने=अेमुवा सम्परंपारमुहछे:
॥ २१ ॥ तेना हम्लागतमुहा: ईवने नां=अ रने नां: श्रीना
रां=अेहावांयां: तंपे सांसां हां सतगरू: ने=अेमुवा स
परी=आपाद्दिर यनांछे: तेना सरवे हम्लागत लखी
छे: ते तंपे सांसां हांपानावरा: पे लापरापाद्दे: रांनी
मुत रांनमुरछे: तांहां सरवे मुतडांपसे छे:=अेवा
रयनाथईछे: हां सतगरू: श्री सतगोर परंपांवांयां:
हांस्वांमीज्यु: ई हां मुंहां सांमुपसे छे:=अेहां पर तसां

realpatidar.com

realpatidar.com



कपांहेः केवाधरं पावरतलोदांछेः ने आवा ठांपपा
पांछेः तेजोनांनकहे देवनेनां अरनेनां: श्री नारा
अेसावांआं: तंपेसाराहे सतगरू: ने सापारतलोक
पांहेः पोतांनी देहे पूर्णा थाछेः ने सांभीनाने पूर्णा
करांवाछेः अने पोते पूर्ण थईने बेठा छेः ते लोक
आं हावसे छेः हे सतगरू: श्री सतगोर ब्रह्म पावां
आं: हे स्वांमीजी: ने पेला जुत परीपांहे लोक छेः ते अ
पारथे आं केनाहे: श्री नारां अेसावां आं: नारे सत
गरू: अेतो बेह नारपारसनी आपरदां जोगवे:
॥२०००॥ पछे पारब्रह्मने पारतलोकपांहे पडघः आवां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n249/mode/1up



गपंनप छ: सस्प मोरांसानो षेरो पहरीने: ने कोई
जतनो सेपप हा=ए: तेघर=अपतार जोगपे: हासत
गरू: श्री सतगोरप्य रपांपांआं: हास्पांपाज: तेसां
पांरे जोगपे छे: श्रीनारां=प्रेहापांआं: तपे सोहो हास
तगरू: नेनेनां नेर ते सतगोरप्य रंपा: नेन=ओपाप्य
ते=अपतार पांच: ने सेसर गोरपप्ये हांन नहते पां:
नेप सपरां नेगनन हा परतपां: पांहां पासन परू
पी: पेद पोरां न सांच्यांन हा नांहां तां: ने सतने=अस
तपरतपां: ईप्या पंन पपांपनी परनात पां: ने हा
पां मन=आतपांप सनपरी: तेकेपपांजे हा सतगरू:

realpatidar.com

आपी अजान पंन = आंमरां परी: पेसी कूत परी स पूरसा
गर्छे: संपां पतनवे: ॥ २॥ ॥ ❀ ॥ भी म परीना परछा:
श्री सतगोर रुप रंभांवां आं: ही स्वांमी जी: भी म परीनी
हपागत पूछा: ईपनो ना = अरनो ना: श्री नां रां = अे सावां आं:
तंमे सांसा हि सतगरू: भी म परी पछे: रांनो मांजी = आं
ईप रांनपू रे छे: तांहां सरवे तेनी प सती छे: हि सतग
रू: श्री सतगोर रुप रंभांवां आं: ही स्वांमी जी: अेसा म
रत लोकमांहि: कुवाद रंभ परत पूा द्वां छे: ने = आवा टांम
पांमां छे: ते गोनां नपूछा ईपनो नां = अरनो ना: श्री नां रां
= अे सावां आं: तंमे सांसाहि सतगरू: इहां ते लोकप से

realpatidar.com
realpatidar.com

छे: ने हांपारतसोक पांह: पाणी=आदेपनी पूनांपी
दी छे: प की भीनांने सेवांक रांवी छे:=अंने पोते पूर्ण
पईनर्भ रांछे: तसोक=आं ह=आवांछे: हां सतगुरू:
श्री सतगोर भरंपावांचा: हां स्वांपीणी:ने भीणीप
री पांह सोक छे: त=अंपारथ=आकेन ह:श्री नारां=अंसा
पांचां: नारे सतगुरू:=अंतीपां असेपर सनी=आव
रहांनोगवे: ॥ ५०० ॥ प छे पार पूर्ण पारतसोक पांहप
डपू:=आवांगवंन पढे: लख सोरां सानो फेरो फरा
ने: ॥ ८४००००० ॥ ने कोई पाणी=आदेपनो सेवक हाए:
ते घर=अपतां रनोगवे: हां सतगुरू:श्री सतगोरभ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n252/mode/1up





गारख्य रे पावां आं: हां स्यांपीज्य: त्रीज्य परी खु हि छे:
तेनी हक्षीगत खुहां: ईयर्न नां अरर्न नां: श्रीनारां अंस
पां आं: तं पे सो सां हां सतगरू: त्रीज्य परीप ई ईपा सखु
त रांन्खु रे छे: तेनां आंरनां प सख्यां छे: पे रखुनां पतां
प सख्मीन पे सांखु हि छे: ॥१॥ ख्मीजुनां पतां रेसां खांखु हि छे:
॥२॥ त्रीजुनां पतां सखुती खु हि छे: ॥३॥ चोथुनां पतां रां
न सखु हि छे: ॥४॥ अंपा आरनां पे छे: तांहां सरवे स
खुतीप से छे: हां सतगरू: श्री सतगारख्य रे पावां आं:
हां स्यांपीज्य: अंसोपारतसोखु पांहि: खुपा ईरंपवरत
खा ईां छे: ते आपां टांपपां पां छे: ते गोनां न खुहां: ईयर्न

https://archive.org/details/bk177/page/n254/mode/1up





नांअरनंनोः श्री नारांअेसावांम्याः तेणे सोहांहो स
तगरूः ईहांतलोकवसेछेः नेसोपरतलोकपांहेः स
कतीनी पूर्णांपी दीछेः नेसारांनलोनांपरतकोदीछेः
नेसोपोनांने पूर्णांकरांपाछेः तांहांपां तेपूनथईने
पो हांछेः अंने सकतीनांनां पकी दीछेः तेअंपांनां
अंगां पांपांछेः हो सतगरूः श्री सतगोरख्यरपांपांम्याः
हो स्वांप्रांणः नेसकतपरीपांहेलोकछेः तेअंपर
पेअांपोनहोः श्री नारांअेसावांम्याः नारे सतगरूः
अंतेसोपरसनोअांपरदांनांगवेः ॥१००॥ पछेप
रपनेपरतलोकपांहेपडवः आवांगावंन पढोः स

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n255/mode/1up



ख्याचोरासीनो फेरो फरीने:॥८४०००००॥ ने कोइस
फलदेवानो संघफलोहे: ते घरनोइने अवतार जोग
वे: हो सतगुरू: श्री सतगोर ब्रम्हा पांचवा आ: हो स्वामी
जी: ते सांमारे जोगवछे: श्री नारांअने लवा आ: तंजे
सोग्रा हो सतगुरू: ने ने नांचीर ते सतगोर ब्रह्मा:
ने नांअने जाब्रह्म तेअवतार पांच: ने से सरगोर ब्रह्म
दांननू फल देतवा: ने पसमारांनगाननफलकरतवा:
जांहांवासनवरूपा: वेदकोरांन सांभांनफलनांफ
तां: ने सतनेअसतकरतवा: एब्रा कंनकजांमनी
परनातवा: ने लापांयञतआतमांवसनकरी: तेही

https://archive.org/details/bk177/page/n256/mode/1up





पपांपे हो सतगरू: आवी अथान पंन आंपरांपरी:

जीव सघुतपरी सपुरसांगा छे: संपांपतनपे: ॥३॥

॥ ✿ ॥ श्री सतगोर ब्रह्म परंपांयांआं: हो स्वांपीज: नों

पोथीपरी पुह छे: तेनी हकीगत कहो: हेवे नंनाआ

रनंनां: श्री नारांअेहावां आं: तपे सोसा हो सतग

रू: पोथीपरीपढ्य: रानां ब्रह्म पा: रांकु सरांनकुर छे:

तां हो सरवे रांकुसी पांआं वस छे: हो सतगरू: श्री

सतगोर ब्रह्म पांयांआं: हो स्वांपीज: ए हो कोराल

कुवसे छे: अे को परतलोकुपां हे: केयां द्दरंपवर

तपी द्दांछे: अे को केयां गोरनी आंगनां पांपी छे: नों

realpatidar.com

=आवा ठांम पांमां छे: ते जोनां नकु हो देवनो नां =अरजनो:
श्री नारां =प्रेसावां मां: तेने सो सो हो सतगरू: ए हो ते
लोक वस छे: ने सो पारत लोक पांहे: अरांपसागारकु
द्वां छे: ने सो अरांपसानी सेवा घसा करी छे: ने सोय
रत वरतां सां भी द्वां छे: ते =आवी नागा लोक पांमा छे:
हो सतगरू: श्री सतगोर अर पांवां मां: हो स्यां पांमा:
ने रांक सपरी पांहे लोक छे: ते =आंपार थे =आंकेन हो:
श्री नारां =प्रेसावां मां: नार सतगरू: =अेतां सांवरस
नी =आवरदा भोगवे: ॥१००॥ पछे पारब्रंनं पारत
लोक पांहे पहचे: =आवांगव पदे: लग्स मोरां सो

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n258/mode/1up





नोफेरो फेरीनेः ॥८४०००००॥ ने कोईअरंजरांजुस
नो सेवक होय तेः तेघरनेइने अवतार आवागवेः होस
तगरूः श्री सतगोर अरंजां वांसांः होस्यां जीवः ते
सांजोरे आवागवे छेः श्री नारांअेशावांसांः तजे सांसा
हो सतगरूः ने नेनां जेरते सतगोर अरंजांः ने नां
ओधायांते अवतार पांचः ने सेसगोर जुआदुंान
नो ढंतवांः ने व संजरां ने गान नहा जुरतवांः जांहां
वा सनं वरूपोः वेद कोरांन सांख्यां न हा नां शातांः
ने सतने असत जुरतवांः ढुंखो कुंना कुवांजानोप
रनातवांः ने हांजां अन्नआत जांवसन जुरीः तेपे

https://archive.org/details/bk177/page/n259/mode/1up



जपांजे हो सतगुरू:: अपी मपानवंन:अंपरांप
रीः पोथी वरंपरांक्तसपरी: सपूरसागर्छे:: संपा
पतनपे:: ॥४॥ ॥ श्री सतगोरव्परपांवांआं:
हो स्वांमीजी:: पांमजीपरीवृंहेछे:: तेनीकथागतक्त
हो:: देवनंना:अरनंनो:: श्रीनारां:अंसावांआं:: तंपे
सांभो हो सतगुरू:: पांमजीपरीपाछे:: देवरांक्तसरांनं
क्तरेछे:: तांहांसरवेरांक्तसवसेछे:: हो सतगुरू:: श्री
सतगोरव्परंपांवांआं:: हो स्वांमीजी:: तेरांक्तसदेव
तांक्तनक्तहेछे:: असोपरतलोक्तपाहे:: क्तवाद्धरंपव
रतवाद्धाछे:: अंनेक्तवागोरनी:आगनांपांडाछे::

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n260/mode/1up





नेआवां ठांमपांमां छे: तेजोनानकहां देवनंनाअरणंनो:
श्री नांरांअणे आवांयां: तेम सोहां हां सतगुरु: ए हां तेलोक
पसे छे: ने हां पार तेलोकमांहे: पेहेवांपांनेरवनी पू
नां करी छे: ने हां तेनांनं सेवां करांवां छे: अंने पांते पू
नांथई नेमे ठां छे: ने हां पेहेवांराम वरांवा छे: अंने अ
नअ ना सा छे: ते लोक आवा ठांमपांमां छे: हां सतगुरु:
श्री सतगोर रुप रमांवांयां: हां स्वांमीजी: ने पांसमीप
रीमां लोक छे: ते अंमर थई आंकेनहां: श्री नाराअणे आवां
यां: नांरे सतगुरु: अमे तो अमे कुसो वर सनी आवरहां
ओं गवे: ॥१००॥ पछे पार कुनं पार तेलोकमांहे पंडवु: आं

realpatidar.com

वांगवन मंद्धि: लख मोरांसानां फेरो मारीने: ८४०००००
ने फोई मघ पानेरपनां सेव फ़ तोऽत्रे: तेघरे रनेईने
ऽप्रपतार नोगवे: हां सतगरू: श्री सतगोर प्यर पां
पांग्यां: हां स्यांमी ०ज: ते सामार नोगवेछे: श्रीनारां
ऽमेहापांम्यां: ते मे सोहाहां सतगरू: नेनांने रते सतगो
रप्यरपां: नेनां ऽप्रापाम्यते ऽप्रपतार पांत्र: ने सेसर
गोरफ़ पंद्धान नहाहे तपां: ने पसंमरांने गनन हाफ़र
तपां: मांहांपी सनवरूपी: पंद्ध फ़ोरांनन हानांहातां:
ने सतने ऽप्रसतफ़ रतपां: दृष्पीफ़ंनफ़फ़ांमनापरना
तपां: ने हांपां प्रनु ऽमातमांप सनफ़री: तेफ़ेमपांमेहां

realpatidar.com
realpatidar.com

सतगरु:: =अवी अवतारवंन=अंतरां परी:: पां अजी हुंय
रांघ सप री:: संपुरण गाछे:: संपांप तन वं:: ॥ प ॥ ❀ ॥
श्री सतगोर रव र पांवां यां:: हो स्यां पीणे:: नें छ ठा परी
पेहेछे:: तेनी हणीगात कहो:: हुंपनें ना=अरनें नो:: श्री नारं
=अंगापां यां:: तंपे सोहां हो सतगरु:: छ ठा परी पर हुं:: रांनं
गर हुप रांनं पर छे:: पीण सर पे तेना प सती रहे छे:: हो
सतगरु:: श्री सतगोर रव र पांवां यां:: हो स्यां पीणे:: छ हो
पेहेलां संघप संछे:: =अंगे पर त सां पपांहे:: के पां दर जप
रत पांद्यां छे:: =अंनके पां पपांइ पांद्य छे:: नें =आयां ठां पपां
पांछे:: तेंनीनांन कहो:: हुंपनें नां =अरनें नो:: श्री नारां=अंग

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n264/mode/1up



realpatidar.com



जोगवे:: के सतगुरु:: श्री सतगोर रूप रेपांवां आं:: के
स्यां पाणी:: ते सांपारे जोगवे छे:: श्री नारां अेसावां आं::
तेपे सांसांके सतगुरु:: नेने नां जर ते सतगोर रूप रेपां::
नेनां अेवं पाप्प ते अय पतां रपांचे:: ने से स र गोर पूप्प
दांन कूदे तवां:: ने प सपरांन गान न के पूर तवां:: पा
कांवा सन पकूपी:: पेद पूरां न सां म्यांन कीनां सातां::
ने सतने अ सत पूरतवां:: दे प्पी पेन पूपां पनी पर
नातवां:: ने सा पांच कूत आत पांप सन पूरी:: ते पूपा
पांपे के सतगुरु:: अ पी य पा जांप न अेपे परांप री:: छ ठा
गर दुव प री:: स पू र सा गा छे:: सं पांप त जवें:: ॥ ६ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n265/mode/1up





॥❀॥ श्री सतगोर ब्रह्म रे पांचां आं:: हां स्यांपीण्यः नेसा
तपीपरीकहे छे:: तेनी हकीगत कहां:: देव नेनां अरनेंः
श्री नारां अे हावांचां आं:: तंप सोहां हां सतगोर:: सातपी
परीपद्धे:: गहांस देवतारां ने कह रे छे:: पीण्य सरपे तेना
पसतो छे:: हां सतगोर:: श्री सतगोर ब्रह्म रे पांचां आं:: हांस
पांपीण्यः ईहां को हालो कहवसे छे:: अेहां पर तलो कहपां
हे:: कुपांद्ध रे पपरत को द्धां छे:: अंने कोहा गोर नी आग
नापापी छे:: ने आपीनां अेगापांपां छे:: तेगोनाने कहेः
देवनेनां अरनेनोः श्री नारां ए हावां आं:: तंप सोहां हां
सतगोर:: ईहां तेलो कहवसे छे:: ने हां परतलो कहपां हे:: गं

realpatidar.com

realpatidar.com



ज्यां सहदेवनी पूजां करी छे:: ने ज्यां प्रहलादे भगती करी छे:: ने ज्यां
गोर ज्यां सहदेवनां परतख दीधां छे:: ते लोक मांज्यां ठाम आव्यां
छे:: हो सतगुरू:: श्री सतगोर पीर पांवांसां:: हो स्वांमीजी::
ने सातमी परीपा द्वीप लोक छे:: ते अंतर मे आंणोन हो:: श्री
नारायण मे पांवांसां:: नारे सतगुरू:: अंतर मे लोक सांवरसनी
आवर हाजागवे:: ॥ १०० ॥ पछे परवनं परतलोक मांहे
उपू:: आवाजागवनपद:: सप्प सांरां सोनी परी पहरीने::
ने त्यांई गर्जा सहदेवनी सेव करी अपे:: ते घेर नई इने अव
तर छे:: ते मेध वांजानी अवतार जागये:: हो सतगुरू:: श्री
सतगोर पीर पांवांसां:: हो स्वांमीजी:: ते सापाटे जाग

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n267/mode/1up



realpatidar.com

वे छे: श्री नारंजनसावां यां: तं पासासाहा सतगरू: नेनां
मे रतं सतगोरपर पां: नेना आप प तं आप वतां रपां:
नें से सरगोर पछ प दांन कद तवां: नें पसपरां नगन
न हो कुरतवां: पां हां वी सन पकुपी: पे द पोरांन साप्ता
न हो नां हातां: नें सतनें अ सतकरतवां: द पा कंन कु
कां पानी पर नातवां: नें हो पांय कत आतपांप सनकु
री: तं कुपपां पे हो सतगरू: अपाय पपलांवन अपराप
री: सातपाग हो सपरी: सपर हा गा छे: संपा पतन
वे: ॥ १ ॥ ❀ ॥ श्री सतगोरपरं पांवां यां: हो स्वांपी
जी: नें आपुपीपरी कु हे छे: तेनी हकोगत कु हो: द पनें

realpatidar.com

नां अरनं नां:: श्री नां रां अे आवां आं:: तंपे सा हां हां सतगरु::
इमाउ मी प री पद्दे:: रांमा ने रप रांन क रे छे:: तां हां सरवे
तंनी सं सर छे:: हां सतगरू:: श्री सतगोर प्र रंपावां आं::
हां स्यांपीण:: ए हां क्रां सालोक प से छे:: अे हां पर तलोक
पांहे:: कुवाद्द रं पपर त क्रोद्दां छे:: अंन कुवंनान सतप
सां द्दां छे:: ने आवा हांप पांपां छे:: तेनो नान कहां:: देवनं
नां अरनं नां:: श्री नां रां अे आवां आं:: रंपे सा हां हां सतग
रू:: ए हां तं सलोक प से छे:: ने हां पर तलोक पांहे:: ने रप नी
प नां क री छे:: अंन ने रपनी जगती करी छे:: ते लोक अां
नो आं पां छे:: हां सतगरू:: श्री सतगोर प्र रंपावां आं::

https://archive.org/details/bk177/page/n269/mode/1up



ते स्वांमीलोः ने आ ठपी परीपद्दे सोळ छेः ते अंपार प
आंपन तेः श्री ना रां अंगळा वांआंः ना रे सतगरूः अ ते
अंप सांवर सनी आय रहा गांग वेः ॥ २०० ॥ प छे पार ख
ने पार तसांख पाहे पडखः आवा गावं न पहेः लख आरां
सो ना ंफेरो फरी नेः ॥ ८४००००० ॥ ने खांईने रचना संप
ख तेः अंः ते घेर नई ने अवतार गांग वेः ते सतगरूः श्री
सतगोर ब्रम्हपावांआंः ते स्वांमीलोः ते सां पार गांग
वे छेः श्री ना रां अंगळा वां आंः तं पे सांहा ते सतगरूः नेना
मेर ते सतगोर ब्रम्ह पाः ने नां आंपे ज्यां ते अवतांर पाम्याः
ते सतगोर ख़ेवे दांन न दे तवाः ने प सप रां ने गानन ते

realpatidar.com

कुरतवां: पांहांवी सनव रूपी: वेद कोरांन सांभांनहा
नांहातां: ने सतनेअ सत कुरतवां: ईंभी कुंनकुकांपनी
परनातवां: ने हेपांअकृतअातपांव सनकुरी: तेकुंप
पांपे हां सतगरू: अवी अपाअांनावनअंपरांपरी: आ
ठवीनेरवपरी: सं पुरखागछे: संपांपतनवे: ॥८॥
श्री सतगोर ब्रंमा पांवांआं: हो स्वांमीजी: ने नव वीपरी
कुंहछे: तेना हुकोगतकुहां: ईवने नाअरने ना: श्रीनारां
अंमेसीवांआं: तंपे साखी हां सतगरू: नववीपरी पाहे: रांन
अंभेरांनकुरेछे: भोमी सरवे तेनी वसती रहेछे: हां स
तगरू: श्री सतगोर ब्रंमा पांवांआं: हो स्वांमीजी: ईहांकोरा

https://archive.org/details/bk177/page/n271/mode/1up



सोकुप सेछे॥ ओसोपरतसोकुपाके॥ कुपाद्धरंपपरतकु
रांछे॥ अने सो जगतीको द्वाछे॥ ने आपांठांप पांपां छे॥
ते जोमांनकुको देवनेनां अरजनोः॥ श्रीनारां असापांयां॥
तं पे सोसो को सतगुरू॥ ईहां ते सोकुपसेछे॥ ने सोपरतसो
कुपाके॥ अपदेवनी पूनांकुरी छे॥ ने सो पहनगतीकुरी
छे॥ अने पोतं पूनथईने पे ठांछे॥ ने सो अपदेवनोनां
पपाद्धाछे॥ ते सोकु आसो ठांप आपांछे॥ को सतगुरू॥ आ
सतगोरपरंपांपांयां॥ को स्वांमीजी॥ ने नवपापरपद्ध
सोकछे॥ ते अंपरथ आंपेनके॥ श्रीनारां असापांयां॥
नारे सतगुरू॥ अतोपसेपरसनी आपरहांनोंगावे॥

realpatidar.com

२२९

॥२००॥ पछे पीर खुने पीरतसो कुपांमे पड्यां ॥ आवागंवन आ
छे ॥ लख चोरासी ना फेरा फरीने ॥ ८४००००० ॥ ने कोई अ
मृत देवनां सेवक होय ॥ ते घेर नथी जन्म अवतार लेवानो ॥ हे स
तगुरु ॥ श्री सतगोर ब्रह्म पांचां ने ॥ हे स्वामी ॥ ते सांभारे तो
गवे छे ॥ श्री नारायण आचार्यां ने ॥ ते पी सो होय सतगुरु ॥ जेनां
तो रहे सतगोर ब्रह्म पीरनां ॥ जेनां अंपा ने त्रणे अवतार पांच ॥
से सारगोर ब्रह्म ज्ञान देतवां ॥ जे बसपरांन गगन ना [illegible]र
तवी ॥ पांडवां बीसन रूप ॥ [illegible] सांभ्यांन [illegible] तां ॥
ने सत ने असत पुरतवां ॥ [illegible] जन कुपां पानी परनांत
यां ॥ ने सांपां [illegible] तपांय सनपरी ॥ ते कुप पांपी होस

https://archive.org/details/bk177/page/n273/mode/1up



तगरूः आपी अपवास धनआरं घारापरीः नवघरी आघ
देवपरीः सपूरसागछेः संघापतनावेः ॥१६॥१८ ॥ॐ॥
श्री सतगोर ब्रहमा बोलीआः के स्वामीजीः ते दसघरीपरी
पूरुछेः १० तेनी कथा गत पूछीः देवनंनां आदरनंनाः श्रीना
थांआसावांआः तंप से सोकोके सतगरूः दसघरीपरीपादेः रां
नां सूरपंतरांन पूरेछेः प्राण सरवे तांकेवसदीछेः केस
तगरूः श्री सतगोर ब्रहमा बोलीआः के स्वामीजीः एकांघारा
सोपूपसेछेः अंसो परतसोपूपाकेः पूंवां दरंपवरतवाधां
छेः असो पूंवां गोरनी आगनां पांपा छेः ते आवां ठांप पांधां
छेः तेगेनानपूछीः देवनंनां आदरनंनाः श्रीना रांआसावांआः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n274/mode/1up





तंमें सांसां कें सतगुरः ईमांते सांभलप संछें: नें तेंपरतसां
भलाकें: सुर पंत देवना भूलां भरी छें: नें तें अहवेदवें आं
रपांमां छें: अंनें अहवेद भूसत भवां आंछें: नें तें सुर
पंत देवनां अहसपरतां मांछें: तेसांभ आंतें ठांप आ
यां छें: कें सतगुरः श्री सतगोर अपर पांयां आंः कें सवां
पीजः नें द्रसपी परी पद्दे सांभ छें: तें अंपर थें आवें नकें:
श्रीनारां अंसवां आंः प छें परवनें परत सांभ पांकें पड
पूः आवांगवन पद्दे: लख चोरासी नां फेरो फरी नेः
॥ ८४००००० ॥ नें कोई सुर पंत देवनो संपवकें अंः नें को
पीता वेदवां मं छें: नें पांरां नां परमनथी नां माताः नें

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n275/mode/1up



काव्ये दनेवांरे आसतांनथी: तेघर नई=अवतारनोग
वे: हां सतगरू: श्री सतगोर ब्रह्मावांआं: हांस्वामी
जी: ते सांभारे नोगवेछु: श्री नांरां=अंसावांआं: ते ब्रसो
स्सा हां सतगरू: ने नेनां नेर तेसतगोर ब्रह्म पां: ने न=अे
काम्यं ते=अवतार: ने से सर गोर ब्रह्म वेद्दांन कदे तवां:
ने प सम्र रांनं गानन हां कुरतवां: ब्रांहांवा सनव रूपा:
वेदक्रोरांन सांख्यांन हांनांहातां: ने सतने=अ सतकर
तवां: दिख्या केनकूक्रांप नीपरनांतवां: ने हांपां अंकु
=आतमांवसनकरी: ते कैपपांपे हां सतगरू: =अवा
रपनावंन=अंप रांपरी: द सपी स्रूरपां तपरी: सां

realpatidar.com

realpatidar.com

२३२

प्रकासछे: संप्रापतगवं: ॥ २० ॥ ✿ ॥ श्री सतगोरब्रह्म
प्रावांयां: हंस्यांप्रीजी: ने अगोआरप्रीपरीछे: तेनीकथा
गतप्रकहाः देवनेनाअरनेनां: श्रीनारांअंहावांयां: तेपसा
सांहीसतगरू: अगोआरप्रीपरीपद्यः रांनासूरनरां
नप्रकरेछे: तांहांसरपेसूरनपसारेहेछे: हीसतगरू:
श्रीसतगोरब्रह्मप्रावांयां: हीस्वांप्रीजी: ईहांप्रोरासो
प्रपसेछे: अंहांपरतलोकप्रांहे: जेयां द्वेरपावरतप्र
द्वेछे: अनेप्रोह्मानपतपसांद्वांछे: नेआवीनांअंगापा
प्रांछे: तेजीनानप्रकहा: देवनेनांअरनेनां: श्रीनारांअंहा
वांयां: तेपसांसांहीसतगरू: ईहांतेलोप्रपसेछे: ने

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n277/mode/1up



हां भरत लोकमांहे: सुरनदेवनी सेवांकरो छो छे: ने हां
सुरननी जगती करी छे: ने हां सुरनना वरत पाळां छे:
अने सुरनना बहु संभारना करो छो छे: ते लोक आवा गु
नपां पाळां छे: हां सतगुरु: श्री सतगोर ब्रह्म पाळां वांच्यां: हां स
पांभीआ: ने अजगो आरभी पारी भद्दे लोक छे: ते अंभरथ
आंकुनहे: श्री नांरांअणे आवां च्यां: नारे सतगुरु: अतां
ब्रह्म सवर सनी आवर दांनो गवे: ॥२००॥ पछे भरख
ने भरत लोकमांहे पडचू: आवां गवन भद्दे: ते मिआ
रांसीनां फेरां फरी नें: ॥८४०००००॥ ने कोई सुरनना पू
नां करतां हां आसे: ने सुरनदेवनां सेवक हां आसे: ते छोर

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n278/mode/1up





नछन ने अवतार जोगवे: हो सतगर: श्री सतगोर रुपरे
पांपां म्यां: हो स्यांमीजी: ते सांभारे जोगवे छे: श्री नारां
अरूपांमां: तं पण सोहो हो सतगर: ने नांनेर ते सतगो
र रूपंर पां: ने नां अंकांपां ते अवतार पांच: ने से सर
गोर रूप व्यांहां नकुदेतवां: ने वसपं रांन गान न हो फरत
वां: पां हांवी सनप रूपी: वेद कोरांन सांम्यांन हो नारां
तां: ने सतने अ सतफरतवां: दे खीफ न फ फांपनी पर
नातेवां: ने होपां सम त आतपांव सनफरी: नो तं फेंपं
पांजी हो सतगर: अवा मवानांपन आंपरांपरी: अगा
आर वी सुरने परी: सप रखाग छे: संभापत जवे: ॥ २२ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n279/mode/1up



॥❀॥ श्री सतगोर प्य रपावाचा: ते स्वांपीजी: ने
प्यां रपी प री कहे छे: तेना हजीगत कहो ह्द्य वंनानी अर
नंनी: श्री नारा अफेरावाचां: तंप सोरा ते सतगुरु: प्यां
रपी परीपद्दे: रांनांपु नी रांन कुरे छे: तांहां सरवेपु
नी नंन पर्से छे: ते सतगुरु: श्री सतगोर प्य रे पावांचां:
ते स्वांपीजी: ए हां प्रा रा ली कुप से छे: अफेरा प रतली
कुपां है: कुवां दर पाव रत की द्यां छे: अंन कुवांन पतप
सां द्यां छे: ने आवां ठांप पांपां छे: तेगे नांन कहे ह्द्य वंनां
अ रनंनां: श्री नारा अफेरा वांचां: तंप सां रा ते सतगुरु:
ए हां तेसां कुप से छे: ने रांप रत लो कुपां है: कुनी वरत

realpatidar.com
realpatidar.com

realpatidar.com

२३३

पांचांछे: अंने जुग जांहि थी आलांन थी: ए तो तेलो कु

आवांछे: तो सतगुरु: श्री सतगोर पीर जांणावांः तो स

वांणी जे: ने ओ आर पांप री पाइ ते लोक छे: ते आंप रथ आंध्र

न तो: श्री नांरां अंग्रे संप्रावां जांः नारे सतगुरु: अंतो ओ से

प रसनी आवर ● दा भोगवे: ॥ २०० ॥ प छे प रपुने प

र त लोक जांहि: प ५ ५: आवागवंन पाइ: ल ख चोरांसी

नां फरां फरी ने: ॥ ८४००००० ॥ ने जीव जुनी देवनो सेव

क ते अंग्रे: ते घर ने ए ने आवतरे छे: ते जुगनां अवतार

भोगवे: तो सतगुरु: श्री सतगोर पीर जांणावांः तो स्वां

पी जे: ते सांझांरे भोगवे छे: श्री नांरां अंग्रे संप्रावां जां: ते जो

realpatidar.com

realpatidar.com

सोहोणा को सतगुरू: ने नां नेरंत सतगोर रपां रखां: ने नां
ओ धाम ते अवतार पांचा: ने से स गोर पुखे हांनेहे
तपा: ने प संभारां नगान नहा पुरतपां: पांहां पा सन
प रूपी: पे ह पो रांन सांभ्यांन हा नां सातां: ने सतने अस
त पुरतपां: ह म्य पुंन पुख्यांमना परनातपां: ने सो पांच
पुत अत पांप सन पुरी: ते पुंप पांपे हो सतगुरू: अपा
मपानां पन अंप रांपरी: प्यागु पी पुना हे प परी: सपू
रन्याग छे: संभाप तनर्वे: ॥ १२ ॥ ॥ श्री सतगोर रपरं
पांपांयां: हो स्यांभी भो: ने ते रप्पी परी पुंह छे: तेना कपु
गत पुहा: ह पने ना अ रने नां: श्री नां रां अने सा पां यां: ते पे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n282/mode/1up





सोहा हो सतगुरू: तरपापरीपाद्ध: रांणा सुरदेव रांण
करे छे: तां हां सरवे तनी वसती रही छे: हो सतगुरू: श्री
सतगोर पप्र रंपावांयां: हो स्वांमीजी: ए हां ओ लोकुव
से छे: ओ सां पार तलोकु पाहे: कुपां द्वरं पावरत पो द्वां छे:
अंन कुवसा नपतप सांद्वां छे: ने आवां ठांप पांपां छे:
ते गोनांन कु हो देवनें नां अमरनेनां: श्री नां रां ओ सा वांयां:
त पे सोहा हो सतगुरू: ए हां ते लोकुव से छे: ने सां पारतलो
कुपांहे: सुरने देवनी पुनां करी छे: ने सा तार पनां यां कु
द्वां छे: अंन प्परांपसागोर पो द्वां छे: ते लोकु ए हां आवां छे:
हो सतगुरू: श्री सतगोर पप्र रंपावांयां: हो स्वांमीजी:

realpatidar.com

जेतरपीपरीपाद्दसोकछे: ते अंपारथ अपांकनहो: श्री
नारां अेसावांआं: नारे सतगरू: अेतोप्प सेपरस
नी आवरदा जोगवे: ॥२००॥ पछपारपनेपारतसोक
पांहेपडपः: आवागवंनपाद्दे: लप्प मारांसानापेरे
परीने: ॥८४०००००॥ जेकोई सरदेवनो सेवकहो अे:
अंने ठांला तीरथ करतां परे: ते घर नई ने अवतार
जोगवे: हो सतगरू: श्री सतगोरप्प रंपांवांआं: होस
वांपीज: ते सांपाटे जोगवेछे: श्री नारां अेसावांआं:
तंपे सांसोहो सतगरू: जेने नांके रते सतगोरप्प रंपां:
जेने अंपाप्पंते अवतांरपाचे: जे से सतगोरप्प प्पेहां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n284/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n285/mode/1up



realpatidar.com

सती सरपेतेनी सेसर छे:: हा सतगरू:: श्री सतगोरब्र
रमावांयां:: हा सवांमीजी:: ए हांकोहा लोकप सछे:: अने
मरत लोकमांहे:: कवांद्दर मपरतक्ष दांछे:: अने कोहा
गोरनी जगती कराछे:: ने आवां ठांम पांमांछे:: तेजोना
नकहांद्दिपनेनां:: अरनेनां:: श्री नारां:: अंसावांयां:: तेप्रे
सांहाहा सतगरू:: एहांते लोकप सछे:: ने हांमरत लोक
मांहे:: मोचदिपनी पुनांकोदांछे:: अने मरांमहागोर
कोदांछे:: अने पूनांछे:: तेलोक आवा ठांम पांमांछे:: हा स
तगरू:: श्री सतगोर ब्रमावांयां:: हा सवांमीजी:: ने प
हिदमोपरी महिलोक छे:: ते अंमरथ आंकेनहा:: श्री नारां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n286/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n287/mode/1up



realpatidar.com

नहानांखातांः नें सत नें अस धरतयांः देखी धंनगनां
जनी परनातयांः नें पांच अंआत पांच सनधरीः तेग
जपां जे हो सतगरः अपी सधान वन अंजरां जरीः य
दिदना सायदेव परीः सधरनागछेः संजांपतनयेः
॥२४॥ ✿ ॥ श्री सतगोरब्रह्मरंजावांयांः हो स्वांमीजः
नें पंथ रखी परी धूहेछेः तेनी हधागतधहोः देवनेना
अरनंनाः श्रीनारांअसावांयांः तं जे सांखां हो सतग
रः पन रखी परीधहेः रांनांहरंजरांनधरेछेः तां हांस
रवे हरजगातअआवसेः हो सतगरः श्री सतगोरब्र
रंजावांयांः हो स्वांमीजः इहांखांज लधव सेछेः अ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n288/mode/1up



realpatidar.com



सो पर तलोक मांहे: केवा धरं मप रत पी धां छे: अने
फरास गारनी आगना पांपी छे: ने आं सो ठांप आवां छे:
तेजी नान कुहो द्रिपने ना अरने नो: भीना रा अेस वा
यां: तंपे सोसाहो सतगुरु: ई हां तलोक पसे छे: ने सो
पर तलोक मांहे: प सिद्धर पपी धां छे: ने ने तेने गोरषा
धा छे: क पात्र ने दा नदा धां छे: अने से सरगोर ष ष
पान पी आं पप्यां: ते लोक आं सो ठांप आवां छे: हो स
तगुरु: श्री सतगोर प्पर पावां यां: हो स्यां पीजे: ने पं
नरषी पर सीप द्वि लोक छे: ते अंपारथ आं फेन हो: भीनां
रां अेस वांयां: नारे सतगुरु: अंप तां चरस सेव रस नी

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n289/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

हो मरतलोकमांहे: केवा धरंम पवरतवी धांछे: अंने
कसागरनी आगनापांमी छे: ने आंहो ठांम आवांछे:
तेजे नानकहो द्वपनेना अरनेनो: श्रीनारा अेहावां
मां: तंमे सांहांहो सतगुरु: ईहां तेलोकप सेछे: नेहो
मरतलोकमांहे: प्रिधरमपीधांछे: नेने तेने गोरखा
धांछे: कपाचने धांमहा धांछे: अंने सेसर गोरखप
थानथी आजम्यां: तेलोक आंहो ठांम आवांछे: हो स
तगुरु: श्री सतगोरपरमावांयां: हो स्यांपीज: ने पं
नरवीपरीमाद्व लोक छे: ते अंमरथ आफेनहो: श्रीनां
रां अेहावांयां: नारे सतगुरु: अेतांचहा सेवर सनी

आपरहांते जुगवे: ॥३०००॥ पछे परपुने परतसांगुआ
ह पडवढ: आपा जुगवन पाहे: लख ग्यो रां सानो फेरो
फरीने: ॥८४००००००॥ तेने सतगोरब्रह्म रंपानथी पाप:
आंने धरेपा मनां हे प्रूरेछे: ते अवतार पाचआपा ब
पंनां: धरपाजुं याता हां आपे: तेधारनें ई अवतार जुग
वे: हां सतगुरु: श्री सतगोरब्रह्म रंपांपां ग्यां: हां स्वाप
त्रु: ते साधा रेजुगवे छे: श्री नारां ने सापां ग्यां: तेपां सा
स्त्री हां सतगुरु: तेनां ने रते सतगोरब्रह्म रंपां: तेनां भो
पाते अवतार पाच: जे से सरगोरधू खेदान अुंटतवां:
तेप सपारां जजगनन हीदुरतपां: पांहां वीसनपद

realpatidar.com

पीः वेदपोरांन सांभ्यांनहीनांहातांः ने सतनेअसत
करतयांः ए भीयनकयांनीपरनातयांः ने हीयांअ
तअतपांपसनुकरांः तेकेपांतेहीसतगरुःअप
पयांपनअंपरांपरांः पंनरपीदरपगतीअापरीः
सपूरसागछेः संपापतनवेः ॥१५॥ ॥ श्री सत
गोरब्रह्मपांयांयांः हीस्वांपीनः ने सोपनीपरापे
छेः तेनीहपोगतपहीः देवनेनांअरनेनांः श्रीनाराएं
हीयांयांः तेने सोहाहीसतगरुः सोपनीपरापदेःरा
नाजपतीरांनकरेछेः तांहीसरपेगुपतलोकपसेछेः
हीसतगरुः श्री सतगोरब्रह्मपांयांयांः हीस्वांपीनः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n293/mode/1up



realpatidar.com

एकां षोसासो षुप से छेः:: अेकां पर तसो षुपां केः षुपाद्ध
र प प र त षोद्धां छेः:: अं ने षोसा गोर नी अागनां पांषां छेः
ने आपा ठांपपांषां छेः तेगानान षुकेः दे पर्नना अरनं
नोः श्री नारां अेसापां यांः तं पे सोसां कां सतगरूः एकां
तेसां षु आंपांछें:: ने कां पर तसो षुपांकेः गपत दे पनी
पुनां षुरी छेः ने कां पप पपांके घालो ने दांन दा द्धां छेः ने
कां छानारां प्यां छेः:: अं ने पर गोर न थी षोद्धांः तेसां षु आ
कां ठांप आपां छेः कां सतगरूः श्री सतगोर पपरं पावीं
यांः कां स्यांपाणः ने सो पपा पर प द्धे सो षु छेः ते अं
पर थ आपुन केः श्री नां रां अेसापांयांः नारे सतगरूः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n294/mode/1up



realpatidar.com

२३९

[illegible] ॥३००॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ८४००००० ॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] श्री सतगोर [illegible]

[illegible] श्री [illegible]

[illegible] सतगोर [illegible]

[illegible] सतगोर [illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n295/mode/1up



रुपी: वेद पुराण सांभलान हीनांइातां: ने न सतनी प्र
सतपुरतथां: ए भाकुंनकुफांपानी परनातथां: ने फांपा
मन्द तेम्आतपापसनपुरी: तेपुंप पांपहां सतगुर: अ
पी प्रपानेपन=अंप्रापरी: सांधपीगपतपरी: स
पुरुषागछे: सांपापतनपे: ॥ २६ ॥ ❀ ॥ श्री सतगोर
ब्रह्मा वांचा: हां स्वांपीन्द्र: ने सतरपीपरीपुछे: ते
नी हपुगतपुहां: एपनंनां=अरनंनी: श्री नाराइन्प्रेमापांचा:
तेने सांसां हां सतगुर: सतरपीपरीपद्धे: रांना=अंपरी
आं एपरांनपुरछे: तांहां सरपे तेनी प सती छे: हां सतग
रु: श्री सतगोर ब्रह्मा वांचा: हां स्वांपीन्द्र: एहां ग्री

हांलोकुप सेछे:: अने हां पारतलो कुपांहे:: कुपां द्वरे प
परतकुदांछे:: अने हांकुपां गोरनी पुनांकुरी छे:: अ
ने कुसानांम नी आधापांसा हांती:: ने आवीनां अगो
पांपां छे:: तेजोनानकुहां:: हृपनेनां अरनेनो:: श्रीनार
अहांपां आं:: तंपे सां हां हां सतगुरू:: ई हांते लोकुपसे
छे:: ने हां पारतलो कुपांहे:: अं परी आं हृपनी पुनांकु
री छे:: अने अवतार पांचनो:: पांरां आौंपोनथो:: ने
हां छदर सहानी पुनांकुरी छे:: नेने सेसर गोरपंर
पानथी पधां:: ते लोकु आां हां ठां पक आवांछे:: हां सत
गुरू:: श्री सतगोर परपांपां आं:: हां स्यांपीण:: ने स

https://archive.org/details/bk177/page/n297/mode/1up



realpatidar.com

तरपी परी जद्वेसा थछे: ते=अंजरथ=आं छेन हा: श्री
नां रां=अेसा वां आं: नारे सतगुर: =जे तां=वसा सेवर
सनी=आव रहां=जागवे: ॥३००॥ पछे जरथून जरत
सा थजां हि ज ड थू: =आ वां जावं न जद्वे: सख आेरां सा
मा फेरां फरी ने: ॥८४०००००॥ ने फोई=अंजरी=आ हेवनां
स वथ हा=अे: ते घरने ई=अवतार=जागवे: हो सतगुर:
श्री सतगुर ब्रह्मां वां आं: हो स्वांजी ग: ते सांजारे ने
गावे छे: श्री नां रां=अेसा वां आं: ते पे सो सो हो सतगुर:
नेना=बेर ते सतगुर ब्र रंभा: नेनां=आं धा प्यां ते=अव
तार: ने से सरगुर ब्र प्यं हां न न्हेत वां: ने व सज

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n298/mode/1up





रांनंगनन कीधु रतवां: षां हांवी सनव रूपी: वेद को
रांन सांभ्यांन कीनां कीतां: नें सतनें अ सतधु रतवां:
ईप्पी फेन धु क्रांवनी परनातवां: नें हांपां म अतअा
तपायसनधु री: तें कें पपां पें कीं सतगुरु: अ वी अप
अपंनअ परारां परी: सत रपी अ परी आ ईव परी:
सपुरझा गछे: सांपा पतनवे: ॥२१॥ ॥ श्री स
तगोर ख्यं रपां वां यां: कीस्यां पीणे: नें अ छां रपी प
रीपु कीछे: तेनी कणी गतधु कीं: ईवनें नां अ रनें नां: श्री
नां रां अे शावां आं: तंपे सांफी कीं सतगुरु: अ छा रपी
परी पढे: रांनां अे पंन रांनधु रे छे: तांकां सरवे अे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n299/mode/1up



realpatidar.com

प्रनां सांभळ्य संछे: हो सतगरू: श्री सतगोर ब्रह्म रंमां
वांयां: हो स्वांमीजी: ए हां वोरा सांभळ्य संछे: ओ हां
परत सांभळ्यां हैं: ए वांदर मपरतणा छांछे: ओ नें ए
वांम पत पभुरां छे: ने आवा ठांम पांमां छे: ते गेनान
भुहां: दैवनें नाअरनें नो: श्री नारां ओ हावांयां: तंम
सांहां हो सतगरू: ए हां ते सांभळ्य संछे: ने हांम परत सां
भळ्यां हैं: ओ पांन दैव नी पूनां भुरी छे: ओ नें ते आगम
तसन वनां हो मभुरी छे: ओ हां ब्रह्म संम रहांणा छांछे:
ते सांभळ्य आवी नें ओगा पांमां छे: हो सतगरू: श्री सत
गोर ब्रह्म रंमां वांयां: हो स्वांमीजी: ने अ छार मी परीम

realpatidar.com

दुंसो पूछे: ते अंतर थे आंपुने कह्या: श्री नारांअेणवां
मां: नारे सतगुरू: अेतो अमा सेव र रसनी आवर
दा नो गवे: ॥ ३०० ॥ पछे अर रघुने पारतलो पूपांकि पड
पू: आपां गावं न पाइ्ड: लख मोरां सोनो पेरो परी
ने: ॥ ८४००००० ॥ ने कोइ अंतर देवनो सेवपू कांअे:
ते घर न इने अवतरे: पछे ते जव पंत जाे अेाथी इने
दा पपू कांअे: अंने अगनपांकि पडे छे: कां सतगुरू: श्री स
तगार ख रे पांवां मां: को सांपाणे: ते सांपारे जाेग
वे छे: श्री नारांअेणवां मां: तंपे सांगा कां सतगुरू:
ने नां जेर ते सतगार ख रे पां: ने ना आेका पां तेअ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n301/mode/1up



realpatidar.com

पतार पांचः नें से सर गोर षु ष्टे दांन नु देत पांः नें प
सप रांनें गान न को पुरत पांः पांकांवा सनप रूपीः पे
द सां प्यांन कोनां कातांः नें सतने =अ सत पुरत पांः द
ष्पी कुंन कुष्कांपानी परनात पांः नें कां पां प्र नुत =अ
त पां प सनापुरीः तें कुप पांपे को सतगरूः =अपा प
पा नें यन =अं प रां परीः =अ छार पी =अं पांन दे प परीः
सं पु रका गा छेः सं पा पत न पेः ॥ १८ ॥ ✿ ॥ श्री सतगो
र प्प रं पां पां यांः को स्वां पीजोः नें =आंगका से पा परी
कु क छेः तेना कप्पागत कुकोः दे पनं नां =अरनं नोः श्रीना
रां =अंकापां यांः तं पे सां कां को सतगरूः =आंगका सप

realpatidar.com

realpatidar.com

२५३

पंरीपाद्धुः रांणांयसेफुरंपांरांणफुरीछेः त्यांफास

रपेतेनीयसतीछेः कां सतगरूः श्री सतगोरपपरंपा

पांमांः कां स्यांपाणः ई कांफाक्ललोफुयसेछेः अमेक्तो

पारतलोफुपांकेः फुयांद्धरंपायरतफाद्धाछेः अंनेसी

फुपांईफुरीछेः नेआपापाठांपापांपांछेः तेजोमांनफुकांः

द्वेपनेनांअरनंनांः श्रीनांरांअमेक्तापांत्यांः तंपेसोक्तो

कां सतगरूः ई कांतेलोफुआपांपांछेः नेक्तोपारतलोफुपां

केः पसेफुरंपाद्वेपनीपुनांफुरीछेः अंनेपांतेपुनं

पईनांपांठांछेः नेक्तोपांनांनेपुनांफुरांपाछेः तेलो

फुआंक्तोठांपाआपापांछेः कां सतगरूः श्री सतगोरपां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n303/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

रगोर फरमे द्यानफद्ये तवांः ने पसपरांने गननाहि
फरतवांः पांहांपा सनवरूपीः पंदफोरांन सांभा
नहीनां झातांः ने सतनेअसतफरतवांः द्ये भी फंनफ
फोंपानी परणीतवांः नेहोंपां यफतेआतपांय सफ
फरीः ते फेपपांपे हां सतगरूः अपा मफापवंनअंप
रांपरीः ओंगराी सपीः वसफरंपांपरीः सफ रंगछेः सं
पापतमपंः ॥ १९६ ॥ ✿ ॥ श्री सतगोरपरंपांपां पांः
हांस्पांपाण्यः नेपा सपीपरीपेहेछेः तेनीहफोगतफहांः
द्येपनेनांअरणेनांः श्रीनारांअपेहांपांयांः तंपे सोहांहां
सतगरूः पा सपापरीपद्धेः रांनांपा सपे सररांनफ

रे छे: प्रीत सरवे तेनी रहीअत छे: हो सतगुरु: श्री स
तगोर पयर मांयांयां: हो स्वांमीजी: ईहां वोहा लोकुपसे
छे: अवेहोपर तलोकु मांहे: कुपाद्दरं पयरतकाद्दां छे:
अंने कुपी जगती कुरी छे: नें आयां ठांमयांमां छे: तेजो
नानकु हो: ईपनें मां अरनेंनो: श्री नारां अवेहायां यां:
तंमें सोहां हो सतगुरु: ईहां तेलोकु पसे छे: ने होपरत
लोकु मांहे: पी सर्वे सर ईपनी पूर्नां कुरी छे: अवेहोप
रु जगती कुद्दी छे: ने हां पहुनां पर्ने पांयां छे: ते लोकु आ
हां ठांमें आयां छे: हो सतगुरु: श्री सतगोर पयरमांयां
यां: हो सयांमीजी: ने पी सर्वे पर रीयाद्दे लोकु छे: ते अं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n306/mode/1up





पांरथे=आकुनकी: श्री नारांअेणावांआं: नारे सतगरू:
अेतां आंर सेवर सनी=आवरहां जोगवे: ॥४००॥
पर्छे पारखुने पारतलोकुपांकि पडवु: =आवागवंनपंदे
सम आं रांसीनां फेरा फरीने: ॥८४०००००॥ ने कोईपा
सपे सरदेवनां सेवकुकी=अे: ते घरनां धनें=अवतार
जोगवे: की सतगरू: श्री सतगोर पर पांवांआं: कीस
पांपीनुं: ते सांपां हें जोगवे छे: श्री नारांअेणावांआं: ते
पे सांकी हे सतगरू: नेनां जेरते सतगोर पर पां: नेनां
आंधांधांते=अवतार पांच: ने से सटगोर परखे हांनद
हेतवां: ने वसपरांनेगानन कीपुरतवां: पांकीवास

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n307/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n308/mode/1up



realpatidar.com



हां ते लोक वसे छे:: ते अमरापर ते लोक मांहे:: ए पाध्रं
मापरत क्रीध्रां छे:: तेने कोस गार नी पुजां करी छे::
ते आवां गांम मां मां छे:: ते गीना नक हांदे पनं नां अमर
नंनां:: श्रीनारां अमरापर आवां आ:: तं पर सां हरो हां सतगुरू::
छे हां ते लोक आवां छे:: ते हांमारत लोक मांहे:: ते ध्रा तां
ना पुनां क्री ध्रा छे:: ते हां अक सपार हां अक्रा ता करी छे::
ते हां वेध्रां तां हे पनां क्रिपां स ह्रांप करां छे:: ते लोक आरा
गांम आवां छे:: हां सतगुरू:: श्री सत गार अपर मां वां आ::
हां स्वांमी ज:: ते अमे पुजा सपाम रीपं ध्रे लोक छे:: ते अ
मर थे आ वक नहां:: श्रीनां रां अमरापर वां आ:: नारे सतग

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n309/mode/1up





न सांभ्यां न हीना हातां: नें सतनें अस सत फरतयां:
दें खी फुंन प्रफुरां पानी प रना तेंयां: नें हां पां अन फु आ
तडांप सन फुरी: तें फुंन पां जे हो सतगारू: अपी अ
पानां पन अंप रां प री: अे फुपी सपी: पें द्वातां परा:
सप फुर हागा छें: सं पांप तन्नपें: ॥ २१ ॥ ❀ ॥ आ स
तगोर ख्य रं जांपां यां: हो स्यापी ज: नें अे फुपी स प
रा दि तें पं फु हा आं: तें फुं प फुरी नं रां भ्या दि छें: तें नां नें द
फु हा दे पनें नां अर नें नां: आ नां रां अे हा पां यां: तें
पं सा हा हो सतगारू: तें अे फुपा सप री आं तां: पं
र प र ख्य तनां आं द्वां रे प्यां द्वा छें: ॥ २२ ॥ नें अे फुपा स

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n311/mode/1up



परी ईछे: तेने अेकुधा स सोरंगाफे छे: ॥२१॥ तेने अेकु
धा सप्परंधाहफुहे छे: ॥२२॥ ते अेकुधा सप्परंधाह द्विपरे:
सारे ईसाने सारे फूसा छे: तांहां आठ परी आंध स छे:
॥२३॥ ते द्वीप रे अेकु अेकु अंधरां धंता परी छे: तांहां रांनी
अेदर रांण कुरे छे: तां हां धां छे ध ह सा धाहे ध र सा परी
छे: अंनं मी ण हु रसा इसां धां हे: आठ फुनी रहे छे: ॥
हो सतगोर: श्री सतगोर पप रं धा धा या: हो स्वामी जी:
ते आठ फुनी फी आपी आ छे: तेनां फुधांनां धा छे: ते
नी फफागत फुहे: ईधनं नां अ रणंनी: श्री नारां अेसा
धाया: तेने सांभळी हो सतगोर: पे सांतां धां ध फु फुनी:

realpatidar.com

॥१॥ ब्रीनां तो हिंडाने रूपछनीः ॥२॥ चीनां तो सांसो

रछनीः ॥३॥ सांधीनां तो छनात छनीः ॥४॥ पां सपां

तो नरीत छनीः ॥५॥ छठां तो नीरांनेपां छनीः ॥६॥ सां

तपां तो सुररपां तछनीः ॥७॥ ज्ञांठपां तो परनांपत

छनीः ॥८॥ ज्ञेपां ज्ञांठछनी छेः तेदप्रप्रादसांपां नीः

परीपररतां तेनी सतगारूः ज्ञांनेपधी प्ररप्रदसांपां

नीः ज्ञेछनांप्रपरप्रनजांडछेः पांप्र सेनांनेन

प्रांपांप्रपसांतारछेः ॥५०॥ तेपरप्रनेनसतीप

रपांनीपनसधीनां ज्ञेछेः सांधी ज्ञांत्रदसांपां नीः ज्ञे

छज्ञेदरपरी छेः तांनांरांनां ज्ञेदररांनछरछेः तां

मांः अेक द्वार परां न कुरे छेः ते सरपे सो पर सापां द्वेय
से छेः अेवो यार परी आं छेः ते यार दे सांपां कें: प
री परतं ते मां सतगुरः ॥४॥ पेलाई सांन खूसापां कें:
अेक परी छेः तां मां रां नां अेपान रां न कुरे छेः ॥१॥ ब
ज अगान खूसापां कें: अेक परी छेः तां मां रां नां कुफे
र रां न कुरे छेः ॥२॥ चो जनार त खूसापां कें: अेकप
री छेः ॥३॥ सोधीवाय खूसापां कें: अेक परी छेः ॥४॥
अेवो यार परी छेः ॥५॥ ते यार खूसापां कें: परोप
रत ते मां सतगुरः ॥४॥ ❀ ॥ श्री सतगोर पर सा
यां यांः मां स्वांपीणः नें आ ठ पेसा पंकें छेः ते नी मकु

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n314/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



गतकुहि देवर्णनां = प्रणमां: श्रीनाराचं = पेसा पायां: तेने
सांसाहि सतगुरु: पेली ता = सांचई सांभाहि: परकास
पेसा छे: ॥१॥ बीजा ताई सांन प्रकासा भाहि: देइकार पेसा
छे: ॥२॥ त्रीजा तापुरपई सांभाहि: परन्नात पेसा छे: ॥३॥
चोथी ता = अंगान प्रकासा भाहि: तेज प्रकार पेसा छे: ॥४॥
पांचमी दप्रकासा इ सांभाहि: पंद रवाल पेसा छे: ॥पा
छठी तानी रत प्रकासा भाहि: सपरना पेसा छे: ॥६॥ सा
तमी ता पछमई सांभाहि: सुर प्रकार पेसा छे: ॥७॥ = आं
ठमी ता वांच प्रकासा भाहि: = आदरवाज पेसा वुहि छे: ॥८
= पेपा = आठ इ सांभाहि = आठ पेसा छे: तेनु = प्रनवांच

पडे छे: कां सतगरू: ८ तां कां ऋखे कुआावनां संहनक
जाडे छे: सातसांखनोनेनतेजाडे द्वि छे: १०००००
प सतावीस कनारनोनेन: तेनो पारतां पसतार
छे: ५५०००० ऋखे कुवीस कनारनोनेन सुद्धी: तेनी
छा ऋखेडो पडे छे: २१००० तां कां तेत्रीसपकरोडदेवतां
पसे छे: ३३०००००००० तां कां ऋखे कपरेपरपतछे:
तेद्वि परेआरपेघर कहे छे: कां सतगरू: १२ श्रीसत
गोरअरे प्रावीयां: कां स्वांमी क्र: तेआरपेघप्रो
राप्रारानां पे छे: तेनो नेदे कुकादेवनेनां ऋखे रनेनी:
श्रीनारां ऋखेरावीयां: तेपे सारा कां सतगुरू: पेला

तो संप सपंधः ॥१॥ बीजा तो कुबलपंधः ॥२॥ त्रीजा तोकुं
पापंधः ॥३॥ चोथा तो पांगपंधः ॥४॥ पांचमा तो प सूक्ष्म छ पं
धः ॥५॥ छट्टा तो तंपाकु पंधः ॥६॥ सातमा तो तंपांचपंधः ॥७॥
आठमा तो सोपान पंधः ॥८॥ नवमा तो सप सार पंधः ॥९॥
दसमा तो पांचा पंधः ॥१०॥ अगीआरमा तो सप छुंरपंधः
॥११॥ बारमा तो सोनानी पंधः ॥१२॥ एवा बार पंध तो कांय
सेछेः कां सतगुरुः ॥ अगार सी गणाप रछां ॥ ॥
श्री सतगोर ब्रह्मा पांचा आः कां स्वापीजेः जे अगार सोगपुंजे
छेः ॥१॥ तेना कत्यो गत पूर्णः दुपिने नां अपरने नाः श्री नारांअणे
ज्ञायां आः तंपे सोहां कां सतगुरुः तां कांपेर पर ब्यत दुपिरेः

realpatidar.com

अगा अपार सागर छे: तेने अगा अपार सागर पुठे छे: ॥ १ पेहे-
लां तो ययपकां सागर छे: ॥ १ ॥ बीजा तो कायवती सागर छे: ॥ २ ॥
त्रीजा तो दूधपयां सागर छे: ॥ ३ ॥ चोथा तो नीघंद सागर छे:
॥ ४ ॥ पांचमा तो लीलप सागर छे: ॥ ५ ॥ छठा तो सेपतां सा-
गर छे: ॥ ६ ॥ सातमा तो दुधपप सागर छे: ॥ ७ ॥ आठमा तो पंगा-
ले सागर छे: ॥ ८ ॥ नवमा तो घंदमां सागर छे: ॥ ९ ॥ दसमा तो
अमीरी आ सागर छे: ॥ १० ॥ अगा अपार मा तो सुर पात साग-
छे: ॥ ११ ॥ ओघा अगा अपार सागर छे: तेनो पसतालेस्पा छे:
तं पण सो काकापनाप रो: अं कुहनारनं छत्रीसनो अन
नो: अं कुकां सागर नदं आतरो छे: ॥ १००३६ ॥ अं कु सोनी

https://archive.org/details/bk177/page/n318/mode/1up



realpatidar.com



तेन पांहिः अपेक्षाक्षा सागनापिरछेः॥१००॥ अपे सा हना
रनीनेना सद्धाः अपेक्षाक्षां सागद्वियांछेः॥८००००॥ अपेवा
आ ठ सागनावसतारछेः त द्विपर आठनेरयरहिछेः
॥८॥ तनाचावसाहाहावनावरोः पंसांकद्वियासागद्वि
परेः अनांदनेरयरहिछेः तनसेननयकराडक्षातांनाछेः
॥६०००००००॥ १॥ वीणहापवंतीसागद्विपरेः॥२॥ अस
दनेरयरहिछेः॥२॥ तनसेन अठांचहनारदेवाद्विछेः॥१०००॥
वानांदेवयासागद्विपरेः अंपरानेरयरहिछेः॥३॥ तन
सेन अद्विठकराडनतावपछेः॥३५००००००॥ सांधांना
घांदसागद्विपरेः अपंसनेरयरहिछेः॥४॥ तनसेनाछ

realpatidar.com

पंन कुरोड साथ डांछे: ॥ ५६०००००००० ॥ पांच पानी सपास
ग द्वीप रे: अपांनां सत्ने रव परे केछे: ॥ ५ ॥ तेनु सेन अगा
आर कुरोड हुइ द्छा छे: ॥ २२००००००००० ॥ छठां सो पंतां साग
द्वीप रे: अपाथाप नेर वपरेकेछे: ॥ ६ ॥ तेनु सेन ओसठ
सांप्प नीग हुआ छे: ॥ ६४०००००० ॥ सांत पां द्वि प पा सागद्वीप
रे: अघोर नेर वपरेकेछे: ॥ ७ ॥ तेनु सेन अगांनी च सात्थ:
न द्दर पांल छे: ॥ ६६०००००० ॥ तांहां सोपसानी सेहेन छे:
॥ ७ ॥ आठ पांप गालें साग द्वीप रे: त पत रूपा नेर वपरेकेछे:
॥ ८ ॥ तेनु सेन न व कुरोड हर घां छे: ॥ ९६०००००००० ॥ आ
पांतांहां आठ नेर वपरे केछे: ॥ ८ ॥ हां सतग रू: श्रीकृ

realpatidar.com

मा साग द्विप रे: अरवापरी द्विप से छे: तंये सो मा मा पहु नाय रो:
पे लांग द्वि द्वंम साग द्विप रे: अर पाप रीप से छे: ॥ १ ॥ आ नां अं
प री आ साग द्विप रे: पे रीप से छे: ॥ २ ॥ श्री ना सर पात सा
ग द्विप रे: ३६ रपरीप से छे: ॥ ३ ॥ मा सत गुरु: श्री सत गोर अपर
पायां या: मा स्या पाणं: अरवापरी द्विपां महि पहु नाप सती छे: तेने
६ पहु मांडे पनेना अरणेना: श्री नारा अंमे माया यां: तंये सो मा
मा सतगुरु: नें पें ला अर रंपाप रीपहु महि छे: तेपां महि दावादस पहु
रांड अपर रंपार महि छे: ॥ १२०००००००० ॥ तेना नापासल आं छे: तंये
सो मा मा पहु नाय रो: पेंला ता जीना अंपर पा: ॥ १ ॥ आ नाता
द्वि ना ६ अपर पा: ॥ २ ॥ श्री नाता अपा गत अपर पा: ॥ ३ ॥ पाथा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n321/mode/1up



realpatidar.com

तां=आद अपरंपा:॥४॥ पांचमां तां भ तअपरंपा:॥५॥ छठा
तां परी=आ तंप अपरंपा:॥६॥ सातमां तां=अधांकुर तअपरंपा:
॥७॥=आठमां तां नी=अंद्धर अपरंपा:॥८॥ नवमां तां सतअ
रंपा:॥९॥ दसमां तां कुर अपरंपा:॥१०॥=अगी=आरमां तां प
रनापत अपरंपा:॥११॥ बारमां तां परतअपखस अपरंपा:
॥१२॥=अवा आरअरपतां हांसे छे: ते आरे अपरंपा नी जो
नांन दृहा छे:॥१३॥ तेनी नीत दीवा दस कुरोडनो नं न छे:
॥१२००००००००॥ तां हां=अवा परनापता अपरंपा पसे छे: प
रांग द्विप सागने: अपरंपा परी: सपर सागा छे:॥१॥ आल
=अपरी=आ सागद्विपरे: वीसन वपरीपसे छे:॥२॥ तांहां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n322/mode/1up





एकु इंद्रसपुरांडनरपसेछे:॥ ११००००००००॥ तेनांनांपास

खांछे: तंपासो सो अपुनापरो: पं सातांअसरवनर:

॥१॥ बीजातांपदरीखरपानर:॥२॥ त्रीजातांसहस्रप

नर:॥३॥ चोथातांसोपनर:॥४॥ पांचमातांरुद्रनर:

॥५॥ छठातांपरेखनर:॥६॥ सातमातांवीसनपनर:

॥७॥ आठमातांसंकरनारांअजानर:॥८॥ नवमातां:

धरंपानर:॥९॥ दसमातां पर्वसारनर:॥१०॥ अग्या

रमातांपारपनर:॥११॥ एवां एक इंद्रसनरतांहां प

सेछे: ते अग्या आरपुरांडसेनसाथे: तांहां असरवनरं

नेनपसेछे:॥११००००००००॥ बीजा अपारी आसीजानें:

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com




realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n325/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

तीपांवकु: ॥११॥ आरपाता हेथांनापांवकु: ॥१२॥ =अ
पाआरपावकुतांहांवसेछे: तेनुआरकुरोडसेनांछे:
॥१२००००००००॥ तेने=अेकुनामरूदरपरी: ॥१॥ =अेने आमु
मांम सपपरीकुहेछे: ॥२॥ त्रीजा सूरपात साजाने: रूदर
परी: सपूरसांगछे: ॥३॥ पेला आरंभपरीछे: ॥१॥ आमु
पासनवपरीछे: ॥२॥ त्रीजु रूदरपरीछे: ॥३॥ =अेपात्र
सापरी=आ: सपूरसाछे: संपापतथवे: ॥३॥ ॥ त
हुपरपमी सनामेननने=आतरे: =अेकुपा=आपरीछे:
तांहांसंतनीपां=आवसेछे: हांसतगरू: श्रीसतगोरप
रपांवांआ: हांस्वामीजी: तेपा=आपरीपांहे कुांहांवसेछे:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n327/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n328/mode/1up



realpatidar.com

१५५

पतरषीषां=आंपरी: सपुरसाछे: संषापतनवे: ॥ ४ ॥

॥ ✿ ॥ तेषां=आपरी द्विपर: पचास सहनां रजां नं नवकु

=आतर: ॥ २५००० ॥ षीरसागरपसछे: तांहां=आदवी

सनव: =अंनेलष पीजपसछे: हा सतगर: श्री सतगो

र षरंपावां ग्रां: हा स्यांपीज: ने=आदवीसनवनां रां

=प्रसा: =अंने लख पी जप सछे: तेनी हजागतपुहां: देव

नंनां=परनंनां: श्रीनां रां=प्रहांपां ग्रां: तेपे सांसां हां स

तगर: ते=आदवी सनवत: परत सोजु षांहें=आपांछे: ने

हां सतगोर षांरषांनं षोलदीधांछे: तेषार ते द्विहां=प्रवता

रलीधांछे: ॥ २० ॥ =अंने षीर सांगर परी षांहें: तेनी पईस

realpatidar.com

रहे छे: तांहां अेवा सरवे सतावसे छे: ने आद सकत
देवी: ते सख पामीने कुरहे छे: ते खीर सागर परी मांहें: स
ख पामी देवा रहे छे: तेनी ख ख र सतगोर ख र पांने छे: अ
ने खोनां इनां कांतां नथी: श्री नारां अेसानी गत: श्री ना
रां अेसानां कां: ने कां सतगोर ख र पांनथी नेरां: ते घर
नी पात सूनां कां: खीर सागर मांहें: न रेनें नांन रांधार
प से छे: पंकांनें ने सतगोर ख र पांनथी पापां: अनंनें
कांई अेथर पदेनी पांसांनथी नां सांतां: ते सांहे ना घर
नी पांत सूनां कां: अनें खीर सागर परी दीपर: अंद
र परी वसे छे: तांहां रांनां अंद र रानक रहे छे: अेपां



realpatidar.com

मधी खीर सांगर परी:: सपूरखागछे:: संपापतनपे:: ॥ प
॥ ✿ ॥ =अगार परी =ओ पाद्दि:: =आं ठ सीगाछे:: ॥ ८ ॥ त =अे सी
फनारनोनेन दि आंछे:: ॥ ८०००० ॥ त =आठ सीगाहि परे:: ॥ ८ ॥
=आठ परी =ओ छे:: ॥ ८ ॥ त =आठ परी =ओ पाफे:: ॥ ८ ॥ =आठ नेर
परफे छे:: ॥ ८ ॥ तपाद्दे खानां =खा सीगा छे:: ॥ ३ ॥ तपांफे:: खरपा
नेपा सनप पाफे सरप से छे:: तद्दि पर पचा सफनारनोने
नफे =आतरे:: ॥ रप००० ॥ तांफां पां =आं परीप से छे:: ॥ २ ॥ तपां
फनपद्दपी =आ रफे छे:: ॥ ९ ॥ तद्दि परपचा सफनारनोनेन
फे =आतरे:: ॥ रप००० ॥ खीर सागरप से छे:: नेन खीर सां
गरफे फे छे:: तांफां =आद्दपी सनप:: ॥ २ ॥ =आंनं सपपी ज

realpatidar.com
realpatidar.com

realpatidar.com

रहेछे:॥२॥ तांहांई सबरनो॥१॥ पारबती रहेछे:॥२॥ तां
हां=आठगको सर रहेछे:॥८॥ तांहांथी सनवरांनां रहेछे:॥१॥
तांहांथी सपपाईदर रहेछे: तांहां तेनो सरांपन पी=अछे: तांहां
सरवेनो थांभो छे: ते सरवेनो थां=अछे: तांहां सरांप तां
नकुरां रहेछे: तांहां तेनो सरांपन पी=अछे: तेने फुवलास
परी फुहेछे: प छे भारतसो फुभाहे पडे छे: तांहां भरसा फुसा
भ्यां छे: ते भार सागर दुपरे पथी सहनारनो नंनफु=आ
तरे: तांहां=अफु=अरसा छे: तांहां रांनी=अंदर रांनफुरे छे: हो
सतगरु:॥२५०००॥ श्री सतगोर भ्रंभावां या: होस्यापीर:
=अरजी रसंनां तेपफुपरांभी छे: तेनो=नेदफुहां: देवनां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n332/mode/1up





नां॰ अरनं नां: श्रीनारां॰ अेसावां आं: तंमें सांसां कें सतगरू:
नें कांई सांतपांतां धानं: ॥१॥ सात॰ असम पांन छे: ॥१॥ नेंनें
अ ढिहव्य रेपां कें कें छे: ॥१४॥ तंमेर पर व्यत॰ आधारे नडां छे:
नें॰ अरस: ॥२॥ कोरसी: ॥२॥ नें लांकां: ॥३॥ कुलं पां कें कें छे ॥४॥
तंमेर पर व्यत॰ आधारे व्यांधां छे: ॰अंनेंनें॰ अेकुवासससारं
गां कें कें छे: ॥२४॥ तंमेर पर व्यत॰ आधारे रां व्यां छे: तंनेंवें
रांटसरूप कें कें छे: श्रीनांरां॰ अेसाईंय: सरवें पांकें यांपकु
छे: नें श्रीपरमें सरनासरनां: मां रांसा नपांनांन छे:
॥८४००००००॥ तं आरे व्यांसा पांकें पें रां व्यां॰ अें छे: ॥४॥ तंसर
वें ईरूपांकें छे: तंईरूवें रांटसरूपें छे: तंपांकें नयवनें पुण्य

https://archive.org/details/bk177/page/n333/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

१५८

परांसाञ्ञांनां छत्रस्थान कीधा॥ तेने पाथे पांच नरयां
सः छ तो परिरांसरवे छ५ पां कह्युं छेः तपरां टसरूप छ५ पाडि
परेः अंपरांपरी छेः तेने सरपे सोळ सरधा कह्युं छेः
तेआद्य पंर पांसंसर टगार प कोतोः ज्य प तेनां अंगानकुंः
नाहालप्य पारांसा परिरां पांअे॥ ८४००००० ॥ तेअंपराप
रीनां अंपार गछ छेः तेनां अंगानां आर नां प छेः॥ ४ ॥ तंप्र
सांसां हांपनी परांः पे रुनाप तेअपरांपरी कह्युं छेः॥ २ ॥
मीकुनाप तेनां सतकुं कह्युं छेः॥ २ ॥ चीकुनाप तेनां नतकुं
कह्युं छेः॥ ३ ॥ पाधिनाप तेपांछ छोटकुं कह्युं छेः॥ ४ ॥ अेवा आरं
नाप तेनां अंगानां सप्यां छेः॥ ४ ॥ कां सतगरुः श्रीसतगा

https://archive.org/details/bk177/page/n335/mode/1up



रप्परंपांचांत्रां: गोस्वांमीनां: तेसात=अ सपांनद्वीपर
॥७॥ श्रीनांत्रम्ला=अ सपांनछे: ॥३॥ तेकूपकूरीने रांघां
छे: तेनांमपीगतकूमांद्वैपनेनां=अ रनेनां: श्रीनारां=अ
म्लावांत्रां: तं पसोम्लामांसंतगरू: तेसात पांतांमांने: ॥७॥
सात=अ सपांन: ॥७॥ तेपईकोरसुप्पांद्वांछे: तेपईको
रतां=आठपां=अ सपांन: नरांकोरसुनेडांछे: ॥८॥ तेनरां
कोरतांनपपां=अ सपांन: कूरसासुनेडांछे: ॥९॥ तेकू
रसातांद्वसपां=अ सपांन: =अ रससुनेडांछे: ॥१०॥ तेद्व
सपां=अ सपांनतां=अ रस: तांसजांलसुनेडांछे: ॥११॥
ते=अ रससनांरांनांतांकोंचंपछे: ते=अ पल=आंप्प र: =अ

१५२९

अहा=अअहाळां=अेपाछे:: तांहांनरओनतेनेनां तअंतहि
परअंवांछे: ते=आदनाराएसाणीतसरूपाछे: तेनरतेने
नाअरंपांळरांछे: तेअरंपाथीपासनपळरांछे: ॥२॥
तेपासनपथी पांहीसरळरांछे: ॥३॥ =अंने सतगोरअरं
पाथी: सरपेसेसरळरीछे: तेसतगोरअरंपांपवे तां:
=अप तारपांच=आंध पांवे: =अंनेजप=अंपरथा=अे: तां
हांअरंपां: ॥१॥ पासनप: ॥२॥ पांहीसर: ॥३॥ आंथा सपळत:
॥४॥ स्यांपीण=अेपांपांटांळरतार: सपळतरूपीर आंसं
सांर: =अेपादस=असपांनळहीछे: तेनापारतां: सपू
रंशाछे: संपांपतनावे: ॥१०॥ ते सरवे सतछे: ॥

realpatidar.com

आरपरी हुनां पर छा: हां सतगर: श्री सतगोर आर
पांचांआं: हां स्वांमीन: ने=भे फवा सपरी हुसप रसा
ग छे: ॥ २१ ॥ ते हुपर आम=आहापांह सपरी=आछे: ॥ २२
ते फ घ=आ फ घ=आ छे: ते फा सानां=भेगापांव से छे: तेनां
फवांनांम छे: तां हां फप सासो फप से छे: ते ह फा गा त फ
हा हपने ना=अरने नो: श्रीनारा=भेसावां आं: ते आर
परी=आनो व आर छे: ॥ २२ ॥ ते पीसा सा हां सतगर: पं
सो तां पां छं पह सां पां हे: फ हया सोग फ हे छे: ते हुपर
पंनां पती परी व से छे: तां हां=अर्थ हुते र व रहे छे: ॥ २ ॥
ते न संन नप फरांड फ तां नी छे: ॥ ९०००००००० ॥ रांनां तां हां

अरंनां रां नकुरे छे :: अने अरनां पतीपरीव सें छे ::
परनां तां कांमद्दा सकुदरः पांद पाप तां कांप सें छे :: कोस
गरः श्री सतगोर अरपांपां आः को स्पां पीनोः ईकांकोस
सोंकुप सें छे :: अंको पारत सोंकु पांके :: कुपांद्दरं पापरत
कोद्दां छे :: अने सोकु पां शकुरी छे :: ने आपां ठांपपां पां
छे :: तेजोनानकु को :: दुपनें नां अरनें नां :: श्री नारां अंसा
पां आः तंपें सो सो को सतगोरः ईकांत सोंकुप सें छे :: ने
सो पारत सोंकु पांके :: पांसा पथरनी पूनां कुरी छे :: अने
नेपतप को पाकु री छे :: ने सोगपां पांके पप्पां सा पांद्दां छे ::
ने सोनां तनंत असनां नकोद्दां छे :: ने सो दुंन परतेपां सो

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n339/mode/1up





१५२

गः सोवरसा प्रद्वीप सतवां: ऐसो कु अंप्रर थे आवे
नही: नारे सतगुरू: पछे प्ररषुने प्ररत लोकु प्रांहे पदषु:
आवागवंन प्रढ्ढे: लख चोरासी नो फेरो फरीने: ८४००००
ने कुंई पांहा पधरनो सेवकु हो ऐ: तघरे नदीने आ
पतार जोगवे: हो सतगुरू: ते संसार प्रांहे पां चा रहा होई
आपतरे: श्री सतगोर पर रंप्रावां या: हो स्वांप्रा जो: ते
सांप्रां रे जोगवे छे: श्री नारां ऐ सावां या: तं प्र सासा हो
सतगुरू: ने नां नेरे ते सतगोर परंर प्रा: ने नां आं प्र पं
ते आपतार पांजा: ने से सर गोर कु पे दांन कु देत वां:
ने वसपरांने गानन हो कुरत वां: प्रां हां वा सन प रु पा:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n341/mode/1up



realpatidar.com

वदपीरांन सांभांनहानांखतां: ने सतने=अंसतप
रतवां: ईश्वा कनकत्रांमनी परनालखां: नेशा पांच
ऋ=आतमाव सनकरी: तेकेमपांमही सतगारू: =अप
रुपनांपन=अंमरांमरी: तेनां सकळकलश्वा छे: तेम
सोशाहाजनावरो: नेशा सांके करी तीरथनांत्रांगां
शा: =अंने सतगोरखांरमां: नीनांत्रांननांशा: नेशा
=अपतार पांचनक पछांशा: =अंने कडवांमा ठांनाय
गतनु नांशा: पंशा सांसी नांत्रां सतीसांके नांशा:
नेशा=अपतार पांचवपश्वांशा: =आवांगवंनमहे: सो
दनपांश्श नेशागाफासे: =अंने हांशावां सरपड संमार:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n342/mode/1up



realpatidar.com



गपा सते ऽआवे छे पारां नाशी नादरदा: ऽअने सुतो नगसं
सार: गोर धुत सेवकने: तां हां सेवक धुत गोर ऽआप: पे
तां धुत फतरणु: ऽअने पुत्र धुत आप: ऽअे पां धुत धुतां तां
हांप रीपरतंत: हां सतगरू: पेलो वंनावती परी: सपु
रलागछे: संपापतनवे: ॥ २ ॥ ॥ श्री सतगोर अरं
पांवां भां: हां स्यांपीणी: नो आोलपरीवे हे छे: तां हां वुवं
न लोधां छे: तेनी हफागत वहो: देवने ना ऽअरनें गां: श्री
नां रांमे सावां भां: तं पे सो सां हां सतगरू: आोल तांवांव
फहां धुद: हापवंती सागवे हे छे: ते धुपर पगाल परीव
से छे: तेपांहे ऽअसे नेरप रहे छे: ते नु सेन ऽअठोंच हमां

realpatidar.com

रहेछा छे:॥१०८०००॥ तांहां रांणी पांगलसरानेकरे छे: अंने
परणी तांहां सो परख पाहोआ: ध्यारसेने सातनीनन:
पंगलपरीनो ध्यांयपसतार छे:॥२२९०८॥ ध्यारसेनेसा
तनीनेन: आपसंपाहे आतरो छे:॥२२९०॥ हांसतगरू:
श्री सतगोर ध्यरंपांयांआ: हांस्वांमीज: ईहांधर्मरास्पा
कुपसछे: अंक्तेपरतलोकपांहे: धर्मपाद्दरपायरतणा
द्वां छे: अंक्षेकुपांनपतपसाह्यां छे: अंने सो परख पाहोआ
तकुपंनछे: तेगोनानकुहा: हेपनेनाअरनेनो: श्रीना
रांअसेरवायांआ: तर्पसासां हां सतगरू: ईहांतेलोकप
सछे: नेरापरतलोकपांहे: नेरां[illegible]हसपागलवाणीनां

realpatidar.com

भरतपांचांछे: अने आप्यांनेरातां: नेज्ञानी मछरप
ण ढांछे: पांसां भ्रम मांन द्वरांछे: तलोक आंखेंगां आं
पांछे: हसतगरू: श्री सतगोर ष्यं रचांचांचां: हसयाभी
ण: नेपागलपरीप द्वलोकछे: तअंप रध आंकेनहा: श्री
नारां अेसापांआं: नार सतगरू: अेतापया सचरसनी
आवरदांनोगवे: ॥ रप ॥ पांसांलपांनोगवासां: पासां
सछरतपंगः सविरआपद्वेपसतचां: अेलोक अंपर
नध आं: पछे पर पनेपरतलोकपांहेपडषः आवांग
पंनपढां: लष्यसांरांसानो फेरो फरीने: ॥ ८४०००० ॥
तेनपा आरीमाप अपतरे: नेगोर नारपंनांनां अने

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n344/mode/1up

https://archive.org/details/bk177/page/n345/mode/1up



रांस: तेणव आरे ख्यांशाजांहि: फरी फरीनें रडवडे: का
सतगरू: श्री सतगोर ख्अरे जांवांयां: कास्वांमी ज्य: तेस
जारे रडवडे छे: श्री नारां=प्रेसावांयां: तेजे सांसां कासत
गरू: नेनां नेर ते सतगोर ख्अरे जां: नेनां=ओजाख्यंते=अ
वतार पांच: नें से सरगोर खु ख्यदांनन कादेतवां: नेव
सजरांनें गगनन काकुरतवां: जांकांया सनवरूपा: वेदको
रांन सांख्यांन काणांशातां: नें सतनें=असतकुरतवां: देखा
कुनकुक्यांजनाा परणां तवां: नेंका पांसकुत=आत जाव
सनकुरी: तेकुजपांजे का सतगरू:=अपांयजानवंन
=अंजरांपरी: ख्योज्य जगालपरीसपूरसलगांछे: सांभाप

तनावे:॥ २॥ ॥ श्री सतगोरब्रह्मापांयांम्यां: कास्व
मीज:: जीज परीवाकछे: तेनाकुवडाकुव सतारछे:
तेनी कफागतवफाहे दीपनोनां॥ परनेनां: श्रीनारा॥
गापांम्यां: तेने सोकोकासतगरू: जीज आजदेसापाद्दे:
दपम्यांसीगछे:॥ ३॥ तेद्दिपरद्विलकुपरीपसे छे: तेपां
का॥ अपग रातेरव रेकछे: तेनकसोनद्विठकुरांडनुतावपाछे:
॥ ३०५०००००००॥ रांनतांकां॥ आदनाथ: नाथनाथरांनकु
रछे:॥ अंनपरनातांकां॥ अद्द कोपछे:॥ अेवारका॥ सतता
कापसेछे: म्यारसोनेसाजनोनेन: द्विलकुपरानाम्यं
म्यपसतारछे:॥ १२७०॥ म्यारसोनेसाजनोनेन॥ म्यं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n347/mode/1up



realpatidar.com

पसपद्देआतरांछे: ॥१२७॥ हो सतगर: श्री सतगोरना
रेपावांआ: होस्वामीजी: ईहां को लोकप संछे: अेसा
परतलोकमांहे: सोकमांहे करांछे: अंनके पांदरपाव
रतपांपांछे: अेसाके वागोरनी परमाद लीदाछे: नेअं
दकोपपईनं: लीपानोगवेछे: तेनोमान कहे: दूंपनेनां
अपरनेनां: श्रीनारां अेसावांआ: तेप सोहांहां सतग
रु: ईहांतेलोकपसंछे: नेसोपरतलोकमांहे: गारस
तांपरनां अेछे: नेसंसारमांहे सेवडांपडनें फरांछे:
अंनपरदांवारेनेप्यांपांगा प्यांदाछे: नेसोमाथानांवां
पादपांपानें: सरलोमनकरांवांछे: आपनां सांसं

realpatidar.com

२५५

ने कुं सरसो मुं छे:: अंनंत तगनां न कां जे हद नां स्थान को:

ने स्थान नो सस्थावरत पांचां छे:: अंनंत जव हे:: आपापा

छे:: ने नंत नंत पोसो पांपडां छे:: ने स्थां:: आपपव खांस्थां छे:

ने कुं:: आद हद रंपाप्परंपां:: वा सनव: पांहे सरने:: रहापां

नां स्थानको:: ने स्थां:: आदनाथ:: नीपानाथने:: परपोसर

कुरी पूनां छे:: तेने तांपांनछांकुरंपालां रुछे:: ते सकांरस्था

:: अ हद रूपी हे:: अवतार होइने:: लीपां जोगवे छे:: हो सत

गरु:: श्री सतगोरप्परंपां वांम्रां:: हो स्वांमीजी:: ने हुं सकु

परीपाद्धलोकु छे:: ते:: अंपारथ:: आंकुनाको:: श्रीनां रां:: अस्था

वांम्रां:: नांर सतगरु:: अतां होछ सेपर सनी:: आपर

https://archive.org/details/bk177/page/n349/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n350/mode/1up



realpatidar.com

१५५

ब्रह्दतया:ः नें व समरांनगनन नकाफ्रतवां: पांकांपा

सनव रूपी: वंद्दफ्रोरांन सांम्यांनकानांरुातां:ः नें सत

नें=अ सतफ्ररतवां:ः ईंगा फ्रंनफ्रफ्रांपानी परनांतवां:

नेंरुोपां अ=फ्रत=आतपांवसनफ्रफ्ररी: तंफ्रेपपांपेकांस

तगारू:=अवीअवा=नांवन=अंपरांपरी: चीनें ईसफ्रपरी:

सफ्ररकागाछे: संपांपतनवें: ॥ ३ ॥ तेनें सरफ्रफ्रलम्यांछे:

तंपे सांरुांकांफ्रनावरी:=आवागवनपाद्दे: चीफ्ररारापें:

पांअनेयांरे:=अंने स्रनपाउसपांवांसे: परी ॥ ३ ॥ कां स

तगारू: ॥ ❀ ॥ श्री सतगोरप्पर पांवांयां: कांस्यांपान्:

नें सांधापरीफ्रेकेछे: तांकांफ्रवंनरांनांछे: ॥ ४ ॥ तंनीकफ्र

realpatidar.com

गतगुरु: दिवर्णनाअरर्णनो:: श्रीनारां=अेसावाया:
तंपे सोसाहा सतगुरः: याथा ई सांन बुसापाहे: नाह
ही सागवुरु छे: तहि पर बुधप ... से छे: तपां है=आपु
सन्तेरवरहि छे: तेनु सेनतांनवपुराड यांवडां छे:
॥ २८००००००० ॥ तांहां रांनां बुद्ध रांन पुरे छे: =अंने परन
तां पर तेगपां=आं छे: आर सेने सोचनोनंन: बुद्धप
रीनो आं आवसतार छे: ॥ १२९० ॥ आरसेने सोचनोन
न: =आप संपहे=आतरां छे: ॥ १२९० ॥ हां सतगुरः: श्री स
तगुर आंर पांवांयां: हां सभां पीज: ईहां पुरासो पु
व से छे: =अेसा पारत सोपु पांहि: कवादरं पवरत पुरां छे:

realpatidar.com

realpatidar.com



अनें कोडागारनी आगनां पापी छे:: अने सो साध पांहि
कराछे:: अने परत सोधपां आतकोडा नवे:: ते गोनान
कर्मा:: दुप नंना अरलेंनां:: श्रीनारां अरेस पांयां:: ते पंसो
रां का सतगरू:: ईका ते सोधप से छे:: ने सो परत सोधपां
का:: में आनी रांप नो पीनां परत पापां छे:: ॥ ९ ॥ अने पार
पगंनान सांचपांन था:: कोई नां दादादास पंपां नथा::
ने सोप इसां सच पांनानका:: ते जप धपांन गोनां गोने
कदानथा अंदिन पां:: ते सोध ईकांप से छे:: का सतगरू::
श्री सतगोर पर पांयां यां:: कोस्यां पीजू:: ते साथा परा
पाद्द सोध छे:: ते अंप रथ आंधे नका:: श्रीनारां अरेसापा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n353/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

रूपी: वेद कुरांन सांभांन हानी सातां: ने सतने अस
त परतवां: दुख्या कुन कुवां पानी पर जातवां: ने सो पांच
ज अंत पांव सन कुवा: त कुमपांपे हो सत गरू: अपा
र पांच पन अपरां परी: सत कुल ख्याछे: तं पो सो का
हो कुनी पर्श: सती नंदू जेनवी रोगा: न तीनानं दां अहे
पा दरी: गोरनी नंदां अेकुख्यगजग: अंने भ्यां दछे दां अें:
अंने सरवे ने दां अें: पांहां पात को: सकूर अवतार
पांन ख्यां हाथांनपी: गोरन रनां गु सार दां पांहें दरी: अे
पापांच नेपूर्ने छरी अें: फरीसों रांसी लांख रखी: ॥ ८४००००॥
अनं कुल अगपूरा धअें: तपांहे गोरनर नरे तो कांन

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n356/mode/1up





मस्रपद्दे ऽ आतरो छे :॥१२७०॥ ते सतगरू : श्री सतगोर
भरंपावांमां : ते स्वामीजी : ई हां कोइ लोक वसे छे : ऽ ए
हो पारत लोक मांहे : जीवां द्देरे पावरत को द्वां छे : तेवा प्रे पा
हासे पां को द्वा छे : ते कवांम पा सां नंत : ऽ ऐहा सा कमां द्वा करी
छे : ने ऽ आंवां ठांम पांमां छे : ते गनांन कहे ह्देवणे ना ऽ अरनंनां :
श्री नारां ऽ ऐहा वांमां : तं जे साहाते सतगरू : ई हां ते लोक वसे
छे : ने हो पारत लोक मांहे : ब्रह्मा द्वां ऽ असर पीना वरत मां कां छे :
८ ऽ ऐंने प्रां सावकार सा मांहे नद्दीने पुंनां करी छे : गंगा
नांन वी : वी सं टे गार नदु गंगा : ऽ ऐंने तां हां ब हाा नदु गनां ब
पेद्दः नहाने संन मां वां छे : ने हो वी तां न प ऽ अवतारना

कुंभां: वारतासंन पांवा छे: अंनें हसपां अवतार: अ

धरवेदनता लेखंता: आप अ वेतां पां देता नांनतो: तेलो

कुइ तांव से छे तां सतगरू: श्री सदगोर ब्रह्म पांवां आं:

तां स्वांमीजी: नें दूलंग परी पांके लोकु छे: ते अंधरथे आं

कुनता: श्री नारां अेतावां आं: नांरे सतगरू: अेतां चरता

सें परसनी आवरहांजोगवे: ॥३००॥ पांतां वालासनो

गवासां: वेलां सकुरतं वंगः सांवरता पद्वेसतवां: ते

लोकु अंधरनथे आं: पछे धरकुने धरतलोक पांके पड

पू: आवांगवंन पढे: लखआं रांसीनी फेरो फरी ने:

८४००००० नें कुंइ दूलंग हेवनां सेव कुतां अें: ते घर

नहीने अवतरे छे: तेहेपांसनो अवतार नोगवे हो सत
गरु: श्री सतगोर व्यंर पावांया: हो स्वांमीजी: ते सांभ
ळे नोगवे छे: श्री नारी अेसावांया: तंमे सांभळो हो सतगरु:
नेनां मेर ते सतगोर व्यंरपा: नेनां आपा ग्यं ते अवतां
रपांच: ने सेसर गोर प्रभ्ये हांन नहो हे तयां: ने पंसपरां
नेगानन हो प्ररतयां: पांहांपा सनय रूपी: वेद क्रोरांन सां
भ्यांन हो नी नारी तां: ने सत ने असत प्ररतयां: ई भ्यान्यांनप्र
क्रांमनी परनां तयां: ने हो पांच प्र आतमा पसन प्ररी:
तेक्रमपांमे हो सतगरु अपी यपा अंमरां परी: सतप्र
लभ्यो छे: तंमे सांभळो हो प्रनीवरा: गोर नेनां आंद लां: व्यं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n359/mode/1up



realpatidar.com

ने प्रेसां हो = अेनरं = अंद्धः = अवतार पाचने = आंपाखेनाहोः
पछे हो नर ख्यां ऋणरंतः ॥ १ ॥ पा प्र वेद नां सोनाहोः = अंने स
रवेनं हां फ्रंतः वेद वा आरनां सोनाहोः पछे हो नरग
नरंतः ॥ २ ॥ वंसाहेपछाजः = अवरने फरसो पूनांः ख्यरषा·
वासनव· माहे सरवंनांः = अवरहेवनाहो हुनांः ॥ ३ ॥ तं पेनरु
= आनरु = आं पंरु तावेदपारांसाः पंसा फ्रा = अेने = अवतारेः नरा
होतां पख्यांसाः ॥ ४ ॥ पांचमी दूसंगपरीः संपूरेसागा छेः
संपांपतनावेः ॥ ५ ॥ हो सतगरुः ॥ ✿ ॥ श्री सतगो
रख्यंरमांवांच्याः हो स्वांमीजीः ने छठा परीपूर्ण हे छेः तांहां
पूंपांरांनां वसो छेः ॥ ६ ॥ तेनी ह फ्रोगतपूहो देवनेना = आरनं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n360/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n361/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n362/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



पांहासा पांजोगपासां: पेसां सपुरतपंग: सोपरसा
पढ्ढेपसतपां: ऐसांपे=अंपरनुथे=आं: प छेपरपुनें
परतसां पुपांहिपढवु: =आपांगपंन पढ्ढे: सप्प ग्रोरां
सोनां फेरो फरानें: ॥ ८४००००० ॥ परनापतनें घेरनें ई
नें=अवतार जोगपें: हां सतगरू: श्री सतगोर प्यरंपांव
आं: हां स्वांमीजी: ते सांपारे जोगपें छे: आनारां=ऐसा
पांआं: तंपे सोहां हां सतगरू: नेनां जेरते सतगोर प्यं
रंपां: नेनां=आपप्यंते=अवतार पांच: नें सें सगोरपु
प्पे दांननो हेतपां: नें प सभारांनें गान नहा पुरतपां:
पांहांपासनपरूपी: पें दर्फा रांन सांप्पां नहीनां ग्रातां:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n363/mode/1up



नै सतने=अ सत फरतवां: ६ मा फ्रंन फ्रांमनी पर
मातवां: नै शोपां य फुत=मातथां व सन्ध फरी: तफेम
पांमे हीसत गढुः=अवी य वानवन=अंमरांपरी: स
ट्रफल म्योछे: तंमे सोशो हीफ नावरी: फ ग्रे सां यांन
पनां शांतः=अ सत ही र हे=आशा तेः मां हांत स फर नावे
तां:=अवतार पांच न ही प छांशातेः=आप घांने रांतां:
=आप धां पी मां हां पां पीः पंशा पु र वे नां ग वंनां फ्रेमपां
पी=ओः=अंनत फरोंड जव छरी=आं:=अ नेपांन सां य्यां
टां भी=ओः=अवतार पाच पर मां शा=ओः नै थी=आगमा=अं
नत फरोंड जव छटी=आ: तश्री सत गोर नां शा=ओः

https://archive.org/details/bk177/page/n364/mode/1up





छठो अ सपतीपरी:: सप्रस्लाग छे:: संपापतनवी:: ।। ५

।। ✿ ।। श्री सतगोर पवे रंभावांयां:: हां सवांभीन्ज:: ने सां

तभीपराधुं है छे:: तेमांहे धोसार सनां थइ छे:: तेना हधी

गतपुहां:: दुवर्णनां अरनंनां:: श्री नारांअसावांयां:: तेमे

सुक्रांहां सतगरू:: सातमा इमसाहे सांप छे:: हिवे मसा

गधुंहै छे:: ।। १ ।। ते दिपरने मपराय से छे:: तेमांहे अघोरने

रपरहे छे:: तेनु सेन अंगरी सपुरांडना हरवांल छे::

।। २६0000000 ।। आर सेने सो चनोनेन:: आप सप दे आ

तरां छे:: ।। १२ ७० ।। तांहां रांमाने परांन कुर छे:: अंन परनां

तांहां सांइवेगने मय से छे:: हां सतगरू:: श्री सतगोर पवे

रमांवांम्यां: हीस्वांमीजी: ईहाळोहालोधवसोछे: ओ
हांमारतलोधमांहे: ऋवाद्वरमधारतज्ञी द्यांछे: आनंदी
हार्गारनी प्रनांधरीछे: ओहां ऋवाद्वरममांमांछे: नेआ
मांठांममांमांछे: तेजोनांनधहीः ईमनेनां आरनेनांः ओना
गांऽओहावांम्यां: तंमे सोहांही सतगरू: ईहांतेलोधवसोछे:
नेहांमारतलोधमांहे: ही मीनांवरतमांमांछे: प्रागहानी
प्रनममांमांछे: नेहांनमने मीनी प्रनांधरीछे: तेनम
नेमनांनांमालम्यांछे: तंमे सोहांही प्रनीवरां: मेलातां
व्यम्यांलने मः ॥ १ ॥ मीनांतां प्रुरनाधने मः ॥ २ ॥ मीनां
तां सोमीद्वरने मः ३ ॥ यांधांतां द्विधिप्रने मः ॥ ४ ॥ मांचमां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n366/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n367/mode/1up



[illegible]

हो स्वांमीजी:: ते सांभारे जोगवछे:: श्री नारां:हेसावांयां::
तंमे सोहोहो सतगरू:: ने नांने रते सतगोरखंरमां:: ने
नां:भोमखंतेःअवतारमांच:: ने से सरगोरखुंमे हांन
नहीं हेतवां:: नेव समरांनें गनन हाकूरतवां:: मांहांवा
सनवरूमा:: वेद वारांन सांभ्यांनहीनांहातां:: ने सत
नेःअ सतकूरतवां:: हे खांचूंनवधांमनी मरनांतवां::
नेहांमांअनुतःआतमांव सनांकुरी:: ते कूंमांमांहीस
तगरू:: अवा अवानांवनःआंमरांमरा:: सकावुलखो
छे:: तंमे सोहोहो सतगरू:: लख्ख सेरांसावारंजवःअ
वतरां::अंनेतांःअनलांधांमांर:: पंथ सतगोरखानन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n369/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

२७५

आंत रो छे: ॥१२७०॥ तो हां नो रां नां रूप करां न करे

छे: अंने परनां तो परनां त पाप सोछे: हो सतगुरु:

श्री सतगोर अपरंपावां आ: हो स्वां पा जी: इहां पो

रा लोक व सोछे: अरो पर तलो क पाहे: कवां हरं

पावरत पाहां छे: अंने पोरा गोरनी आगनां पांपा

छे: ने आरा ठां पा आवां छे: तेगोनां न करो: देवनेंना

अपरनेंना: श्री नां रां अरा वां आ: तं पो स्वरां हो स

तगुरु: इहां तलो क व सोछे: ने रा पर तलो क पाहे: सो

पवती अं पावां स: नावरत पापां छे: अंने पंर

पगोनां न सां न पानें: संसारी कुपरनां त पाहे रं

realpatidar.com

realpatidar.com

जांछे: जांहांनी = आनोगाफुरांछे: हंसांपरहंसांपेग्मां
नहि: तेसांफु = आंखानागा = आवीपातांछे: हांसतगरू: श्री
सतगोरख्परंजांवांआं: हां स्वाजाण: नें = आठजीपरीजां
हसांफुछे: ते = अंजरपे = आफुनहि: श्री नांरां = असावांआं:
नांरे सतगरू: = अंतें = अफुसांवर सनी = आवरद्दानो
गवें: ॥१००॥ जांहांसावानोगावासां: वे सा सफुरतवंगा:
सांवरखाजद्दे वसतवां: = असांफु = अंजरनथे = आं: पछे
जरवनेजरतसांफु जांहेपडवे: = आवागवंन जांद्दे: स
ख्यांरांसानोफेरोफेरीने: ॥८४०००००॥ नेफोईजा
द्दजनातहां = आ: तेघरनेईने = अवतारनोगवे: सांना

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n372/mode/1up



१११

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n373/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n374/mode/1up



realpatidar.com

૨૮

રેહે છે: ॥૧૨॥ તેનુ સેન આર કરોડ અરે માવ ઢ સો છે:

॥૧૨૦૦૦૦૦૦૦॥ આર સેને સાત્ર નોનેન: =આપ સંમાદે=આ

ત રાછે: ॥૨૨૭૦॥ તાંહાં રાંનાં સની સરરાંન કરે છે: =અં

નેપર નાં તાંહાં માલ વંત વસે છે: હાં સત ગરૂ: શ્રી સતગો

ર અરં માંવાં આ: હાં સ્વાંમીજી: તે માંલ વંત કુને કહે છે:

=પ્રેશોપ રતલોકમાંહે: કુવાં દ્વરં માવરતવા દ્વા છે: =અંને

ગો શાગાર ની =આગનાં માંમા છે: નેં =આવી નાં =પ્રેગા માંમાં છે:

તેગ નાંન કહે: દેવ નેનાં =પ્રર નેનાં: શ્રી નાં રાં પ્રેસા વાંઆ:

તેમે સોશા હે સતગરૂ: ઈહાં ક્રોસા લોક વસે છે: નેશોપ

રતલોકમાંહે: લખમી મેપર મેસર કુરી ફળ છે: તેસ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n375/mode/1up



ध्यांरसानेवपाद्दि: सनी सरथापनांश्रद्वा छे: ते पुनीथश्रा
लख्यपाथशा छे: ने संसारमांहि द्दंनवंतकुतां: तेद्दनमांसपां
द्दरपंडगुरुपाला नें: नहानीगक्षमां=आं छे: नेश्रांनी गावरां
गाथ=आर्छे: नेहानीरतांव रतमांमांछे: ॥ २६ ॥ तेलोक=आवां
ठांमपांमांछे: हां सतगरू: श्री सतगोरव्य रंमांवांयां:
हां स्वांमीजी: नेनवमापरामांहि लोक छे: ते=अंमरथ=आं
कुनहां: श्रीनारां=अेहावांयां: नारे सतगरू: =अेतां=अेसा
परसनी=आवरद्दांनोंगवे: ॥ ८० ॥ मांहांसामांनोंगवालां:
वेला सपूरतवंगा: सोंवरसापद्दंवसतवां: =अेलोक=अं
मरनथ=आं: पछेमारकनेमारतलोकमांहि पड्यू: =आवा

https://archive.org/details/bk177/page/n376/mode/1up



realpatidar.com



गवंन पाद्दः लख्य चोरासीनो फेरो फरीनेः ८४०००००
ने कोइ नर द्दंना कोअेः ते घेर नर श अवतार नागवेः सोना
वेत पालवंतः को सतगरः श्री सतगोर ब्यार पावां आः
को स्वांमीजः ते सां पार नागवेछेः श्री नारा अवेसावा आः
तं पी सोका को सतगरः ने नां मेर ते सतगोर ब्यांर पाः नेनां
अंगा म्यांते अवतार पाचः ने से सर गोर ब्रह्म हांन नको
दितवांः ने प सपरांने गनन नको फुरतवांः पां कांवा सनव
रूपीः वे दफोरांन सांम्यांन कोनां कातांः ने सत ने असत
फुरतवांः दिष्यी फेन फेंफांपनी परनातवांः ने कां पांय
कत आत पांव सनां फुरीः ते फेपपां पे को सतगरः अ

realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n378/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

कां जरत लोकजांहे: वाजान दीवां देसानां परत पांजां छे:
॥२२॥ =अंने अरंजगनांन सांनजांनका: नथा देवपरी
त: दांन पुंनतगा: गनां =अे जाद्ध जा परां पतं: ते =अ अवे
प्र नंगान: द छ कांन देतवां: तने =आनकजानुगे पाजा
नका: ते लोकजका =आवां छे: का सतगरू: श्री सतगोर प
रजांवां आं: का स्यांजीनु: ने द सजी परां जां के लोक छे:
ते =अंजरथ =आं केनका: श्री नारां =अे कावां आं: तंजे सो
कां का सतगरू: =अे तां न कवर सनी =आवरदां नां गवे:
॥२६० जां कां लाजां नां गवी लां: वेला सकरतं वंग: सोव
रसा जाद्ध वसतवां: ते लोक =अंजरन थ =आं: प छे जार

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n380/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



फनेपारतलोकपांहि पडया: आवागवंनपाहि: लख्य चो
रासीनाफरीआरीने: ॥ ८४००००० ॥ ने पांहांकसरी: रो
गीलखइशने अवतार गाईपेछु: सोगवेतपाइपलोक:
हां सतगरू: श्री सतगोरब्रम्हपांपांचा: हां स्वांपीर; ते सा
पार गाईपेछु: श्रीनारां आ सांपांचा: तेपास लो हां सतग
रू: नेनांनेर ते सतगोरब्रम्हपां: नेनां आंपाम ते अवता
रपांचा: ने सेसरगोरप खेदांननहाइदेवपां: नेवसपरानं
गननहाकरतपां: पांहांपीसनव रूपी: वेदफोरानसां
ख्यांन हीनांसातां: ने सतने असतकरतपां: इम्पाकुन
फकांपानीपरनांतपां: नेलोपां मजुत आतपांवसनक

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n381/mode/1up



री: तेंफ्र जपाजे हो सतगुरु: अवी अजानेव नें आंजरांप
री: सफल्रफलखाछे: तंजे साखाहो ऋनावरो: नें पंदपथ्यां
जेहाद सने आंगे: आंने जेथावादनछोडे: वेद सास
त्र गातगोरखफ्र खे नांखोनाहो: तेनी अेफ्रोन झ: अतनांनो
डे: ाद सजी रांहांपरी: सफ्ररखांगछे: संजांजतनवी: ॥ १० ॥
॥ ✿ ॥ श्री सतगोरख्यरंजांवांच्यां: हो स्वांजीको: नें अगा
आरजापरीफ्रहछे: ॥ ११ ॥ तेनाहफ्रोगातफ्रहो: देवनेंना आ
रनेंना: श्रीनारां अेखावांच्यां: तंजे साखाहो सतगुरु: आ
गा आरजीवंद्तें: स्वरजातसागफ्रहछे: तेद्धिपरफ्रेतपरी
वसेंछे: तेजांहे व्यारनांजे पांवफ्र रेंहछे: ॥ १२ ॥ तेन्ह सोनहां

વાંદ સવરાંડ આંગળ છે: ॥ ૧૨૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તેને રૂદર પરાક્રમ
છે: અને સાવપરાક્રમ છે: ॥ ૩ ॥ બારસેને સાત્રનોનેન:
કેતપરીનાં બાંધવ સતાર છે: ॥ ૧૨૭૦ ॥ બારસેને સાત્ર
નોનેન: આપ સંપ દે આંતરો છે: ॥ ૧૨૭૦ ॥ તાંહાં રાંનાં
તરાંનકરે છે: અને પરનાં તાંહાં હસવરાજાં આવસે છે:
હાં સતગરૂ: શ્રી સતગોર બ્રમ્હ રે પાવાંઆ: હાં સ્વાંમીજી: તે
ઈ સવરપરી જાં આકને કહે છે: એસો જારતલોક પાંહે:
કેવાંદરં જાવરતકાંઘાંછે: એસો ક્રો સાગોરની આંગનાં
પાંસી છે: ને આંપાંરાંજપાંજાંછે: તેગોનાંન કહાંદેવને નાંહ
રનેનાં: શ્રીનાં રાં એસાવાંઆં: તંજ સાંસાંહાં સતગરૂ: ઈ

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n384/mode/1up



realpatidar.com



लो: वेलोांसधूरतवंगा:=अेलोधू=अंपारनांथे=आ: पछे
पारधूनेपारतलोधूपांहेंपडधू:=आवांगवंनपाद्ध: लख
ओरांसीनोफेरोफरीने: ॥ ८४००००० ॥ पांहांदावादरीपई
ने=अवतरे: तसधूरथा=ओ: धूरओथइने=अवतरे: पछे
ओंदछेदाईनेपारे: तेफरी=अेइसधरीपां=आ: को सतग
रू: श्री सतगोरअ्परंपांवांआ: को स्वांपाज: तेसांपांटे
नोगवेछे: श्रीनांरां=अेकावांआं: तंपे सोसांको सतगरू:
नेनांनेरतेसतगोरअपरंपां: नेनां=अेधाअंते=अवतार
पाया: ने से सरगोरधूअेदांननोदेतवां: नेवसधरांने
गान नकाधूरतवां: पांहांवासनवरूपी: वे दकोरांनसां

realpatidar.com

खांनकीनांसातांः ने सतने = अ सतकुरतवांः ईखाकुं
नकुवांजानीः परनातवांः ने सो जांय नुत = आतजावसकु
कुरीः तेकुं जपांजीको सतगुरूः = अ वाम धानंवन = अंतरां
परीः सकुकुलखांछिः तंपे सोसोकीजुनावरोः नेकुंछिनी
गाधङ्गनेनीगातननांसोः = अंनेनीगा = आपवखांसोः तेनी
गाळीठांसांग्रनतासोः नेगंगनथांनगातनेंहुन नीसोः ते
सुरलकीने सोगातांसोः ॥१॥ नीगा सोने सो सखनगासर
नीः = अंनेतेनीगा सुनीगातरखीः नेसो = अ वतारपांचनी
खखरननीसोः तेनाकुंधापुदरांसांग्रोः ॥२॥ नीगा सोने
नीगातपछांसोः = अंनेनीगातवंनांनीगा = आंद्वांः नी = अवता

र पांचनी सुध नुनां कां: तो कुंभा परदेसां सख दुंदां: ॥३॥
जोगा सो जंग मांहे अे कुछे: अवर सो परदेसां धारी: जोगा
सो जे आ जुगा जडां: आंख सरवे जी आंखी: अेसी जोगा
कुरु कृत तां जुगा ना हे आं: कुतां हे अे कु दुंन ग हे आं: ॥४॥ अगा
आर भा कुत लो कुप री: सं पुर सागा छे: सं भां पत ना वे:
॥११॥ ॥ श्री सतगोर भर भाखीआं: हंस भाीजो:
जे आर भी पर री कुहा छे: तहां कोहा कोहाव से छे: तेना हकोग
त कुह: देव जनां हे अरजं नो: श्री नारां हे अे साखीआं: तं जेसा
हा हां सतगुरु: आर भी वदत भां हे आपरी कुहा छे: आ जुना
भता भहे आं भापरी कुहा छे: ॥२॥ तभां हनवनां जे सकुती

पसे छे:॥ ९॥ तांहां रांणी अ=आं पारांनकु रेछे: तेना पर
नां अदरुनेंन तांहां वसे छे: तेनु सेनन बकु रोड अदर
नेंन छे: ॥ ९००००००० ॥ आर सेने सो=अणी नेंन: पां=आप
रीणी आंअ वसता रछे: ॥ १२७० ॥ आर सेने सा=अणी नेंन:
=आंप संपर्द=आत रोछे: ॥ १२७० ॥ तांहां रांणी अ=आं पारां
नकु रेछे: =अंने पर नांती अदरुनेंन पां=आं: हो सतगा
रु: श्री सतगोर अरं पांपांआ: हो स्वांपाम: इहां कुंसासे
कु वसे छे: =अंसो पारतलो कु पांहि: कुंबाद्ध रं पावर तकु
रांछे: =अंने कुंसागोरनी =आगानापां ङाछे: नें=आवांडांप
पांपांछे: तेगो नांनकु हो: द्विपनं ना=अ रनंनाः श्री नांरां

१८५

एसावांयां: तंपे सोहाहो सतगुरु: ईहां तलोक वसे छे:
ने हांपार तलोक पांहि: द्रसांत रसनां वरत पांपां छे: अं
ने परंपगनां नसांनपांनथी: ने सांनव सतना पू
नां करी छे: ने आतपानेपद्रपा: सरवे एक ठांपेपे सोने:
पद्रपासने सरांपनी: गोठकरीने पांद्रां छे: अंनेसक
तीनरुद्ररंपपांकुछे: ने हां सकतीनांनांपकी द्रां छे: तलोक
आंसीनां एगा आवांछे: हो सतगुरु: श्री सतगोरपीर
पांवांयां: हो स्वांमीजी: ने पारपीपरीपांहि लोक छे: ते
अंपरथ आकेनहो: श्री नांरां एसावांयां: नारे सत
गुरु: एतांयापा सवरसनी आवरद्रां गांगये: ४०

realpatidar.com
realpatidar.com

पांहांवीलासनेगवालां: वीलासपुरतंपगः साथ
रखापद्धवसतवां: अेसीकु अंपारनथे आं: पछेपार
पुनेपरतलोकपांहपडयः आवांगवनपद्धः लख्मी
रांसीनीफेरीफरीने: ॥८४००००००॥ नेजीवसपुतानो
सेवकहि अे: तेघरनेईने अवतरे: तेरांनेसलाव
पांहे: अवतारनेगवे: सोनवेव्हदुनेनपांअां: हेस
तगुरु: श्रीसतगोरब्रह्मपांवांयां: हेस्वांपीजः तेसांपां
रनेगवेछे: श्रीनारांअेकावांयां: तंपेसोकाहोसतग
रु: नेनांनेरतेसतगोरब्रह्मपां: नेनां ओपाप्यांते अ
वतांरपाप: ने संसारगोरपुरखेदांननोदतवां: नेव

https://archive.org/details/bk177/page/n390/mode/1up





सांभरांनेंगाननकोधुरतवांः भांकावा सनवरुपीः वेद
धुरांन सांभ्यांनकोनांकातांः नें सतनेंअसतधुरतवांः
हैं च्यावुंनधुवांभनीपरनांतवांः नें सांभांअजुंआतभां
वसनधुरीः तेंभुंभपांभेको सतगुरुः अवीअभानांव
नेंअंभपरांपरीः सधुधुलभ्यांछेंः तंभें सांकांकीभुनीव
रीः भें संगा संगाहेंभ्यांकांः सांधूनांतध्यधुरीओंः सां
धुंनेन सेवांप्रभांअपारः नांरांका धूनीओंः आपेरांतां
आपेपांतांः आपनांअरतवेगानांनः आवांगवांनभेंहुः
आंभध्यांरांनेंआंभलोरोः आपेआपनाओंः आभेंगर
गानवांरींओंः तेथीआपसभ्यांओंओंः ध्यारपीभांओं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n391/mode/1up



realpatidar.com

१८७

तेसंघूदरछे॥७॥ सातद्वीपछे॥७॥ नवखंडछे॥९॥

असरकुलपरबतछे॥८॥ नवकुलनागछे॥९॥ चार

कुलपेढीछे॥४॥ हा स्वामीजी तेतो अदृष्ट नर्धन धारी सा

रवेसा लाखकरी छे तेनाधन नवी खाछे पूंथवसाधें नेरेहे छे ते

ना कुलगत कहो दयन ना अरन ना श्री नारायण आवां

तेतो सोहा सतगुर पंचधन सात पाताल छे॥७॥ तेस

तद्वीप पर थावां छे तद्वीप पर सात असमान छे॥७॥ तेसते

थानावांछे अवा अदृष्ट तखत तेसतना ब्रांद्धा छे॥१४॥

तद्वीप पर च असमान छे॥३॥ तेसतनां ब्रांद्धा छे नेपार

परबत ना पारती द्वी अंकुवा समरी द्वीछे॥२२॥ बालीनही

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n393/mode/1up



आरपरी द्वीछे: ॥१२॥ ते सरवे सतना आंद्वा द्वीछे: ते द्वीपर
सरद्यापरी छे: ॥१॥ वली ते द्वीपर चार=अस पांन छे: ॥३॥
तांहां=अरस: ॥१॥ कोरसी: ॥२॥ नरांकार: ॥३॥ लोह: ॥१॥ कुल
पछे: ॥२॥ ते सरवे सतना आंद्वां छे: तांहां=असलां=अेपु=अंप
रछे: ते तांहां पोस=अंपरछे: ॥१॥ =अेवा अद्वी हेत अपु: ते परप
रअतनो: =आद्वार आंद्वां छे: =अने पोरपर अतः सतनां आ
द्वांरां आं छे: =अे सरवे भी पारा नो हेते सतछे: अरपाआ
सनव पाहे सर: ॥३॥ =अेवा च्यार हेवते सतछे: जेने=आ
द्वार परनी पी आले छे: हां सतगुरु: श्री सतगोर अपरंपावां
आं: हां स्यां पीणु: =अेवा=आद सासत्र: नकळंकी नारांए

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n394/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

परमेश्वरतां पाडाइर रसका: तेने सरा पातकुं पांरपाकुं छे:
तंपण सासा का पुनी परसा: पेसांजे रतांजु गपदे: श्रीस
तगोरनुनां पतां: गोर पर पांजु इरुछे: तसारघूपेद
नां वेपांरजीदा छे: तेरघूवेदपर पांसे पांसां छे: तेसा
फेरतांजु गपांहे: पांरनांप सवां पीजः नांतरतप
नसावां छे: ॥४॥ श्री पछे: ॥१॥ श्री फोरनः ॥२॥ श्री वेरां
॥३॥ श्री नारसांहे: ॥४॥ अंपा पांरअपतांरः नीरप
सरे तांहां: नगती करी छे: अंनेनपतपः दरंपावरत:
पपां पांपी छे: तफुरतांजु गनोवांरा: नोरदितरां छे:
तसा दाइ सतगोर पर रंपांनांवांरा दितरां छे: तारेर

realpatidar.com

तारे रघुवंदनो पारोहितरो छे :: अंने रघुवंदा :: अरांप
सानो पारोहितरो छे :: अने रघुवंदनै :: अनां रघुवंदाव
रांपसा :: अअव सतोपाके :: अरे पा नथी :: कवे तेनो ठां
सोनो अरे का छे :: नारे पेसां कुरतां नगा :: सत रसो अनै ::
अठांपा सकनार :: वरसनो सपुरसाथे अ छे :: ॥ १९२८००००
तारे परत अपकाद सा :: आदीतपारीनां :: पंसा पारोहितरो
छे :: कवे कुरतां नगानां :: परद्वांन सरपे अरां छे :: कवे तेनै
पुरनै :: जपने पा अनकाथा अ :: पेसां कुरतां नगा सपुरसा
छे :: संपापत नावे :: ॥ १ ॥ ✿ ॥ अनां चेतां जुगनां परपा
साल अपा छे :: तं पं सा सा का जुना वरा :: यहि दस पागा सवारा ::



realpatidar.com
realpatidar.com

ने द्वांदे ऐतां जुग प्रवृतो छे: ते च्यार लाख ने छनु हजार: वरस
नो जुग छे: ॥ ८६४००० ॥ तारे सत गोर ब्रंह्मा: नो अवतार
ते गोर ब्रह्म ने सरखा थया छे: तारे गोर ब्रह्म ने सरखा: श्री नारा
यण नाम धराया छे: हवे गोर ब्रह्म रखांन्त: ब्रांह्मण तेम
जुग: अने गोर ब्रह्म रे ब्रांह्मण: ते तेमने जाण्या छे: अने गो
र ब्रह्म ना: हजु ते मानेसा छे: तारे सत गोर ब्रह्म ने र
मा: अवतार थया छे: तेमा नर नर रखे छे नाथ पार कीधा छे:
तारे नर नर रखे छे: पर पांचे साथे छे: ऐतां जुग मा हिंदु साना
मा: रखाणीनाथ करता था: न ह्मावा छे: श्री पांडवा: ॥ १ ॥ श्री
भर सरांधा: ॥ २ ॥ श्री रांधा: ॥ ३ ॥ अने पांच सा अवतरनी:

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n397/mode/1up

https://archive.org/details/bk177/page/n398/mode/1up



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n399/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n400/mode/1up





पजो द्वांछे: ते हिला=अंपांवांस: सजपारीनांवरतपां
पांछे: मारे ते द्वापापरनगा: सपूरसाछे पे=आंछे: तारेस
तगार: वाहरवे=आसन=अंपल हितरू छे: =अंने सांपवे
दनः ससपापूछे: तेपांहीथी सांप वेदा: अरांपसार
हांछे: ॥३॥ तारे सांपवेद: ने सांपवेदा अरांपसाछे:
=अंअपसतोपांहे अरेपां नथी: हवे तेनो नअठांलार
हांछे: हवे तेने पूनांनू पापनथी: मारे ते सतगार अर
पा: ॥१॥ सतगारपर्ने सरपा: ॥२॥ =अंने सतगारवाह
रवे=आस: ॥३॥ मारे=अेवां=यसा=अपवार: गोरलांपां
नांवहागा=आछे: तारे यसा=अपवतार: नोठांलांनेअ

realpatidar.com

रकी छे: तेने म्हा प्रांहि कवि म्हारा प्राणनथी: नांइ ह्रंग्रो सतगो
र म्हा रंप्रा प्रभाता: ज्यानो छ्र रख्य्यारी था: स्रें: पंकानी गुस
ह्र रसकाने पूण्यं: तेजे वने प्रान्ह फ्लगतन कथा: स्रें: स्र
पत्र प्रकृ ह्र रसका: सप्र रकाछे: संप्रा पत्नावे: ॥ २ ॥
श्री नारां अकावाया: म्बीनों नह्र रसकानी: कमी गतस
म्हाछे: तेपे सोकाो को सतगरू: नारंचेताने गपाद्धे: ए
वसासप रापाकिथा: ई सपरने: पारवती: म्हा रंपाप
रापाकि आयाछे: तारेपछे सतगोर म्हा रपाने ठ्क्क छे:
नेतेपम्हा रंपाप राद्रिधाडसो: तारे गोर म्हा रंपा: स्रें: म्ह
रंपाप राद्रिधाजछे: तेपाकि ई सपरने: पारवतीम्हि हु

realpatidar.com

ऐवांछे: तेई सवर पारवतीने: गोरखरं पाणी ऐ: घ
रू ऐकु पांन दीधुछे: ऐने पोतानु सीगा सरोनी सवा
ने ऐारुछे: पछे सांवत्रीने पारवती: नी हुकीनेव
सारकरीछे: तांहां ऐवीव सारकरीने पुछ्छे: ने स्या
पीणी: ऐने पां सांपान सती: पटती वतांपीशनथी: पं
छे शी सवरकु वालांगा छे: ने तेने सती ऐोकु सा ऐ:को
सावपाकनथी: तांहां ऐकु नीहुनशोगपानकरछे: पछे
वडी शीसवरकु वालांगा छे: ने पारतलोकु पाके: ऐकु ऐं
सी ऐा सती पीटीछे: पछे वडी पारवतीकु वालांगा छे: ने
तेने ऐव डावडा शी सूपुरीछे: ऐं पथी पीटी पीशी सतीन

realpatidar.com

थी:: अने तें पीर अवगणान सधु रोछो:: ए छे वणा अरपी
नः ई सबर औहुकुबालांगा छे:: अंपीर अन सा आ: सत
नधारनाद्रीछः ए छे तेंपीर अपनः: आ जा रवा लेनो: तांपी
पर तीवेतां: जा हां सती आ सही:: ए छे अर पानः ई स
पर औहः पर तलाकु जां है आ वांछे:: तें स्ती हाडे श्री रांपासे
कां जांहेः कुनकरना सांथीवछ वा हुतां: ना रतें कुनकर
स्तानीः श्री रांपासें कां नां गा छे:: अने रावस्ता हईतनें पारी
छेः तेंस्ती हाडेनें नदर सस्ताकः यसस्ता यास्ह छे:: अनेंह
कुजथ आ छे:: नेंहातें रखें सरनकुलानें थद्री छे:: अनेनांहें
तें जारांगा रना रहां छेः: तें रांस्ता नापेर जांहें थी:: गा रना पार

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n404/mode/1up





नाआछे:: तेनु पेर आरी नेफाडानां आछे:: नार ते सरव
राखा हिनां:: तां कां कफाथ आछे:: तारे सघवी राखा हिनां::
पेर पाक भोगार न फाडाना आछे:: तारे फनाफर रखाणी ए
फरांखीनां:: पेर पाक गार नार कां छे:: तेना पेर पाक सोपडा
रे आपा कांतां:: ते रां खा आगे तां कां खुपांपाफ रु छे:: तेनां आगे गापां
कं:: आगे फठां फर दोधा राकुतां:: ते पाक आगे फठा फरनी फरत कां
ती:: तेना आगे गापा कं ते दाडे:: श्री रां पार्ज ठांकांतां:: तेनां आगे गा
नं पर घे आंकांतां:: ते फरतने पछवाडे:: फना फरखानी आगे
फरांखा:: छ पाई रे कागई छे:: तां कांते सुदररां खा संतांई
पछे ठा छे:: श्री रांजानी पार नोदापाटे:: तेना आगे गा पाक फोई

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n405/mode/1up



realpatidar.com

गा द्रिनथी: तें सुद्दर व्यांईतां द्रिगारी छे: तेरांहा=अेतां हा
कोरनी प्रतनें: पां=अेसां गीनें घरहा: =अेप=अरनप्र
छे: नें प्रांहांरानतंप्रेसान रांप्पनी: =अंनंनें प्रांई=अंपांनें
फरनेंन=आवसें: तें स्यांप्राक्ष तं प्रारो सेवक छे: प
छे तेरांहा=अेतां: =अेपक्षप्रारोनसां छे: तेक्षु=अरनांरे:
प्यांरपरसनीप=अोछे: ॥१२॥ तारें तेक्षुपर पोताना:
प्रातांनें पूछवा लांगा छे: =अंप्रारो प्यापनें: हांहांप्रांईन
थी: तेप्रांहांगें=आछे: तेनी हप्रगात=अंपानें क्षहां: तारें तें
कुपरनी प्रांतां: तांहांक्षे वासांगा छे: नें तांरो प्यापनें हा
...: तें श्री रांप्र संघारो छे: पेहा प्रांई तक=अेवांनथी: नें

realpatidar.com

तारां आपद्दादानां: बेरसईस: तारे कुवर नेतो: तेवा
तनी भुक लागाछे: ते कुवर तो श्री रांम साथे: वछुवा
नेगऐआछे: तारे ते कुवर तांहांनां घने: श्री रांम साथे
घरांवत छे: एने अहंकार दल करोछे: तारे श्री रांम तांहां
नानी अस्थानें पूछे छे: ते ए कुवर केनो छे: ने आवडा
दिपादल करे छे: तारे नानी अस्ते श्री रांम ने कहु छे: ने स्वांमी
ए कुवर: तो कुनकरसानो छे: ते ने कुनकरसे: वरआ
लो छे: के एने मांहां रुदर: वरआलो छे: एनानामनो तो
हां: कुनकरसे तप करोछे: तारे मांहां रुदर: ते ने वर संन
ये आछे: तारे ए वांदईतने: तांहां वर आलो छे: तारे श्री

रांजा ते सास्त्र करी जान छे: ने दाहाडे श्री रांजा: रावराइ
ईतजारीनें: सती सीताजवां जां छे: जांई एवात ते
दाडानी लख्मी छे: तंजा सो दाहाडे फलनी वरा: नारे चेतानग
जद्दे: आगुलाख्यनें: ओसठ हजार: वरस गुन रां छे: ९६४०००॥
अंने चार लाख्यनें: बत्रीस हजार वरस: नारे आग्रारे हां छे:
॥४३२०००॥ ते दाहाडे नेन दरे ससा पे दाये छे: तेव्यारे जांनें:
ई सवर बेहु नहां: अंन सीआ सती: नें घरे आवां छे: ता
रे अंन सीआ सती: घरखकर जा आत पे आं छे: स्वांजी
अंजां रूजांगा: नें अंजा रे घेर तं जा आवां छे: तां रे व्यरं जांनें
ई सवर: बेहु नहां जे वां लागा छे: नें व्याइ तं जारे घेर अंजा

https://archive.org/details/bk177/page/n408/mode/1up





आपांछे: पंथ तंपो कों अप्रे अंपानो ने पांड सो: तारे अंग
सी आ सती अप्रे कुछे: ने स्वांपीणा अंपा: तंपानो ने पांड
सु: तारे वधी ष्य रंपानो ईसवर: ष्यनो कां कुवालांगांछे:
ने ष्यांई अंपानो: नगांनथई नो ने पांड सा: तारे अंन सा
आ सती: कुवालांगांछे: ने स्वांपीणा अंपां रूसत कुपारे
से: तारे ष्य रंपांनो ईसवर: ष्यनो कां कुवालांगांछे: ने
अंपारा सं कुतांगांपानो कुरे छे: त ष्यनो कां दि कः: गांपानं
कु तारव छे: अंनो तंपा रूसत श्रीनां रां अप्रे कारां ष्य से: व
पी अंपा पंथ सतरांपी सु: तारे अनसी आ सती: कुवा
लांगांछे: ने स्वांपी अंपानो कोल आसी: तारे ष्य रंपानो ई

realpatidar.com

सवरः ब्रह्मनक्षांपजाने ब्रोल=आलो छेः ने आई तंजाऊस
तः=अंजीरांनी सूः तारे बर पांने झ सवरः ब्रह्मदेवबाल
कुसरूपथी=आ छेः पछे=अनसी=आसती=प्रेः नगनपईने
परसादकुरांवा छेः तबर पांने ई सवरः ब्रह्मदेवनेतां
हां=अनसी=आसती=प्रेः=अंघांजांवां छेः तेहुनेनवरावा
नेः पारस्नांजांहे स्रुवांरां छेः ते=अनसा=आसती=प्रेः ब्रह्म
बालकुने पारस्नांजांहेः पोछाडाने काठे जो छेः=अंरलंसे
वचीने पारवतीः ब्रह्म सकुतपजानेः तांहां=आवी ह्रिछेः
तारेते ब्रह्मसकुतपजानेः=अनसी=आसतीनेः पुछवा
लागा ह्रिछेः ने आई=अनसी=आसतीः तंजीपरतावंताजी

realpatidar.com

realpatidar.com

१२५६

टी छे: अने तेमा रे घरे: अंमा रां मांरस आवां छे: ते अ
मने ज्ञानने ज्ञा अंहां मर रहे छे: तारे अंनसी आसती ज्ञा
लोंगा छे: ने तेमने ईनेनुं आ: ज्ञाई ज्ञ प्रसरता: व्याप
ज्ञसरुपथईने: मां रसां माहे सुतां छे: तारे सेवक जीने
मारवती: व्यक्त सप्त तामाम्ने मांरसुना हि छे: ते मांरसां
माहेना द्विपंसा: माते मातांना मारस आमा ज्यांन की: तारे
व्यक्त सप्त ताहार मांमा हि छे: अंने तांहां व्यक्त सप्त लना गना
न हितरां छे: ते हारा ने सेवक जीने मारवती: व्यक्त नसी: ता
रे अंनसी आसती मां संग आ छे: अंने ज्ञक्ते व्याईते मा
मोटी: परतीवंतां छे: अंमतो ज्ञाईना सातां नथी: तांहा

realpatidar.com

=अंनसी=आसती=अ: तांहां=अनसी=आसती=अ पोते
पोतानां पोरस=आकाशी=आलो छे: ने तेने वा पोरस:
तेने तेवा पोरस: =आकाशने कांधवां=आलो छे: पछे तां
हां ब्रह्मसरूपनु: गाजांन हितरूप छे: तारे सेवता·नेपा
रखता: ब्रह्मसरूप रातो=आ: नेत्र पडइने धोरगई छे:
तारे पछे ब्रह्मरंभाने इस्वर: ब्रह्मदेव जगाने: =अंनसी
=आसतीने कुवालांगा छे: हवे आंइ=अनसी=आसती:
तेनारी धछांहां=अतेजांगा: आंइने तेने जांगसो: ते=अंपा
=आलोस्व: पछे=अंनसी=आसती आलो छे: ने स्वांमीतं
ने कोल=आंसो: तारे पछी=अं पोजांग: तारे ब्रह्मरभाने

https://archive.org/details/bk177/page/n412/mode/1up





ई सपरः अंकुदेवजाजीनेः तांकांळोल=आंलोछेः तारे
=अंन सी=आसतीः तारे=अंन सी=आसतीकुं वालागां
छेः नें स्वांजा तंजेः=अंकुपुच=आलोः नें कुं=अंकुजां
कांपार सदेवधा=अेः=अंवां=अंकुपुचः=अंजानें=आलोः
तारे सतगोर ब्रह्मा रेजांनांः कुंभजांकेथाव अंननां स
रुछेः नें आंईना=आतंजांरेः=अंकुपुच थासेः तंजां
कांपार सदेव रुपकसेः तारे ईसपर जंनजांवासां
रकुरोछेः नें अंरजां=अेसात=अवतारः लईनें नग
ततारांछेः तारे ईसपर कुंवांलागांछेः नें=अंजे तोवा
सनापनीः नगता देखाडानेः सरवे नगतने तारुछे

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n413/mode/1up



प छे अंन सा आसती नः तां हां ईसपर छु वालागां
छेः ने ब्यांई तंणे ब्ये हु हाथ नो डोः ता अं णे ब्ये टांदे हूः तां
रे अंन सा आसता अेः ब्ये हु हाथ नो डा ने सा णां हुनो
छेः तारे तेना हाथ णां ईसपरेः देव दंत नो अवतार
आलो छेः ते देव दत नो अवतरः ईसपर थ आ छेः
तां हां अेवां ईसपरेः देव दत अवतार लीधो छेः ते दे
व दत पासे थाः संना साथ आ छेः तां रे श्री नारा अे
शानो नांखः ते ने देव दंत आलो छेः ते तंणे सो हा हां पु
ना वरां: ने ब्यार ला ख ने छ कु हनां रः वरस ते तां नो
गना छेः ॥१२८६०००॥ ते णां हे थी ब्यार लाख नेः चो स

realpatidar.com

realpatidar.com

૧૨૫૮

ઠકનાર વરસ ગના છે: ॥ ૧૨૯૬૦૦૦ ॥ તેહા કે ઍ વાત થ
ઈ છે: ઍંને નારે પાંછલાં વરસ બત્રીસ કનાર આવ્યા
રે કાં છે: ॥ ૩૨૦૦૦૦૦૦ ॥ તે સો દાડે દેવ દત પેદા થે આ છે:
તે દેવ દંત પાંસે થા: વેસવ દર સસા પેદા થ્યા છે:
ઍંને તાં કાં થી સંનાસી પેદા થે આ છે: નારે સત ગોરવ
ને સર પો: સાત કરોડ જવ: સાથે રાંના કરી સંઘ
તારાં છે: ॥ ૭૦૦૦૦૦૦૦૦ ॥ તે પાં કથા આવ્યા: સવા કરોડ
જવ રે કાં છે: ॥ ૧૨૫૦૦૦૦૦૦ ॥ પછે તે જવ તો નઈ: દેવ દંત
ને પાપાં છે: તારે દેવ દત તેને નર ટાર આવ્યા છે: તે પાટ સ
વ દર સસાનાં: સં રવે સંનાસી નર ટાં રાં ખે છે: તે પાટ

realpatidar.com

सनासीनां न्यरहांछे: पंसा हवेते पांहेई क्रांश्रीवत
नथी: पांइ=आते मां घर पांहे द्रसीनथी: =आंनें तें घर
तांछांसांछे: तेहवे सेवइर सहानें: फर्ने पानेन्नुवनें: प
ख फ़ुगतनथी: =आंने सतगोरख्यरं पां: पजे तोन्नुवनें
फ़ुगतथा=आे: =आे=चीन्नुसेवइरसहा: तें सपरसागछे:
संपापतनवें: ॥३॥ चीन्नुनें नहरसहा: वपा=आेपां
पारहछे: तेनी हफीगतलखीछे: तंपेसोसांहोंप्पनीप
रां: ॥ ❀ ॥ आनारां=आेसावांसां: तंपेसोसांहोंसतग
रु: चीनां द्वावापरनगनी: वातलखीछे: ॥३॥ नारेते
रख्यपसाफ़ेनानें: घरसह पडावाने फ़ांने: आफ़र

realpatidar.com

सनजी=अेः ताहांनां देवने पांकलांछेः =अंने तेसाथे पांचे
पांचांपे लांछेः नं=आदनाथः॥१॥ नीजनाथः॥२॥ पारस
नाथः॥३॥ पांहांपारनाथः॥४॥ =अेवां आरनें काः ते पांचे पां
टांपांकलांछेः॥४॥ नंनांई=ओ तंपेरखंपरतीः कनांनें
घरस्थ मकांवी=आवीः तारे सरवेनां देवपजानेः रख
परतीकनांनेः घरस्थ मकांवालांवांछेः तेनां देवसरवे
पापीनेः ताहांनां ईनेपेठांछेः ते तांनां ईनेनांवालागा
छेः तेनां देवताहांनां=आतीः=अेकवाडांपांहेः नेनांपर
पांचनांतनांमांधांछेः करसणः॥१॥ रोजाः॥२ अकरांः
॥३॥ पांडाः॥४॥ गा=आः॥५॥ =अेवी पांचनांतनाः नंनां

https://archive.org/details/bk177/page/n417/mode/1up



पर=अेवा ठांमां द्वीपछे:: तारे सरवे नादेवपापीने:: तां
मांपांहां सन पूछवा लागा छे:: नेते अे=आने नावरने
सुवरसो:: तारे सरवे तांहा वेवाई=अे:: पापीने वेधा
लागा छे:: नेतारे रुपपरसादनां:: श्री गुर सनजनेप
रसावी स्कु:: तारे=अेने नावरनरुपरसवरीने:: सरवे
नादेवपुरा:: नानदई=आधी ईने:: श्री गुर सनज साथे
=आवसे:: तेने=अंपे रुपवरांवी स्कु:: तारे श्री गुर सन
जः:: रुपपरसादनां परसावां=आवसे:: तारे नादेवप
पानेनपांडास्कु:: =अेपवुरानेवेवाई तांहां रुसवा लागा
छे:: तारे सरवे पांनेना:: नादेवपुपापांहे:: =आदनाथि::

https://archive.org/details/bk177/page/n418/mode/1up





नीमनाथः पांससनाथः मांहावीरनाथः तेहिनां ब्रहु
आंसपडां छे: तां हांना देवसरवे आसपां पां छे: तेनी
देवसरवे तां हांथा अमृत सानपांने आली नी सरां छे:
ते मोधा से तथ गंगर ना देव: गडनार डुंगर ऊपर गे आं
छे: तां हां नहीं ने सरवे ना देव: अंन पांहती तां न करीने:
ते गडनार डुंगर ऊपर: तप करवा बेठां छे: तार पछी श्री
कुरसनज अ: तेनी अवतर ना रूप छे: ते अंतरना मी
देवने: सरवे रो सांन छे: ने सरवे ना देव तां तप कर
वां: गाढ गडनार ऊपर बेठां छे: तारे श्री कुरसनज अ:
ती गला गला ना देव: तां हां पनां वां पाकला छे: ने २ [illegible]

realpatidar.com

नादव करी सावीने: तप करवा जगा=आकां=ओ: तेर सा
सरवेन तडा=आव्या: तेने=अंपाकुनीने: =अंपाने श्रीगु
रसने: पांनावां पागुलां छे: नांई=आते पांरे तेपे आवेला:
तेपे सां=अंलेनको तप करां छो: तेहिसा घरकु करी कुरु छे:
तापरा सरवे नादव: रीसावीने रेहां छे: तेने घरकु घ
रकु करीने: पांनावांपेसा=आवांनरी: पछे श्री गुर सं
नजता: रखपासा गुनांपरसीने: घेरलावां छे: तार
पछी श्री गुर सननांथ: पो तेपेनावां गे=आं छे: तेसा
श्री गुर संनजा गुगुरुनथी पांव: पछे वसी घरकु घ
रकु करीने पांनावां छे: तापंसा नादव गुसानो पांनीहि:

https://archive.org/details/bk177/page/n420/mode/1up



realpatidar.com



प तारे श्री गुरु सन नाथे तो: ते सरव पेना हंप नो छे
पापाडपां: ईमे गुपांन पांहेप मारगु राछे: नां हां सरवे
नाहं पगु छे: पझीने तप गुरवांपे ठांछे: तेना ईमे गां
पांहे ईमे गुनवां हां: गांईवापजगु द्वाछे: तेवावजार्ह पर:
ईमे गुपार्ह डांगु आड पेहांगुरु छे: ते आडनां पार्ह डा पईने:
रपगुरपगु गापी छे: तेने शगुवापांहे पडे छे: ते गांई पां
जानु पांराा: तो सरव पे हारु थ ईमो छे: तां हां नां हं पगु धरपे
सरने: पां हांनी तो सपीईछे: ते गांशवावजपांहे धी:
सरव पेर पे सरे: प जाने पांराा पीढु छे: तारे सरव पेर
पे सरने हारु थ जा छे: ते सरव पेर पे सरे तो जा सां:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n421/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

ने आं पां छे: तो हां श्री गुरसनजी अे तो: तेपंननारपेसर
ने पूछे छे: ने नांईरपेसरा: ईहां अे गु अंपारा:
पांछडा परपाने आवा छे: ते तेपां गुईडा ठा छे: ते गु
आं गाई छे: तारे वेरपेसरे तो सांने भाप दादा छे: ने
पारां ने तेपां नली गुरी आवां छो: पंडा तेनी भाभार
तो अंपा ने नथी: गुंडा नां डां ते गु आगाई: ते तेपां सांद
ले हां ने: तारे श्री गुर संन नांथे तो: भ रांपां डा रु पेभो
लां छे: नांहार पेसरा अंपारा वाछडा तो: तेपं पासे
आवा छे: ते सापारे तेपं गुता नथी: ते वाछडा तोय
रतो परती आवा छे: पछे सरपेर पेसर: पपाने

https://archive.org/details/bk177/page/n423/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n424/mode/1up



realpatidar.com



रीनेंव्याळांछेः नेंन्यांहुरखेसरोः तंमेंनलोतपेसरी
छोः तंमेंतोसारोतपकरोछेः =अंनेगाईनीनव: नीर्
=आपप्राछेः तारेसरवेरखेसरपाप्रीनेः श्रीपुरसंन
ग्नेः पा=मेलोगाकेवालांगाछेः स्वामी=अंगाड्ूपांपः
तंमेंपरलेंहरकरोः =अंमेंतोसरवेघांनेंगारछेः तारेश्री
पुरसंननाथेः सरवेरखेसरनेः तांमांकेवालांगाछेः
नेंतंमेंसरवेरखेसरपाप्रीनेः =अेकुलांकुडांकपांडलव
रोः तेप्रांहेआरनाथेकरीनेः तेलांकुडांनापांडलनेंयो
डेः तेलाकुडानीपांडलीनेः यारेपांहु=आंयोडाछेः तारेजा
=अंनीपूछडाः =अंनेयारे=आंमप्राः तेनाकाथेप्रांहे=आसांछे

realpatidar.com

realpatidar.com

पछे पजा श्री गुर संन नाथ जी पासा गा छे :: नैना हा=श्रा
तं जे गा=प्रे जारी ख्वा द्वा छे :: तं गा=प्रे ने तं जे ख्व ह द ख्व दा द्व छे:
ते जा रे तं जा रां जा धां नां वा जः गु टां वा ने जा धु सा सन गु
रां वां :: =प्रे ने घा रं घा रं नी :: ना ख्व जां गा ख्वा नां :: प र त प
हि द र न जा जा नां :: पं यां स स्ता नां प र त : स रा व सा जा ग
ना पा जा नां :: =प्रं ने ज व दे=प्रा द्व रं ज पा जा नां :: ता रे तं जा रू
गा हि पां प नां सें :: ता रे तं नां=प्रे गा जा है :: यां वा स नां द्व वे
ये त प्यै :: ना जा द्व रं जा सा द्व छे :: ॥२४॥ तं नें नां प=प्रा सां
छे :: तं यां वा स नां द्व वं :: श्री गुर स न ज न गु रु न था जां
नु :: =प्रं ने जा धु सां यं न गु रु छे :: तं यां वा सं नां द्व व जा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n426/mode/1up



realpatidar.com



ते: गोरा = आदनाथ: ॥१॥ नाथनाथ: ॥२॥ पारसनाथ:
॥३॥ गोरखनाथ: ॥४॥ = अंबा आरने सागरा छे:
॥५॥ तेहां साचकुंनदर गमलाचछे: तेगा साहाजी
नावरा: नेदाचापरनगनां: = आउलाखने सासउ:
हनारवरसछे: ॥८ ६४०००॥ तेमाहे पासातलाख
ने: आगी सहनार वरसगदरां छे: ॥ ९४०००० ॥ = अं
कुलाखनेआधासहनार: वरसव्याकुरहांछे: ४४
॥१२४०००॥ तारपछीवरती = आनापंथ आंलाछे: तेने
दाडेनेनदरेग: परगाटथईछे: तांहांपीनेनदरसहा
नानेखरहांछे: तेने फुनेगा जावनेजुखानथी: तेने

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n427/mode/1up





२०५

रसंन: पडदे धाआछे: आंनना रे श्री गुर संन पाहेजो
पर्गआछे: तारे सरवे लोक पापान: श्री गुर संनना
धन: लई आपवांग आंछे: तेने तान ईनेन हदापान ई
नहागाहादाछे: तेपाह धाआवेक रुठ नेक: आपातआप
तरहागढ्ढछे: तारे तांहां सरवे लोक: पपाने सकवांपक
रुछे: ते रुठ तालहान: नहा पाहेवे तपेलछे: तारे रुठ
तावे तवे त: पोआवेक पालक पाह गढ्ढछे: तेपालकपा
ह रांनावार पांच रांनक रे छे: तारे ते रुठ तारांनावा
रुपापनां: संपसआंपानई नेकहछे: नेआवेक रुठ नेक
तरतआवेछे: तेने तेप आह रपाडा: ते लावान रु

realpatidar.com

ने घरमांहि घांलो: ॥ अने ध्याई मालासने: तं पोते नर रेना

ईम्याड सो: पछे ते रांणा वीर पाजी तो: न घर मांहि ना वाजां आ

छे: तारे तांहां ई निम ॥ अं: तो संभलां नी वात तो सांभ

छे: तारे ते रूछ लई नी: रांणा वीर पाजा घरे ॥ आवां छे: ते

नां ॥ अंगा मांहि रूछ ने: तो रांणा वीर पांजी: जाय त रां छुं छे:

ते रांणा वीर पाजा नी: ई त मांहि जा ज ध्याछ व छे: ॥ अने

सरीर व्याकुल थया मांड छे: तारे रांणां वीर पांजी तो सूका

प कुरु छे: ते ना ॥ अंगा मांहि ॥ अं कुप जो ढ्यां रही ने: ॥ अं कु

मांन सत पकु रां छे: ते ॥ अं कुवा सदा डां सूधा त पकु रां छे:

नां रे ॥ अंवी त पसां प्र री थई छे: तार पछी रांणा वीर पां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n430/mode/1up



realpatidar.com



मे॥आपीने: तेना॥अंगापांहि श्रीफर संन: नाथेनु रुठ
नो द्रिछे: तारे ते रांनापार पांपनो: हैं हानो सरवे रांगतो
गे॥आंछे: तेनी फुा॥आनो सरवे: गपत्र फाठ द्रितरी गे॥अ
छे: तेना फुा॥आतो सांपफुपानो पईछे: तारे रांनापार
पापनु: सरवे पांपनो द्रिछे: तारे ते रांना पार पांपे तो:
घार पांहिथी रुठनां पांहिर फुाद्रिछे: तारे रांनापार पांप
तो: सेफुनां फुपालोगां छे: नो हवे॥अंपे तांहि रोन: ॥अ रुठ
नी संपाफुरीने: पर साहलई सु: नारे॥अवोप मारफु
द्वांछे: तारे ते रुठ तोनो पपईग द्रिछे: तेने सांतांहिपनी
परेता: ते रांनापार पांप पांसेथी: फुरलो॥अ फुपंथ सां

realpatidar.com

realpatidar.com

लां छे: तांहां श्री ब्रद्द दर सभाधदि छे: ते श्री गुरसंननां
धर्मातां: ते जाहेनां धदर सभावेया अहे छे: तारे रांनावा
रपांधावेया लांगा छे: नारे श्री गुरसंननाथे: दर्ष आ
तव्यठांहुतां: तारे अधारे आलया: नन रदे ख्यतांहुतां:
तारे तेन पाप सांधार्ईनातनधी: हां सतगुरु: श्री स
तगोर व्यर जायांग्या: ते पण सोहा हो रांना वार पांधा: ने
हो श्री गुरसंननाथने: श्री नारां असागुरांना हो आ
छे: ने हो सोसरगोर व्यरे जा: सभा गुरी पुनां छे: ने हो
अवतार पात्र आंधा ख्याने: वेद पुरांहो नां पर्न पां छे:
अंनेने हो दसांद स गुरीत: सोसरगोर गुर्ख आंसा

realpatidar.com

realpatidar.com



છે: તે જુગના પાપ ગણ્યા છે: તે ને સતગોર બ્રંમા નથી
પ્યા: તે જુગને મુગતા નથી: તે મે સાંઈ સાહેબ ગુના વરા:
પછે તાં સાં ધીરાંના વાર પાંચા: બ્રહ્મા ને પંથ ચલાવ્યા છે:
ચાર ચોથુ ગ્રહ દ્વાદશ રસ સાહા: ॥૪॥ સપ્ત રસ છે: સંપાપતન
પે: ॥૪॥ ❀ ॥ શ્રીનારાયણ ભેસાવાયા: પાંચમાં સાવ
દ રસ સાહાં: ની કળ્યુગ તલભ્યા છે: ॥૫॥ તે મે સાંઈ સાહેબ સ
તગાર: ના રે દોવા પરનગ ત્રીતરાને: ક્રમનગામ્ય છે:
ઈ તે દોડાંની વાત લખ્યા છે: તે મે સાંઈ સાહેબ ગુની પરાણે
પા સતગોર બ્રંમા મંગલકત છે: ને કળ્યુગ આગમ ગગન ચલરા
ત્રીત રૂ છે: ... પરલેનાથ ... પતરબ: ... પંજાબ ...

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n433/mode/1up



realpatidar.com

અંને ચ્યારે વેદનો વારો ફરતો છે: અને તો ચ્યારે જુગનાં
પરધાંન: નાં ધરમ સરવે ઠાલાં છે: કળે તો આજ કલીન
ગ માંહે: દસમાં અવતાર: નકલંકીનાં રાં અધિકારીનો:
વારો આવ્યો છે: ॥ ૧૦ ॥ અંને તારે નવા માંહે વેદનો: વારો
આવ્યો છે: તે કોઇ એ અથરવ વેદ છે: ઝલકાયે છે: ને જો
ઈ આંન જુગ માંહે: અથરવ વેદને વાં એ જુમાલ
સે: માંહે તે નાજવન: ભગત થાસે: આન જુગ
ન ગ માંહે: ઈ સવરને તો આવવાં આ દેખાડે છે: અં
ને પાર ઉતારવાને તો: માંહે કવાં જેકે છે: તે આવવાં આ
નો કળીગત: લખા છે: તે તંત્ર સો કો કો જુનાવરો:

realpatidar.com

realpatidar.com

२०८

नां रे ते बावा आदम जानो: अलाजनो नकल पाथ आछे:
नो बावा आदम तंजो: न सतपंथ नो [illegible] आः अने पांन
नां पत तां जो बां बां आः पं[illegible] तां [illegible] धर्म नो दासो: त जे अ
[illegible] न मा सो: तारे बावा आदम जानो: तां [illegible] अ [illegible] अ सां
[illegible] पार जानो [illegible] छे: तारे बावा आदम: अने पां
पा [illegible]: ते [illegible] सतपंथ [illegible]: आवी ने वां सार [illegible]
छे: ॥२॥ तारे संतान अबलीस: अनो [illegible]
[illegible] छे: ते अनो [illegible] संतानो: अ[illegible] धर्म नो दासो: स
पा सोर नो लावी ने: पां पां [illegible] आलो छे: अने [illegible]
छे नो पां पां [illegible] अ: अने नो न मां: अ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n435/mode/1up



realpatidar.com

जेसां आवी जुं=अी: तारे जां जां क वां=अे तीनां जु हा छे: तां
रे संतान=अवली सेजु हु छे: ने जां जां क वां तं जे: सा जां
रे नां जु हा छे: आ वां=आ द जे परस: ते दासा आं द्वा छे:
ते जारे तं जे पर सा आं=अी: =अे ने नो न आं=अी: ता तं जे
या आवी जुं=अी: आ नां न सतनां जेयां आं=अी छे: पंस
=अे जु सां ने=आ ता आंइ ने जुं=अी: ने जु वां सवाद लां
गा छे: तारे जां जां क वां=अे त धा हि नां: =अे जु दासा लइ ने
न आ सु: व ज़ेशा सारी ने: =अर द्वा दासा आं द्वा छे:
तारे धरसा=अे जु सवाद लां गा छे: प छे तां जां जां क वा=अे:
जं क था=अर द्वा दासा आं द्वा छे: =अे ने ते जां क था=अ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n436/mode/1up



realpatidar.com

२०२५

रद्यो द्यांशाः ते आंवां=आद्दपाने कुांने रांखांछेः=अेरसे
संतान=अंबलासः तोगोआंथईग=आछेः तारे ताआं
द्यांतालाने वातनी पालपाथईछेः ने पां पांकवांनेः स
रतां घंनो पडांछेः तारे पांके=बनअराईलनेः आं द्यातां
लांनो कळपाथे=आछेः ने पां पांकवांनेः न सतपांकिथी
आंरे कुांडानां आंः तारे आंवां=आद्दपे वातनां स्वां छेः
तारे आंवां=आद्दपातोः तांकांथा घोर=आवाछेः ते घरपा
के=आपाने जु=अेतोः पां पांकवां दलगारांई पांसतांछेः
तारे आंवां=आद्दपा फूवालांगा छेः ने तंपाने तो संतान
छे त्रीग=आछेः तारे आंवां=आद्दपातो सर धूळछेः

realpatidar.com

realpatidar.com

छे तां हां आवां=आदम ताः गयां नकळंकीः तारे आवां=आ
दमतांः सपा सरनो=अेक धर्मनोः दासोनो वांने मांन
धरुं छेः ने कपो दासो छेः तारे मामां हवां=अेतांः ते=अर
धांग धर्मनो दासो लावीनेः आवां=आदमनांः मां डा=आ
गया मेलो छेः तारे आवां=आदमतांः =अर धां धर्मनो दासोः
तेनो हीने या आयो छेः तारे धसां=अेक सपा दलो गो छेः
तारे आवां=आदमतांः ते=अर धां दासो आयो छेः तारे आ
वां दमने सर तां धनो पडो छेः तारे मेहेवन अरां इल
नेः आदां तालां नाकळ मथ=अो छेः ने तेने आवां=आदमः
...ने मां मां हवां नेः तेओ हुने सां ने न सपां हे धी आरे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n438/mode/1up



realpatidar.com

२९०

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

परप्पतद्गुपरथी: प्पांपा=प्राहपानुप्पीनः गडतग

दकुनईदरी=प्रांपांफिपदर्छः तप्पीनतीपाछसी=प्रेग

पाछः तेनांतांनाथपाछदरथे=प्रांछः तेपांफिपी=प्ररधु

प्पीनः तांगांप्परपांफिपदर्छः तेनांगोरप्पनतीथे=प्रां

छः तेतंपे सुर्गांफिपुनीपरीः तारेगोरप्पनतीतीः स

रर्पलांकुनीगा=प्रांप्रारेतांकुतांः तारेतांफिफरतापर

तां: नाथपाछदर=प्रापांछः तारेपाछदरनाथः गोरप्पनं

फुपांलांगांछः नेप्पयांगोरप्पतंपेः गा=प्रेनकुदकु=प्रं

पानंपांसीः तारेगोरप्पनतीफुपांलांगांछः नेस्पाप्री

तंपेः पाजुनांपाफुपनांसछः तारेगोरप्पनांथः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n440/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n441/mode/1up





realpatidar.com

=आसरावे सरा: =अने द स जा =अवतार: पांच =आज
खाने: ने कोडरखे सरनख· तप दसदसपरीत =आल
से: तेणवजुखजुगतथासे: तेता =अजारां परीयांजसे
सके: तंजे सोराहा जुनावरी: त आवां =आद्दजने: जांजां
कवां: तेणेकुनांसाजाजाने: सेलां सांपरखतदिपरे: =अ
कुपगा द्विजांरकाने: =अ कुसांवर सलगा: ख रा तपसा
कुरा छे: २०० तारे खांदातालां: जेरवांनथ =आछे: तारे
जेके =नवअराईलने: खांदातालां नांकक्रुंजाथ =आछे: ने
आवां =आद्दजा: =अने जांजा कवांने: तंजे नसतजांके तेडा
ांवां: तेजेके =नवअराईलने: तेडवा जांकुलां छे: तारे

realpatidar.com

realpatidar.com

२९३

सेतांसापरव्यतहिंपरे: व्यांवा=आदंपानु: सांडाव
सा हाथनु: =अंकुपगाल्हपहिंछे: ॥ ३ ॥ =अंवाव्यकुपग
लांप=आछे: ॥ २ ॥ तव्यांवां=आंदपानें: =आंनेपांपांक
पांने: तांनासतपांकतेडगे=आंछे: तांहांसरवेकेहु
लांकुपाधीने: तेपांकेथी=अंकुपगालु: लंकांपाकेलहा
नहुने: तांहांनहुनेपूनवालांगाछे: तेनेंसरवेलां
कुहुसपरवकेछे: ॥ १ ॥ तांहांसरवेपुसलपांनपपा
नें: तेपांकेथी व्यांनुपगालु: पकांपांकेलहुनहुने:
तांहांपूनवांलांगाछे: तेनेंसरवेपुसलपांने: तां
व्यांवां=आदपकेकेछे: ॥ २ ॥ तेपेसांसांहांपुनीप...

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n446/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

realpatidar.com



पंसा=आनंकुजानंगजानि: वेदनोवारोफ्फारोछे: =आं
नेईसपरन्नु: नांजपसाफ्फरूछे: तारेईसपरनो
नेप्पफ्फरोछे: तांनांप्परेपां·वीसनवन्नु: रूपफ्फरो
फछे: तारे=अपारवेदनोवारोफ्फठोछे: तारेईसपर
नुनाजातां: प्पावां=आदजाधरूछे: तवासतेथी: तेना
प्पप्परवीसपां: रांजानेनथी: वकातांप्पावां=आद
जातां:=अजारापरगे=आछे: तेनीपंसाप्पप्पर: वी
सपांरांजानेनथी: तारेवीसपां रांजा=प्रेतां: ईस
परप्पोजपवाने: घसांघसांवप्पारकुरोछे: तईसप
रनंघासु: प्पोजांछेपंसानंडांनका: तारेवीसपे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n447/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n448/mode/1up





अपरनेनाः श्रीनारांअेसावांयाः ने चार संगना कहुं
गतछेः ॥४॥ तं अे सोसाहा सतगाः तेपथरनोसंगकु
रीनेः नां अेपांघालोछेः तेने थावरसंगकहुछेः
तारेवा सपेरांनाअेतोः पेलाथावरसंगनाः सवाकु
रवापाठाछेः तांहां सवापासाभावंनाः अंदनदाडीहां
पाछेः ॥१॥ अंने भावपीवसरवेतानजुरछेः तेवा
संपेरांनाअेकअंतेः थावर संगना पुनाकुरवांजे
ठाछेः तेवा सपेरांनातोः छनहनारनगाषीसाथेः
तांहां तपकुरवाजेठाछेः ॥२६०००॥ तेनांअेगापांकहछ
नु हजारः नगाषीपावांछेः तेसरवेनेपांनईछांः

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n449/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

२२५

रसांननाथि=आं: प छे=अेमज तेनो पवाडो थि=आे छे: हो

सतगुरू: पेलाथी ववरलंगनी: सवासपुरसा छे:॥१॥

॥ श्री नां शं=अेसावां आं: आ ना सवलंगनी: ह

आगतलंआ छे: तं जे सां सा हो सतगुरू: वजीआ नां

सवलंगनी पां सें: आवंन दाडां सुद्ध: वीसवेरा नां

=अेमज संत: ध्यान दुरावं ठां छे: ॥पद॥ तां हो दाडा सवां जं

सा: आवंना संदन हां जे छे:॥२॥ तेवी सं वे रां नां तं: =अ

न पां सातां न जुरी आवं ठां छे: =अेमज पं ने थाइ सवलंगना:

सेवां जुर वां जां ठा छे: =अंनेवा सवे रां ना =अेतां: आवं

न दाडां सुद्ध: ॥पद॥ ते छन्द हना रन गापीनं: पंन छे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n451/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

२२७

लगा॥३॥ पी संप्रे रांना ऐत पसां पुरी छे: तो पंथ
ईसपर: पर सांन नां थे आं: तेना तो पंथ पंथाडा
पे आ छे: का सतगरू: पीना सपसंगनी पूजा:
स पूरसागा छे सहि:॥२॥ ✿ ॥ श्री नारां प्रेकापा
आं: पी नानं गपी संगनी: कलीगत लखा छे:॥३॥
तंप्रे सां सां का सतगरू: तारे ते पी सप्रेरांना आं:
श्रीनानं गपी संगनी: संपाप्रापुरी छे: तां कापा स
प्रे रांनां तो: अंनपां सा तानपुरी पंथ ठां छे: तेनगा
प्री संगपांसे: पी संप्रे रांना तो पापनदाडां लगा:
एपुपग गि नारकानं: पप रां तप पुरी छे: ॥ पप

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n453/mode/1up



realpatidar.com

तारे वीस पीरांना तां दीदारः सवा पारसा ल्यां वंना
संदन तलंगपांसे हिपेछेः तेरांना तां छत्रुहनारः
नगपी साथे तप सांध्रे छेः ॥ ९६००० ॥ नारे ल्यावं
नदीदां पूरांथ अर्पा छेः ॥ पर ॥ अने वीस पीरांना
नांतप पूरांथ अर्पा छेः तारे वीस पीरांना तां हिंठां छेः
तारे पछी अे तां वीस दीदार सुधीः ॥ ५३ ॥ छत्रुहनांर
नगपीने पांडां छेः ॥ ९६००० ॥ अे नां नगपी लंगनाः
नांपल ख्यां छेः तंपे सां सां हिं भ्रनां पारः पवं भुं
रं अेः पंदतेलां ध्रांन पां अे वांनां पतं सारवेः
गभ्रुने न पां वां छेः अने अे वीपूर्णा ध्रुरा छेः

realpatidar.com

realpatidar.com

२९८

तोपसावीसप्रीरांनांनः ई सवरपाणानही:॥ऋषीवाचसा

परसलगासेवाकरीछेः॥३॥ पंसातो॥ऋई सवरःप

रसननथ॥ऋा:॥ऋषीनांनंगापलंगनीपुनां: सपुरसा

छेसही:॥३॥ ॥श्रीनारां॥ऋसेवांयां: यो था॥ऋायां

रलंगनी: हळागतलखीछेः तंपंसेहाहीसतगरुः तां

रंपदावीसपंरांनातोः योथा॥ऋायारः लंगनीसेवा

पांहछेः तंवीसपंरांनातोः ब्रिद्धिपसगतरहानं: व्या

वनदाडांसद्धीतपकरीछेः॥पर॥ तांहांवीसपंरांनां

तोः॥ऋंनपांसातानकरीपहींछेःतेछंकुहनारनगं

पीः साधीतपसाकरीछेः॥ ९६००० तारेआवन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n455/mode/1up



लगी:॥ पर॥ सवापसाव्यावंनो: यंदनदाडफोपेछे॥ पर॥
ते=आ योरसंगनी पूर्णाकूरेछे: नारतेवासपेरांनांनो:
तपपूरांथि=आछे: तारपछी=चेताजासदाडालगी:॥ छ॥
वीसपेरांना=अता: छनहनारनगाजीनजांडांछे:॥ रह्र॥
ने=आवांआरसंगनो: नापसजाछे: जांफांदेवयनांगः
जांफांदेवजांजगः जांफांगांनांनवंताः पापपरफरोः जां
फांपांपफरा फांदेवंनः श्रीजांफांदेवंगः नजांनजाः=अ
वांनापसरवेः नगांजीननजांवाछेः तापसावासपो
रांनानः ई सवरपजानफीः=अवाचसावरसलगीः
[illegible]यारसंगनी पूर्णाकूरी छेः पंसातां=अई सवरःप

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n456/mode/1up



realpatidar.com



रसनाथे=आनंद: पछे तेना आर पडां थ=आछे: तारेवा
सपरिरांजातो वधासीने: धंनधांदेव आरधरांछे:=अ
नेछ नरहनार नगाधी: सरवे दिहोने: नेरले नर सतगा
र=आपाछे:=अे पी=आआरलंगनी पूर्णी: सप्तरसाछे=था
=अेवा आरलंगनी: सेवा सप्तरसाछे: संधापतनवे:
॥४॥ हो सतगुरु: श्री सतगोर रूप रंधावायां: होस्यापीनो:
नेनर सतगोर: पी सपरिरांजाने धपांछे: तेनी हद्धागत:
नहि देवनेनां=अरनेनो: श्रीनारां=अेसा वायां: तेने सो
सांहो सतगुरु: तारे नर सतगोर तो:=आसे धन पांरसा
थी: देव रूपे धईने=आवाछे: तेना हाथपांहे=अेक: ...

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n457/mode/1up



realpatidar.com

ए पालेमरूपे=आवीहोता: ते=अेकुभूनेलाकडपा रांने: प

छे पालीगे=आछे: तारे वा सपेरांनाने सरवेनगांपा: नाद्दव

सांघ पांपशाने: तेडवानेकांनेद्दागे=आछे: तेनईनेतांहां

पगेलांगा छे: तेने पांलखा=अेवेसारीने दारेलावां छे: तेघ

रपाहेलावाने: सा घासमांवे सारां छे: तांहां पेलांनगांपा

ह्निठाने पपां छे: प छे सरवेनाद्दव: ह्निठाने पपां छे: तारे स

रवेनगांपा कुवालांगा छे: ने वासपेरांनातावेरलाछे: ते सर

वेनगांपापशाने: ने म घांभाने दारेने पवागे=आछे: नारे तां

हांनईनेने पावांवेठां छे: तारे तांहां नईने गपांपां हि: नी=अेतां

द्दरससानथी: तारे ते सरवेनगांपी: =अेकुभीनानापा

realpatidar.com

पुनी वासांगा छे: तारे नर सतगोर ने: पा स पीराणा पीरुना
सां: अे पु आे रडापा हि पी ठां छे: तारे सरवे दर सरमाने सागड:
त नर सतगोर ने: पा स पीराणा पी ठां छे: सरवे तेनां अंगां पा
हि आवां छे: तारे नर सतगोर सरवे: नगापा ने दर सराः सा
गडपां छा आसां छे: तां हां ते सरवे नगापा: नर सतगोर ने
पगां: सांगाने कुल पी पडवा सांगा छे: अने तां हां कुरु छे ने: हक
सो अे सां हां ईलसा हि: पहिपा दर रसकुल सा हि: अने सरवे नगां
पापणी ने: तां हां अे वां नाप नपी छे: तारे पासपीराणा अे:
पां सा सपां कुलीने: नगां पी तेडावी ने पूछ छे: नां हुआ तें
... दर सरा: पु हां गां आं छे: तारे सरवे नगापा पुवा सांगां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n460/mode/1up
2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



छे: नो दीप रूप प्रभ ठां छे: ते दीप पांसे अंधारां दर सना गे आं
छे: तारे सरव पनगपी: ना दप प पानी फ वालगा छे: स्वामी
ना अंधानो: दर सना आपो: अंनो दी वारदे आंडा: तां हांसर
पनगंपी: ह ठीन प्रभ ठां छे: तारे नूर सतगोरे: तां हां अफ हफ
पात फरी छे: ते तंप सोसो हो फनावरो: तारे अफगा अकांप
दसा: अस पांनथा हितरा आवी छे: ते फांप दीन गा अतां: स
रव पनगंपीनो: आर वालागा छे: नन आरे तेहारा नो: तां हां
था हि ठीना अे छे: अे पा फर ता फर तां: सरव नंजा तां: हा
री नो हि ठा गे आ छे: प छे तेना अे गा पां हे: अस नंगं पा तां प्रभ
सा रे हां छे: प पा त पा ह था अ फ न सो तां: आर तां

realpatidar.com

पराजे=आछे: तारे पछे वीस पीराणा तो: नर सतगोर नें
कुपासाजो आछे: नें सावांपीणा: हवे व्ये द्विनश्रा नें हेहारकु
रावो:=अंने हर सश्रा=आपो: तारे नर सतगोर तो: वीस
पीरांनाने कुपासाजा छे: नें हर सश्रा ना वे पातो वहाग
ई छे: हवे तं पी=अलो कुम्पे: पार श्रापां है=आवणो: तां हां तंप
ने हे हार कुरावी सु: =अंने हर सश्रा=आसी सु: तां हां नर स
तगोर: वीस पीरांणाने कोस=आसो छे: =अंने=अन पाणाप
नश्रावो छे: तां हां नर नों पतो वीस नव:=अंने गोरनांप
तो: संसर गाउ: तने=अवे वाको स तां हा=आसो छे: =अंने फल
[illegible]नां पन श्रांवा छे: प छे वीस पीरांणा तो: नर सतगो॥

realpatidar.com

२२२

रने पगे लागा छे: तारे गुर सतगोर: वी समे शंणा ने प्र
णां छे: ते वात ने =अंकुसा अपने: आषा सहनआर: वरसथ
=आ छे: ॥ १४००००० ॥ होवा परनंगानी नकल गत: तंणे सुक्कां
फुलनी वरषा: ते सव लंगता: सरवे पखीने: =आसंणप
रन्ना लेई गे=आ छे: ना रे होवा परनंगनां: =अंकुसांपने आ
णी सहनआर: आक्रावर सरहां छे: ॥ १४००००० ॥ तां नहां थासा
वदरसहा: ना अंवधे=आ छे: ते सव दरसहानी: वेणा
तां वहीगाई छे: ते घर पां हे द्वानी नथी: ते सव दरसहानां:
घर तो ठांलां छे: तेना घर पां हे अरंपान थी: ते ठाला घर
पूणे: ज्यवन फ्रमन थी: ना सतगोर अरंपा पणे

https://archive.org/details/bk177/page/n463/mode/1up



वनें जुग जुगत था ए: तो सतगुर: एपां चजु इदरसलाम
सपुरसाछे: संपापतजवे:॥५॥ ॥श्रीनारा एसाप
आ: छ गातां सोपी इदरसलानी: तजागतल रवी छे: तंपे
सोसा तो सतगुर: आदपुरसने चार जुग छे:॥४॥ तेज
नागतां अरंपां: ते आदपुरसनो परवार: तेना पातां प
तांनो परवार: तंपे सोसा तोजु नीवरो: ते सतगोर अरं
पानी: चार जुग थ आ छे:॥४॥ तेने सरवेजु सल पानी:
तो चार जुर सो जुते छे: पे लांना पतांन अपाकं पाइ:॥१॥
अेन अअइसा:॥२॥ अेन पातल अ:॥३॥ अेनकां सपा:
[illegible] ए वा चार जुग अरंपां ना: ते चार जग पा कि था

realpatidar.com

realpatidar.com



आछे: ॥४॥ पेसा कुरताने गपाकि: सतगोर नु पापता
आरंभा: ते सतगोर आरंभा जो: ताहां आगत जरलो
नो पुछे छे: तेने सरवे कु सलपांना: आने रांपा पेगाआ
र कु कि छे: तेने ता रात कु ताआप ति त रा छे: तेने सरवे कि
सो कु: आंने सतवा हा सो कु ते: र ध्यु वेद कु कि छे: ॥२॥ तं
पे सो सां को कुनीवरा: आंजा ते ताने गपाकि: सतगोर आ
र पां कुनां पाता: गोर यर्न सर पा: तेने सरवे कु सलपा
ना: ई से रु कि सां कुकि छे: तेने आज र कु ताआप ति त्री छे: तेने
सरवे कि ह्र सो कु: आंने सतवां हा सो कु: तं कुनरये द
कु कि छे: ॥२॥ तं पे सा सां को कुनीवरा: आंनां हावां पर

realpatidar.com

गपांहि: सतगोर नुनां पातां:: गोर वादरवे आस: ते

ने सहुके सलपान लोकु: तेजु सेजु रीपसां कहे छे:

ते दिने नें अर जुतां अदितरी छे: तेने सरवे कादु लोकु:

तेने सतवादा लोकु: तेने साप वेद कहे छे: ॥३॥ तें पे स्र

गो कोजनी वरी:: आ नजु पान गपांहि: सतगोर अरं

पानुनाप तां:: नअप पहें पादः तेने सरवे जु सलपान:

ते आअ राद नें पानां: पेगा अर जुहे छे: ते दिने अरजु

न जुतां अद्वित्री छे: य पा ते दिने ईपांपने सापु छे: तेने

सरवे कादु लोकु:: आंने सतवादा लोकु: ते अथरवे

[illegible] हे छे: ॥४॥ ते गोर नअप पहें पाद: मारे पडदे मेंआं

https://archive.org/details/bk177/page/n466/mode/1up



realpatidar.com



छे: तारे ते पासे प्रहर सरणा: नो नी प्परे को छे: ए भने
ते गोर नाथी पा कपाद: पांसे था छत्रू पासे प्रे: दर सराध
छे: तेना घर पां कि प्परे पानथी: तेना घर तो सरवे ठां
लाछे: ने ना घर पां कि द्वरानी ना को ए: ते पां क्रूट पूर्ण था:
जपन ने कृष्ण न की: नो सतगोर प्परपांजा: प चि तो जा
पन कृगतथा ए: ते पासे प्रहर सरणा: स पूर सा छे: ॥ ५ ॥
॥ ❀ ॥ श्री सतगोर प्परे पां वांचां: को सवापा जो: श्री ना
रां ए सरा वांचां: ए भने र सतगोर ना गोठ स प्पा छे: तेना क
कृगत: तं पो सांफल्या को सतगरू: नो रे ए आन कृपा न गा पां कि
पर भ पी ना पा द्व: नो प्रूहा पन ने नर तम्मं कि छे: तांडां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n467/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

वातमांडी छे: तारे गुर सतगोरतो: तांहां सातन आंप
मीधापां छे: तेने ना पदरपा आवस छे: ॥७॥ तारे सा
त पामीने हेवे: तांहां घस्गी अंकपरपोद आवेलो छे:
मांझी आतं पीने मातीयां हां: अंने दरंपवदारो:
॥८॥ ते सांत पामीने अंपू: गुर सतगोर गुः पारमां
न थरी छे: ने मांई आतं पीने मातवदारो: अंने मा
ती आ दरपपर कांसो: ते सात पामीने अंबो: गुर
सतगोरे: तांहां कगुप आवेलो छे: ते सात पामीना: मा
पसमीयां छे: तं पे सो सो कोपजनी वरो: पसातां गुरस
न जरपामी: ॥९॥ मीनातीना गादेव नरपामी



https://archive.org/details/bk177/page/n470/mode/1up





સપરીનગરમાંહે રેતાંહોતા: તે આંગદેરાંણાતા: ધરમાંએ
ગુપતપાંની: સેવાકરતાંહતા: પછે ગોનાનદેવપાપા
તા: એમ ગુપઆચારકરાછે: ને ઈસવરની પાટદીપરે:
પગાદઈને દીનારહાંછે: તાંહાં એવા ગુપઆચારકરીને:
તે દીપરસતાછે: એમ રતેરાણાં આંગદેવ: તાંહાં આવાં
છે: તે આંગદેવરાંણાતા: નોઈને ગુવાલાંગાછે: ને
મલાંપાંહાસતા: ઈસવરની પાટદીપરે: પગાદઈને ગુ
પાસતા છે: પછે ગોનાંનદેવતા ગુવાલાંગાછે: ને એમ
પગારાંપાછે: તેતા દેવનથી: દેવ હાંએતા ગુંપાસેન
હા: તારે રાંણાં આંગદેવથી નવાં પરહેવા એંનહા:

realpatidar.com

रांना आंगा देव तो वांद्या सा छे: पछे रांना आंगा देव
ता: गोनां न देव फरसे पगे लांगा छे: पछे ते गोना न देव
पांसे: पारं ता फरे ता ना गा देव पट = आवा छे: तारे
सखांन देव: गोनां न देव: फगता ए देव: = अंनवा
ना सरवे: दरपी लोक पाणी ने: तांहां देव नो गात फ
र तां कुतां: ते वे पां = अनां पा देव = आवा छे: तारे फगतां
ए देवे ता: देव नो गात छ पांज छे: तारे ना पा देव ता
फवा लांगा छे: ने तां पे सरवे पाणी ने: सखां पा फरा
छा: तारे सखांन देव ता फवा लांगा छे: ने = अंपे ता
नो गात फरू छः तारे ना पा देव ता फवा लांगा छे:

realpatidar.com



જેમલાતંમા રાદેવનોગાતછેઃ નેઃઅંમનેદેખાછપા
ડાછોઃ તારેમોગાતાઈદેવકેવાલાગાછેઃ નેગારગત
નીવાતઃઅસલાદાછેઃ ને દિનેતંમેમાનોછોઃ તેદિનેતંમે
પુછોઃ નેવાત સાંચાછે કેજુઠાછેઃ તારેનાપદેવતો
મોતાંનાઃ મોતાંનાદેવનીગાગતાસેવાકરેછેઃ પછેનરસત
ગારતાઃ શ્રીગુરસંનરૂપલઈનેઃ તાંહાંઃઆવાછેઃ તારે
નાપદેવેતાઃ શ્રીગુરસનરૂપનેપુછછેઃ નેસવાંમી
જીઃઅંગુનાપદેવનીવાતછેઃ ઃઅંનેખાજીગુગતાઈદેવના
વાતછેઃ તેખેદિનેસાંમાંહઃ વાતકેનીસાચાછેઃ તેતંમે
ગુહોસવાંમીજીઃ તારેશ્રીગુરસંનરૂપેદેવખો

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n473/mode/1up



realpatidar.com

ने प्रगतांइ देव:=अने गनानां देवप्रकछे:=आनतेवा
तसासाछे:=अंने तारे पाथी तो गोरपंथा नथी:=अंने
कतां नोगरोछे:=अंने ते तो गोरप्रखाछे: तारे नापादे
वतां कुवालांगाछे: ने स्वांपा=अंपो कोने गोरकरी=अं:
जे नेतं पोकहा: तेने=अंपो गोरकरी=अं: तारे आकरस
नारूप देवप्योलांछे: ने प्रगतांइ देवप्रके: तेने तंपो गोर
करा: पछे तेनापादेवे ता=आवानें: पोगतांइ देव:=अं
नेगनानदेव: पांसे थाद्य रंपलाद्याछे: पछे नापादेवे
ताद्यरंप: लइने पलीछाडांछे: पछे तेसातो पोतांनी:=ने
...नवद्यारीछे:=अंने वपाव्यहुकरीछे: रांनां रांपादेव

realpatidar.com

नीवातलख्याछे: तंपी सोसाहेब नावरो: पछेनांग
देवनारः अंने कर संनानरः ते ब्रहुर्न स्यातेके पासां
गांछे: ॥२॥ ने अंपी स्रुने वातेवा: ने पर पोदीस: तांहां
अपे वृगांपांन करुछे: अंने करुकछेने: अंपी ता पां टां पां
टां: रांनां पर पांदीस: ते नाग देवनारे: अंने कर सं
नानरः तांहां ब्रहुर्न स्यागपांन करुछे: तांहां अपेवाजेना
न देव साथे ब्रासकरीछे: अंने तांहांथी अवगायां
सीनीसरांछे: ते त्यारे पांचेनां अकः प त्यारकरीने
नीकलांछे: ते तंपी सो साहेब ब्रनावरो: ते पार ता पर
ता ब्रहुर्न स्यां: नागर दास तां वादपांहे गंअपा छे: ते

https://archive.org/details/bk177/page/n475/mode/1up



realpatidar.com

रदासतांवांदुआंकेतां: रांजारांजादेवरांनवरछे: त
नगरआकेर्इनेरेकां छे: तद्रिसा रांजारांजादेवनो: तांकां
परआदांछे: तारे रांजारांजादेवे: नीप द्वरंआसाद्वाछे:
ञ्रांने क्रेवालांगा छेने: सरवे संसरनां गोरखरंआं
छे: तेनरसतगोरते: ञ्रानघसा देवा नवसारीआं
कके ठांछे: ञ्रांआतोतद्विनांआेकलां ञ्रावांछे: पंरातंआ
रांने ञ्रांआरो: गोरतो सतगोरनरछे: तांकां ञ्रेवसा
सत्रसनआवीने: रांजारांजादेवपरआदांछे: तारे
करसंनगरतो: गोरखईनेके ठांछे: ञ्रांने गेनांनदे
[illegible]रतो: परद्धांनथईनेके ठांछे: तेके कुनसो तांकां

realpatidar.com

अेवु ज्ञानम सांभळ्यु छे: ते रांणा रांणदेवने घेर: अे
क सेवा करती: ते सेवा थें करु पांणी भरती: ते हती सती सांरा
स्वरुप करती: पण छे जे ख्या कुर संनगर तो: ते वेसा सदिपर
आ सकल भआ छे: ते वेसा नाहा कुरा साथे: तेनी प्रीत ला
गी छे: ते थें दिन रातने प्रीत थई छे: तारे ते कुरसनगरनुं:
पांपतां आं करवयु छे: तारे रांणा रांणदेवे: ते वात नारवा
छे: तार पछी रांणा रांणदेवने: नागदेव जाण्या: ते थें
दिन रात वीने: कुरसनगरने: सो खाणा कादेवा आ
पां छे: अंने सो खांणा कादेवा सांगा छे: ने कुर संनगर:
तं जे ते तो कांआं छी: आप सों अें वा जुहा संगत: अंने

realpatidar.com

पछ्यांप छे: तेथी पंग पायासी ऐ तो सारु छे: तेमजे
यांपे आपणे ज्ञानव ने छुटरु ज्ञानथी: ए पेन पाया
पज्ञवर्ण: पुण्य पुरातन नानथी ए: तंपान ने सरवने
साथ्यां पसाहादीनी ईऐ: पर संनाप र तंपे तो: पुत्र
थई नपे पापुसो छो: तारे पर संनाप र पे वासांगा छे:
तंपे अंपान ने सु साथ्यां पसा देवां आवां छो: अंपे सु ए
वां ने दान छई ए: ने अंपारी सुपपग छे: तंपे सुना
सा: अंपारा वात सां हा छे: पंसा अंपारी वात ए वी छे:
ने अंपे ती परपे सर पे वांई सु: तंपान ए वातना प
नथी: ए पे सांने पेर आवता सुथई: पंसा ए

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n478/mode/1up



realpatidar.com



वे सांनथी:: =प्रेवात=प्रांजेपरजेसरे लखी हसे: तार
प छी रांनारांजा हे वकुवांसांगा छे: नेत जे नागा हेवन
र सान कांवात:: =प्रेरला हाडां कुरसंन नर कुताकुतां:
ने नुर सतगोरतां: सरवे सेसरना ध्रुला छे: तेनु
र सतगोरतां: धरा हेवानव सांरा जा हे व्रेठां छे:
ते हिना जांकुलां=प्रंजे=प्रावां छे: हवे तां कुरसनन
र कुहे छे: ने =प्रंजेपरजेसर छे: तारे नागा हेवन
र कुवां लागा छे: ने रांनारांजा हेव: तेजे परेव
सवा सरां अनां:: =प्रेकुरसंन नरतां न अपारे छे:
=प्रांने सरवे सेसरना ध्रुलातां: सतगोर नु

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n479/mode/1up



तेनूरसतगोरतोः घरमाहेपीनपसारीः अंछेः त
पामानरव्ये ठांछेः नांईः अंः अंपेतोतेदिनांपाकसा
आवांछः तांमांरांनारांजाहेपः अंनेनागहेपनारः
तेप्येदिनसाजाधीनेः सोप्यापसाधसाहाद्याछेः पंसा
तेपूरसंन नरेतोः सोप्यापसानथीपांनीः तेतेजे
सोसाजनीपरोः तारेरांनारांजाहेपतोः पूरसंनना
रनेकेपालांगाछेः नेतेनेघरफ सफनाः अंः हपेनु
रूपामालईनेः अंपारांनगरपामेधीनाः अंः नामी
तांसंघपालोपूहेभ्यंतोः प्येईनेतपूरीनेः प्या
जाजपेलीसूः नेनूरसतगोरतोःईः अंछंईः अंः

realpatidar.com

realpatidar.com



सरवे संसारनां ध्यानी छे: तेना नाम वासतां नें=प्रेवा
फेपाई=अेछई=अे: तारे रांना रांणदेवे तो: तारे फर
संनगर:=अंनंपे सांनी दीफरो: तेप्ये ध्वन सांनेन
गरदां लसबाद: पाकीथाप्यारकाडी लां छे: पछे तांनां
धीतां फर संनगर: दुपीगापपांकीनईने रहां छे:
तारे तांनां फरसंनगरे: तेवे सांक नापतो: नद्दवा
प्यांई रांप्फ छे:=अंनं पोतानं नापतो: परपंसरफरा
पूनां फूछे: तांनां फर संनगरे तो: सफांप फरू छे: ते
तंपं सां सां हां पानी वरो: तारे ते=आप्पनः=अेफ=अन
न पंडीपफरू छे: नारे ते=अंनन=आप्पपांकीपां

realpatidar.com

रे सरखे ने हे ख्मे: पं सा पो तां नें खोइ ना हे ख्मे: तांहां

=अेवो =अछ तो रहो छे: ते गुर सं नर तो: गु हं सास

त्रवां सवा लां गा छे: =अं ने गु हो पंथ पार गय सा वो

छे: ते गुर सन नर गु तो: पाप ना फेर थई छे: तारे गुर

सं नर तो: तांहां छ ताथी =आ छे: ते तो दे व दत थई ने ख्मे

हो छे: =अं ने दता त नो सलसा सा लो छे: =अं ने वा सन

प साथे था द गुरा ने ख्मे हो छे: ने सत गो र ख्म रं पा नी

पात सामा छे: ते लो गु =आ ग पे गु हो गु रे छे: =अं ने नें

पोतां ना वात गु हो छे: ते लो गु =आ ग पे सा मा गु रे छे:

=अेवा गु हो पंथ सलां वो छे: ने खोजा रख्मे सरसा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n482/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



रनगपांहें:॥अवतारपांच साथेवाहवुरसे: तेतो द

ईतवुवासे:॥अंन सतगोरख्परंपा: नरनारांॲसा

साथेसाचांहसे: तेजगतवुवासे: हां सतगरू:॥श्री

सतगोरख्परंपावांआं: हां स्वांपीजी: नेनर॥अवीय

पा॥अंजरह॥आं: तवोसावोसान रवुक्षा॥अे: तेजेनानवु

हां: ईपनेनां॥अरनेनां: श्रीनारां॥अॆसवाआं: तेपे सा

सां हां सतगरू: ने हां सतगोरनां: वचनपांपाते सता

पे॥आ: नेवुरतांनगपांहें: पांचवुरोजसाथे: रांनाप

रतानसाद्वां: तेहां सतगोरख्परपांनां: वचनपापां

छे:॥अंने श्रीनरसंजनांनापनपांछे: प००००

realpatidar.com

realpatidar.com

त्रेतानजगमांहि सातकरोडसाथे: राजाहरीचंदसो
छुटां छे: तेहीजे सतगोर पनं सरखा: नाव मनपायाछे:
ईमने श्री रामना: नामपन पाछे: ॥ ९००००००० ॥ छोवापर
नजगमांहि: नवकरोडजव साथे: राजाजेनेसरखा
सी छुटां छे: तेहीजे सतगोर वाहरवे ईमासः व मनपाया
छे: ईमने श्री कुरसनना नामपन पाछे: ॥ ९०००००००॥
॥ ३ ॥ ईमानकुजनगमांहि: बारकरोडजव साथे: सव
गोर साहरचान: हरी ईमानो पारउतारा छे: तेहीजे स
गोर ईमाम साहाना: पंथमनपायाछे: ईमने पार
नामपनपाछे: तेनर ईमसलाम सांना हिदार

realpatidar.com

realpatidar.com

२३३

पांमां छे:॥ १२००००००००॥ ने आर कुरोड जव सा दा: आ
न कुंभन गा सं दि: ते ना मा सा ता कुमा पा कुंवर छे:॥ ४॥ अ
ने पा भात्र वेमामाहे: अनंत कुरोड जव छे: ते ना पर ता
मा रहसन सां हांने आसो छे:॥ १०००००००००००००००००००००००००
०००००००००००॥ ते पं सां ह्रां हां मुनावरो: ते सत गोर अरमा:
ना वचन नीगा नीगो सा आं छे: अनंत वषी कुरसं ननार
नी: वात सां ना पां: ते वेसां ना नां मा ता: आर राजा छे:
॥४॥ पे हेलं नमनां मा ता: आई नर मां ह्रां: ॥१॥ बी जु
नां मा ता: आई अरं मां ह्रां: ॥२॥ त्रीजु ना मा ता: आई सं
त मां ह्रां: ॥३॥ चोथु ना मा ता: आई नटा ह्रां: ४

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n485/mode/1up



realpatidar.com

यारनां पसख्आछे: तेनाहूजा आईता: यारहाकुरान
स्याछे: तेयारहाकुरांनांनांपसख्आछे:॥४॥ तेमांसोस्ती
कोपूनावरो: तेमांपेलोहाकुरोतो: हेतआरांवपाकुं
छे:॥१॥ आनोहाकुरोतो: सांगआरांवपाकुंकछे:॥२॥
चोनोहाकुरोतो: यकूरआरापथा:॥३॥ चोथोहाकुरोतो:
गडआरावथा:॥४॥ तेकूरसंनतारनो: आंनेपेसांनो
हाकुरो: नाहूजाआईछे: तेओरेनिसानापेरनां यारहा
कुरांथआछे:॥४॥ तेमांसोस्तीकोपूनीवरो: तेहिस्तेयार
थ: जुगमसावांछे:॥४॥ पेलोहाकुरोतो: हेतआरा
छे: तेसोकुरतानेगानी: कुधसाकुथीनेः जुगांमे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n486/mode/1up





ध अ सलावां छे:॥ १॥ आ नो दाकु रोतां: सां गा आ रांवक छे:
तेसांथे तां नगानी: कुधसा कुथीने: जु ठां पंथ सलावां
छे:॥ २॥ ची नो दाकु रोतां: सकुर आ रांवक: तेसां दीवा
परनी: कुधसा कुथीने: जु ठां पंथ सलावां छे:॥ ३॥ सांघां
दाकु रोतां: गाड आ रांवक: तेसां कुकान गानी: कुधसा कुथा
ने: जु ठां पंथ सलावां छे:॥ ४॥ श्री सतगोर अरंभावां
सां: तेने सां सां कोकुनीवरां: का स्वामीजु: ने पुरई=श्रान
कुकान गमार्क: जो ती=आ पंथ सलावां छे:=अने चार पंथ
सलावां छे: तेनी कप्पु गात कुथां: को दिपनेना=अरनेना: श्री
ना रांके अे सावां सां: तेने सां सां को सतगर कु:=अ चार [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n487/mode/1up



realpatidar.com

जांनेताः सतगोरबरंमानुः = आसलाबरंसलानांनदुः
तद्दिनेश्रीनारांत्रेसानुः = आससाब्रंसलानानदुः पेलाते
कुरतानजगमांहिंजुलाः श्री नरसांहिनासेवकुः ॥१॥ बीना
त्रेतानजगमांहिजुलाः श्री करसांसनानासेवकुः ॥२॥ त्रीजो द्वा
पापरमांहिजुलाः श्रीकुरसांननांसेवकुः ॥३॥ चोथाकुल
नजगमांहिजुलाः श्रीनकुलंकानांसेवकुः ॥४॥ तेनी तीजा
कुलाछे: तेनी तीजा ताः = अवतारपांचनुधारजनांसुः
तद्दिनेश्रीनकुलंकानुः = आससाब्रंसलानुनांसुः तद्दिने
= आससाब्रंसलासतगोरब्रंमानुजुनांसुः तेमाटेनी
कुलाछे; वधा कुरसनजारजनीवात: तंजसोसो

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n488/mode/1up



realpatidar.com



कोमननी परां: ते गुरसनगरने तेतो: परपे सरे गुपत=आ
लो छे: ते स्री नर हां ग्यांन करवाने: =अने वयार पां ट्रां छे: तेसो
=आष्प प्रांहि घाल वांने ग्यांने: =अनंन पांचगं प्रां=आ छे: ते=अ
नंन=आष्प प्रांहि घालीने: नगर दास तवाद प्रांहि: परानग=आ
छे: ते नगर दास तवाद प्रांहि: =अगुइ सवर गुदे दूछे: तेदेरां
प्रांहि इसवर नो लंग छे: तां हां गुरला=अने गुदेवता: देरा ब्रांना
पंसा छे: तारे प्रां देवनी लंग नी पूजा करवा: रांना रांप देवना
रांसा: सूदर ब्राई दाज=आवे छे: तारे गुरसंननरते: =आष्प
प्रांहि=अनंन घालीने: गुरसंननर ते देरा प्रांहि नइने: देव
प्रा पां सं ठा छे: तां हां गुरसंननरते: देवनी पूजर [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n489/mode/1up



realpatidar.com

लखी होछे: ते कुरसन नरने कोई दे खंतान पी: = अंने कर
संनानरता: सरवने दुःखछे: ते कुरसंनानरता: = आखपा
ति: = अने नघालीने वखी होछे: ते से तान = अेरली पर रखी होछे: ते
पे सांरली तीपुनी वरी: पछे तेरली वेपा: = अेता: रांना रांपा दे
वनी रांरली: सुदर व्याई पुना कुरवा: = आवांछे: ते रांरली ता दे
वपनी पुना कुरवा लांगा छे: पछे ते वेपा: = अे कुरसंनानर
व्यासां छे: ने व्याई ते पेता: = अंपारी सेवा नगती: घरली कुरी
छे: ते पार ते पार रे पांनई छाती: = अे: ते पागा: = अं पे पर सनथा
ति: पंरली ते पे = अंपारु कुदकुरी: ता पर सनपई = अे: पछे सुद
…ता: कुवा लांगा छे: ने वारु वारु देव: ते पे कु सात = अं

realpatidar.com

realpatidar.com

२३६

पेकरी सः वधा कर सन्नारतां: कवालांगा छेः ने आई
तेपी अंग आसोः ता अंपी रंग नागकरी अेः अंन परसन
थई अेः ने पंनमा होई छां ता अेत आपी अेः तांहां सेतान स
रुपः अेक कर संननार व्यालां छेः पछे रांणा स्तदर आईः
कवालांगा छेः ने वारुवारु देवतांः अेते करतो कवात छेः
पंरला आनतां अंपी साकपाकनथीः ना आं अंपी घरेन
ईनः साकपाक थईने आवा सः पछे तंपी कसोतेः अंपी
करी सः तांहां अेर तो वात करीनेः रांणा स्तदर आई ताः
घेर गा आछेः ते रांणा तां पंनमा हेः सं तां करीने बेठां छेः
पछे रांना रांपदे वेः तां तेवात नाखा छेः ते तां आ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n491/mode/1up





रे पांन ईछा कीधी=अे तेहागा:: ने=अंजे पर सांन पई=अे: =अंने
रांकात जेनो=अं जाने=अंग=आलो:: ता रंग जांग कुरीने:: प
र सांन पई=अे: तांहां देवता=अे कह्योलो छे:: तारे रांना रांज
देवता:=अे वा वात सांभलीने सरद्धा रूह छे:: रांकात=अे तो दे
वनरी:: पंरकांज्यो ईकू सेतान कह्योलो छे:: तारे रांका सुंदर व्या
ईकू वालांगा छे:: ने रांना=अे वात तो:: प्यार वास रख्यो छे::
तं जे=अे वात नो परतीत करी:: प छे रांना रांज देवता:: नांग
देव नरपर द्धांन:: ने ते डावाने वात पूछी छे:: =अंने रांघप
जेत सांनासी:: पंरकांत डांवो छे:: प छे ते वात जाही छे:: रांकां
सुंदर व्याई=अे:: च साने सा=आगा का कराई छे:: तारे नाग [illegible]

realpatidar.com

र: ॥ अंन रांधव संत संनासी: त व्वहिज सां जजानं: रा
नारांजदेव नकु वालांगा छे: न देव जजाकि व्यासां छे: तके
देव नथी: ॥ अं ता जाख्यांकु संतांन छे: रांना तं ज ॥ अ वातन
ज रांख्यां: कि जसां ॥ अ ॥ अ धोरीन पकुद छे: रांना तं ज कु ॥ अ
ता ख्यरां: पछे त हि सां ज्ञासा न सां जजानं: रांसा स्वह दरव्याई
नं: सा ख्यां जसा दादा छे: न रांसा ॥ आन तं ज व्या वार: देव
जे फुनाकु रवानां ॥ आं: नारे ते संतान व्यासे: तारे तं ज के
नांनं: वारु वारु देवता: न तं ज कु सांत कु रा स्व: ॥ अ वात
कुकि व स्व छे: तार पछी रांसा तं ज देवजानां: दरवानां दईनं
॥ आवनां: तं सां ॥ अ वा सा ख्यां जसा दहीनं: रांसा स्वहदर

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n494/mode/1up



realpatidar.com



આશોનઆીને દાડે: દેવપાના ખનાકરવા પાકલાં છે:
તાંહાં કરસંનાટ: સેવાનઆોલાં છે: ને રાંસા તંપાવાં
તપકાઈ છે: તેકરસાંકુનસા: તારે રાંસા કેવાલાંગાં છે: ને દે
પતંપાકેસા: તે=અંપાકરીસ્ક: પંસા=એકવારદારનઈને:
સાસાદારકરી=આપીસ્ક: તારપછી તંપાકેસાતેકરીસ્ક: તે
રાંસા સુદરઆાઈતા:=એરલાવાતકરીને: પાતે દેવપાથી
આહિરઆાપાં છે:=અંને તે દેવપાના દરવાના દાદા છે: તાર
પછી ઠાંપા ઠાપાથી: સંદપાંપાંસા સપારીપપા છે:=અંને
કરસનનાટતાપાહિરાકાઈ છે: પછે તેના=એગાપાહિ: રાના
રાંપાદેવ:=અંનેનાગદેવનાટ: તપારાંદાપસંતર [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n495/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

अने एक सानसां पापीने पां सेआवां छे: प छे तेना एगापांहे:
सरव नगरनां लोकनो पांप प्रां छे: प छे तेना एगापांहे:
तारे तेरांनां रांप देव कुवां सांगा छे: ने ते पो कु काळ कर सनना
र: देव कु प्रा प्रोस तां: ते प्रा ने देव तां परसन: सारी प ठे
पो एआं छे: तारे कुरसंन नरतां: नी गुनांइ ने पे ठां छे: तारे
रांनां रांप देव तां: सरव लोक ने कुवां लांगा छे: नांइ एप्रोतं
पों देवनी पूनां रूडा प ठे कु रो: ने देव परसंनां पांएए: तारे ते
कु रसंन नर नो: तो पांरां ता पां रतां: पे इ ने ते कु रो छे: एअं
ने घरमां कु एमन त कु रो छे: नारे ते कु रसंन नरनां: नव घ
रमां एआ कुपां: वां कु पान एआं छे: एअं ने नवनी कु पवांप [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n497/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

२५०

रहासताशाह पाहेथा: कर सांन नरने ता: जा पी पा रह्या
लीने हु पांडा: दुपी गाम पाहे लईग=आछे: तेनी ख्यबर स
रवे: लोकने थई छे: ने कर सांन नरने: ता नली ठारप
डा छे: रांना रांम देवे तां पारा ने: धर्म पण जत्थाईने तक
रां छे: तेथ सरजन ने आहेरखाजा पेलो छे: तेकर सांन नर
ने: रांना रांम देव ता: ठांम पारे ताहु तां: पंथना गादेवन
रे पेला वा छे: तेनी सर वे लोक: पाहे ख्यबर थई छे: श्री
सतगोर ख्यर पाथांआं: तेपे सो सो हे पनीव रो: नारे ते
न कर सतगोर: पड देथे=आछे: तारे रांना पां लखाईने प्रद
आया पाख्या गोर सां थे: थई पांन थे=आछे: आं ने

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n499/mode/1up



realpatidar.com

सु पंतपांनी नांगा छे: तारे नुर सतगोरे: तो सु ज्यां
पजु रुछे: ने अंजुने दानो वेससई: आदेप तारसा
दुछे: तारे या आपणी तां: नासी नेनईनी स: वरसा
पाहेगआंछे: तारे नुर सतगोर तो: नो ती आदरप
दिधा पांछे: तांहांथी नो ती आदरंप: पाहेअरपानथी:
आनंदसपंअवतार: पाअनजुपज्योने: वारो अंठो
छे: तारे नो ती आदरपनो वारो वितरो छे: वधाजुरस
ननारनी वात: तंपे सोसो हांपजुनी वरो: तें नारजु आ
ईने: आर हाजुरे: आर पंथ नजु गांयलावां छे: तेसो आं
...आ दांछे: जुर सननारतो: दुवगारी गा पपाहे छे:

realpatidar.com

नांमांहेंतेपरजेसरः मई पूनांऽएं छेः तांमांहेंसोजठकु
रांछेः इ तव्यारांवधनां पाठ तांः इसीगांमजमांहेंकुरांछेः
॥१॥ मकुरव्यारांवधनां पाठ तांः सोमांहेंरगांमजमांहेंकुरां
छेः ॥२॥ आगव्यारांवधनां पाठ तांः आगइवागांमजमांहें
कुरांछेः ॥३॥ गडव्यारांवधनां पाठ तांः सोहिरागांमजमां
हेंकुरांछेः ॥४॥ ऽएवांआरे पाठ नेः सरवलोकुपूनें छेः तो
सतगरुः श्री सतगोरव्यारंभावांआंः तो स्वांमीनेः ऽएं
आर पाठ नेः सांवांसतलोकुमांने छेः तेजोनांमकुमांहेंः
इवनेनाऽअरनेनोः श्री नांरांऽएसावांआंः तंमें सोमांहें
सतगरुः ने आंर पाठ मांहेंः आरव सतां छेः तेवा[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n501/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n502/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



स लां वां छे: आंने ठांम ठांम: ए वा प वा डां कुरां छे:
ए तां सरवे ठां ली: आ दुकं था कुर वी छे: ते था नक वने
कुपन हा: ने सतगोर ब्रह्म रूं पां ंजा: पछे तां ज्य वने पा
गत था ए: जे र सतगोर नी गोठ: संपूरन छे: श्री स
तां र ब्रह्म रूं पां वां चां: तं पे सां ... नी व रो: आ न कुपन
गपां हे: से सतगोर ब्रह्म रूं पां नो: अव तार: तं न श्री पां हे पाद
पे: आ छे: तं न सतपंथी लो कु: दुरपा हे वलो कु ते: स
तगोर ब्रह्म रूं पां ज्य पुहे छे: श्री नां रां अवता वां चां: तं पे सां
सां हे सतगोर: तं न श्री पां हे पाद: स लं सां आ लेव स लं
प पां से पी: छ दुपा लं सद र स आ पे छे: दु तां ...

realpatidar.com


Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n503/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n504/mode/1up





सा पांसेथी: एकलाखनें एंसीहजार: ॥ १८०००० ॥ पीर पेगा
अरथे एआछे: तेमांहिं नबी मांहिं महदनी: ना एकअकुरी मा
कुलांछे: पछे तेनबी मांहिं मदद: नारे पडदे थे एआछे: तांहिं
मातेमाले अदद रससानी नें अरहाछे: तेमाले अदद रससान:
धरताडां लांछे: तेमाले अदद रससानां: धर मांहिं दसानथा:
एअनें छ दर ससानां धर: तो सरवे ठा लां छे: ते छ दर सस
नां धर: मांहिं दसा पसानथा: ते ठांलां धर पूनें था: जाप
नें मा अनां था एअे: नो सतगोर अरें माजपको: तो जप
नें जगतथा एअे: छ ठ माले अदद रससा: सपूरहाछे: संपा
पतनपो: ॥ ६ ॥ पेलातो कुडा दरससा: सपूरसा [illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n506/mode/1up



realpatidar.com



=अंने दसे =असपांनः ॥१०॥ =अंने छ दरसनानी हजाग
तः ॥६॥ =असरव सासचः नजपागा तांजू है छेः ते प्रभा
पंदनी =अे ज =अ छोडोः सं पूरसा छेः संपापतनवेः
॥१॥ श्री नारां =अेना जथं तेः =अंने सतगोर अरंपांपू
छ तेः ॥२॥ तंपे सोसाहोज नीवरोः न ज वे जा नारां =अेना
नीः वार ताछेः स पूरसागा छेः =अे तांगार थ ज वा पंद सा
सच स पूरसा छेः संपापतनवेः =आप =आपगा रूनं यर
सा न पंदः नापगा रूहरीः

श्री सतगोर अरपावासीः पस पर [illegible] हर र [illegible] नत
रहापः अपातनांपूल पूछेः पांं =अ पनांत पूछ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n507/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n508/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n509/mode/1up



[illegible] ॥१८॥
[illegible]
[illegible] ॥१९॥ [illegible]
[illegible] ॥२०॥
[illegible]
[illegible] ॥२१॥ [illegible]
[illegible] ॥२२॥ [illegible]
[illegible] ॥२३॥
[illegible]
[illegible] ॥२४॥ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n510/mode/1up



realpatidar.com



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n512/mode/1up





[illegible] ॥५२॥ [illegible]
[illegible] ॥५३॥ [illegible]
[illegible]
॥५४॥ [illegible]
[illegible] ॥५५॥ [illegible]
[illegible] ॥५६॥ [illegible]
[illegible] ॥५७॥ [illegible]
[illegible] ॥५८॥ [illegible]
[illegible] ॥५९॥ [illegible]
[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

२५८

अपकेन ध्रिनांपाः ॥ ५९ ॥ गापगान काळुरव्याले=प्रद्रिः स्रुनी
ई=आखां पाके व्यातकुद्रिः ॥ ६० ॥ गुसलहेनव्यफुनकुः कुंपा
न पेनांझ=आंः ननानेनातरनव्य तेपाव्यांझ=प्रांः ॥ ६१ ॥
=आसांकु घरपेलांई=आसारेः ननानाद्दरा=आं कुव्यर
फेनारेः ॥ ६२ ॥ =प्रेकुघाडातंपानांझ=प्रां व्यांहांरः रेहेपात
कुरे फुन परफारतारः ॥ ६३ ॥ पा छुनव्य रांझलनांझ=आ
वेः लसकुर साथे=आपकुलांवेः ॥ ६४ ॥ नापेकुांझलझा
सरापालः ध्रिन पाछुना=आन रांझलः ॥ ६५ ॥ सारे फुन
परनापानकुरांवेः =प्रेकुघाडापेफेरनांवेः ॥ ६६ ॥ पा छु
तंपासव्यपीलकुर=आ=आंः टांले टालेनीपां नकुरां [illegible]



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n515/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n516/mode/1up



realpatidar.com

२५८

श्री ॥ ७५ ॥ दरद फेनो रे न व्या ड़ि पर: ठं डो सा थे त प=आ श
पड: ॥ ७७ ॥ नें दन रात न व्या पर=आवे: न र सां=ऐत द्ह
व्यद्दता नावे: ॥ ७८ ॥ =ऐसा=आवे ता व पर ता प: फे द्ह व्य जा
जु सां वे=आ प: ॥ ७९ ॥ व व्य त=आ सा का पा ही या न व्य:=अ
ना व्या लाल ने हो ती त व्य: ॥ ८० ॥ ड़ि ठं न व्य सा न व्या फे गु लां
प:=आ नां द फी=ऐ पे=अ ले न स लां प: ॥ ८१ ॥ पी=आं र न व्या
पर द्ध र ते पे: व्य र व्या न=आ प स कु र ते पे: ॥ ८२ ॥ न व्य
=अ हो फे र र है=अ न्नां: पी ले नी पां ज स व्य पा स न द पां:
॥ ८३ ॥ न द्द व्य न व्या कु पे स न द पे: व्या वां स कु पू छा सा
रे णे: ॥ ८४ ॥ फु ही व्या लाल न व्या ने का ही: =आ न ...

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n518/mode/1up



realpatidar.com

૨૫૦

[illegible]

realpatidar.com

तन आ अदी=आः कहे कु का तन पर काई=आं प=आः

॥२०२॥ ना पान कां तं पन कहां पूर्ण=अं लां रे कहे पात करे त

नं:॥२०३॥ ए तनां कहे कर आ लेनां=अं: नां नें कहे पात था स

मतगारां=अं: ॥२०४॥ आ लां ल पां कारे=वी आ आरः=आ=आं

पकें पद घर था आं कार: ॥२०५॥ नां पर लो तं पाई=आ रूपा

सः तं पां रा वे कर तें=आ सः ॥२०६॥ दिन सारे कहां वे प

रगः नां नें पात तं पा करी तर कुः ॥२०७॥ न आ र सूल

त अ पें अ हे सः गर पा कां य ग=आ था नां सः ॥२०८॥

=अ वा न न सु ना कन र ते=आ पः अ ला ल कु फीर न दा

[illegible] ना आ पः ॥२०९॥ तन आ ला ल नें छा रा ड्डि: सा कहे तनं



https://archive.org/details/bk177/page/n519/mode/1up
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n520/mode/1up



realpatidar.com

२५१

[illegible] ॥ २२० ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२१ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२२ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२३ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२४ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२५ ॥ [illegible]
[illegible]
॥ २२६ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२७ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २२८ ॥ [illegible]

realpatidar.com

[illegible] ॥219॥

[illegible]

॥220॥ [illegible]

[illegible] ॥221॥ [illegible]

[illegible] ॥222॥ [illegible]

[illegible] ॥223॥ [illegible]

[illegible]

॥224॥ [illegible]

[illegible] ॥225॥ [illegible]

[illegible] 226 [illegible]

realpatidar.com

२५२

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

न कुद्दार नावि कुहिः पनि तानां नना कुनि ता कुहिः ॥२३५॥

कुनि विनवा पनि सा पनि रांः ऋा सा डार्लद्वि रांद्वि रः ॥२३६॥

पनि रेवावा ऋवावा कुरः कुनवा नां कुहि कुरे सवरः

॥२३७॥ कुहि कुर नावि हिनकु ता कुातः कुहि कुरे सुप

सुई पां पातः ॥२३८॥ ऋा पर ई स प कुनवा नेः ऋनो

ऋवावा कुर कुंनेः ॥२३९॥ ई स प हिन पां सेनां कुरः

ऋवावा कुर कुकुना पवरः ॥२४०॥ ऋवांवा कुरप

सर्नद पऋा ऋाः सवई ऋा रु कुरां तपा ऋाः ॥२४१॥

हालासां सांरुहि पकुरः पडि रे नि ई पां पातं पा परः ॥२४२॥

...ई पां पात लां गो कुर नेः ऋल नि पा र्दा कु ऋवललां

realpatidar.com

realpatidar.com

૨૫૩

ગપડણોઃ ॥૧૪૩॥ નળ્યા આલી દે ખોનબાળી નાંગઃ ળુ
રાંતધ્રુખ સેપડીનનાતઃ ॥૧૪૪॥ રાને લાગે નારે નાંરઃ પ
ડતેપડતે ખા=એ પછાંડઃ ॥૧૪૫॥ ની પાંજવાં હાંત બળુન
પડિઃ રોવે સારે ખડિઃ ॥૧૪૬॥ ગુરુ જીવ નીજાલી=આ=એઃ
નાને જી=આ પાત જી=આઈ દાડઃ ॥૧૪૭॥ =એ સાંસાંરે સાર
જી=આંઃ હને રતજી જાને=અ વાન પડી=આઃ ॥૧૪૮॥ નબ
રસ્થલ ની=આ સાંજુઃ બોલા પાસને પૂછાં હાડિઃ ॥૧૪૯॥ જહાં
રે=આ સાંપ્રને=એ=ઓ રાંહાંઃ રાનાં હારે=એ સારજાંહાંઃ ॥૧૫૦॥
=આ સાબોલેર સ્થલ ખો દાંઃ નગજે પે=આરે તંપો સ દાંઃ
॥૧૫૧॥ સારેઈ=આર=ઓર=અબાંબળુરઃ તંપ સાં

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n525/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n526/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n527/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n528/mode/1up





आ लो=आतआ: ॥१७६॥ पास आलाने कताई छ्रकर:
म कीआलालजानारे छ्रपर: ॥१७७॥ आआरकरोस
आ=आवेई=आं: भीले सारे कसलीपासनदेपांहां: ॥१७८॥
सआर्क साधयहाकुकरं: पीछ्रनाकरधारपांकरं: ॥१७९॥
आलालजनारे छ्रपरमडकर: पांकारपांकारई छ्रकर
आआर: ॥१८०॥ =प्रे=आरोसआजीलकर=आ=प्रे: नआ
रसकलसकजीलकरना=प्रे: ॥१८१॥ नीतांपाछ्रनकईआ
मा=प्रां: तांसताआपासनदेपे=आ=प्रां: ॥१८२॥ वहां
करोरे=आकरसारे: नआ किगा पांकिपांनतंपारे: ॥१८३॥
सातूर्न आआर सकनी=प्रेनआ: कल आलपजपीले-

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n529/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n530/mode/1up



realpatidar.com



जुगु: ॥ १९२ ॥ जे किने तजे हि परथां: जुर्गा नलजे = जें = अइलथा:
॥ १९३ ॥ तंप रोजुरखो रे सारि: नेनां जुलो = जेनखी किजांरे:
॥ १९४ ॥ नखो = जेखातजुग जुतीरे: जुलेने जे = आगतोघातीरे:
॥ १९५ ॥ ने सासारपरखापरकीजा: ई = आखडां नाई कीवेजुरी
जा: ॥ १९६ ॥ वे सेतंजाथे किजांरे सोरपर: किजावा रोनावेसखतं
जाहिपर: ॥ १९७ ॥ तंजाने किजाजु घान सा खलो = आ: सरपास
खजुगानतंजासेंपां = आ: ॥ १९८ ॥ तंजासे जु हिनरांजकीये: नों = जे
साखूखातंजा सेनों कीवे: ॥ १९९ ॥ नखोरसुलने = जेतनां सुन
जुर: लोते = आखू = आजुनार: ॥ २०० ॥ जुकां = जेई = आरांसुनोकि
खडे: खारनसुनोगा पेघां जेरे: ॥ २०१ ॥ जेरांनां जा. जाकिंजाइ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n531/mode/1up



=अव्यदुलां जे रांव्याप पा छानां:॥२०२॥ =अव्यदलपातलव्य पं
हाहा: नासला जेरापरहाहा:॥ २०३॥ नासपजुांव्याप=अव्यदु
ल पुनां पा: =अव्यदुपतालपा नेनां पा:॥ २०४॥ =अरव्य=अन
पा नेजुलव्यरांनां: व्यहांरां व्ये पाजुरहारांनां:॥ २०५॥ पुन पा
छु नाव्यानमाजुा=अे: ई=आद्दलां जे रांव्या नो=अे:॥२०६॥ ई=आरो
पुनेजुानानो ने=आस: जुव्य पे नां दु व्याहांजु पास:॥ २०७॥ पंन
दु पातहारव्यंहा=आहाल: वा=अे पी रांजु नो रे वां=अे पीसपाल
॥२०८॥ =अे जां शी दु पातगारीव्य नीरास: पासजुेनाजुर जे सं
पास:॥२०९॥ =अलानासलां पातरांव्यत: तेरे पाहूलसे दुपा
... २१० सानारे जेरापसा=अत सारे: =अव्य ने जे पा

realpatidar.com

realpatidar.com

२५१

नतमारे::॥२११॥ सुनकुर सांरेकुसुनां=भ्रां:: हाणरगांबकु

पांत्राा=भ्रां::॥२१२॥ हलाल कु हलाल कुरकुहा=भ्रां:: हरांबाबा

तसेपीछेरहा=भ्रां::॥२१३॥ नबानेसरकु हि सावीता:: =भ्रे

मुद्दा=भ्रेपांरेपाता::॥२१४॥ तेरांकुहांपांहेसबपांत्राा=भ्रां::

पांरा हि पातकुबमन सुना=भ्रा::॥२१५॥ पा छ सरकु ना

सांकुरकुर:: कुहासुनांरे सबपालकुर::॥२१६॥ पांरा पारना

हारेजापना:: मुब हतपाकु=भ्रेई=आरां::॥२१७॥ तबई हि कु

रवांतेसारे:: नबी रसुल हेपांरे::॥२१८॥ जापनातेपारां

=भ्रेपांहेमुब:: मुब हेपसपारनांकु हि मुब:: २१९ तब

नबांनेकुहांबा=आना:: सुनांरे सांरेध रकुर कांनां [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n533/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n534/mode/1up





रेपसानीः ध्यातेखसससनरेः वसलेसोनांष्येहलष्यक
रः वराःअेष्येःओष्येःअलष्यसरः॥ २२९॥ अवलतोनेहा
नषेःआवेःआवध्यरजीध्यपरजेनावेः॥ २३०॥ हनाद्विस
ध्यनहासषातः नेपांषापपर द्विठांवेहाथेः॥ २३१॥ तीस
रांनेध्याईष्यनीहावेः वेजीपेरीसीषातननोंवेः॥ २३२॥
अंनर्नेःओरतहलालध्यरेः द्विसपरध्याईतोपातद्दरेः॥ २३३॥
द्विसेजीपेरीसषातनहोःअेः वेजीःआष्यरद्दोनष्यनोःअेः
॥ २३४॥ अंननेध्यठीसाहेद्दादेवेगाः वेजीसषाःअेतनपो
वेगाः॥ २३५॥ छठांनेहावेवाळष्योरः वेजीसषाःअेत
सेहावेद्दरः॥ २३६॥ सांतपांनेध्याईपावेसरांपः वे ॥ २[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n535/mode/1up



पा=प्रेतनपावे=आप: ॥२३७॥ क्यां पर रोपी ऐं उनें नावे:
सप्पथी नागपुर पाछे=आ वे: ॥२३८॥ व्यडां प्यूनी लावे=प्रे
ह: जो रीसपा=प्रेनपावे वह: ॥२३९॥ नवप्यांनें क्यांईननां
करे: वे नी सपा=प्रेत था दूर पडे: ॥२४०॥ द सप्यांनें हावे
ना दूगारे: जे रीसपा=प्रेत न हावे दूसपर: ॥२४१॥ नें क्यां
ईनें प्यात कूतर कुकरे: नी प्यांनें नप्यात सून होपडे: ॥२४२॥
दूसकूनीन हावे सपा=प्रेत: नावे दांनप्य सं ताव साध:
॥२४३॥ वे नी सपा=प्रेत सूदूर हावे: नें दूनी=आदा यार
हावे: ॥२४४॥ नें=आ लप=प्र लंप पडे: नान प्यूजाकूर ज
रे: २४५॥ वे नी जे रीसपा=प्रेतन पावे:=आप

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n536/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n537/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

२६२

[illegible]

॥ २६३ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २६४ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २६५ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २६६ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २६७ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २६८ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २६९ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २७० ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २७१ ॥ [illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n540/mode/1up





[illegible] ॥ २८० ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८१ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८२ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८३ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८४ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८५ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८६ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८७ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८८ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ २८९ ॥ [illegible]

सतां फ्रानलसीतांबी यांबळलेळरः =प्रा हि सीतांबी
झा सबोद्धनीतरः ॥र २६० ॥ बाबा घारपी तलपालळरेः बा
हि रतांपांद्ध कुांकि कुरघरेः ॥ २ २६२ ॥ ह सं न हि सेन कुपांस
बांसां=प्रीः पीरांपसह न बानेगलेसगा=प्रीः ॥ २ २६३ ॥ =प्री
पी रे=प्रा यूळ कुरः नांनांनांपांस हि हळ्रः ॥ २ २६४ ॥ नां
=प्रां बीरांपासनद्धपीनां=प्रीः नांनांबाद्धले पांरतपा बा=प्रीः
॥ २ २६५ ॥ ह सनहि सेन न सुनांनबः रांतेगा=प्री पासनद्ध
पीतबः ॥ २ २६६ ॥ नबीनेपानेलघी यांबा बसलीतीः लेक
रद्धि कुांसां कहांथपीदीतीः ॥ २ २६७ ॥ =प्रां कुांसांने यांबळ
लेकरः सहनेलागा पांबरहि परः ॥ २ २६८ ॥ =प्र बाबळ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n542/mode/1up





રગાઃ=મે હિ સહુ પાસઃ હુકાં રે=પ્રાન લન નાં સઃ ॥ ૨૯૯ ॥
=મે તી સહુતી સોહુ=આહુ રતા રેઃ આદ્યાથી કનહીં કરતા રેઃ
॥ ૩૦૦ ॥ નબી ર સહલ સબ હુગ હુ પા=પ્રા રેઃ હિ નહુ ક મા
બહુ હુ હિ પા રેઃ ॥ ૩૦૧ ॥ નાં રે ની હુ લ પા સ નદ્દ થા બા હાં રેઃ
કનેન હાં=મેં આદ્યાં હુ પા=પ્રા રઃ ॥ ૩૦૨ ॥ બાલેન બા તંબ પાબ
રપરઃ પાહિન સાં હિ રે=પ્રબાં બહુ રઃ ॥ ૩૦૩ ॥ નાં કઈ સહુ હુ
ડાંસાવેઃ પૂર્ણ દ્દા ન હુ પા ત કબાવેઃ ॥ ૩૦૪ ॥ =અ રે હિ હુ સાં હુ
નહુ પા રઃ કન પ ર રે હિ પાત હુ રે ગુ પમ રઃ ॥ ૩૦૫ ॥ =અ બાબ
હુ રત બબાલે ઈ હિઃ સ્ન રે હિ હુ સાંબાં ત હુ કુ હિઃ ॥ ૩૦૬ ॥
=મે હુ બદ્દલા પૂર્ણ પાં રે દ સઃ =મે હુ સાંબ હુ ન [illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n544/mode/1up



realpatidar.com



सुनरे भात: ॥ ३१६ ॥ जरेन भाकु भाहा तज्ञानार:
ज्ञाकु भइला पंचांसफुनजार: ॥ ३१७ ॥ तभ हिक्कां सां
हांथ मडा: हाडजाजर हिपर मडा: ॥ ३१८ ॥ ह संनहा
संनतभहाकु नांइ: नंन सेकुगनेइनतवाइ: ॥ ३१९ ॥
रांन लागा छातीभर: भडे रे हनां जाभर पर: ॥ ३२० ॥
पकुडा हिक्कां सेक्कां हाथ: रेकुर कुंन लागे भात: ॥ ३२१ ॥
ज्ञरे हिक्कां सां हकुके पाज्ञारे: नानां हंगे द्वाभा हजार: ॥
॥ ३२२ ॥ सां सां हजाकु गानगान जार: भकुसनांन
कु हज्ञानार: ॥ ३२३ ॥ तभनभा नेजाभर पर: हा
कुनांइ हिक्कां हाथ पकुड: ॥ ३२४ ॥ लेकुर लगा... [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n545/mode/1up



सुः वृहनलांग द्विन वृइ द्विः ॥ ३२५ ॥ अरे ब्नेटांत पावृ
छन वृहिः द्विवृां सांवृपार नेदेहिः ॥ ३२६ ॥ तंपांरां नांनाहि
स्पू सहिांलः नो अेवृर नलेवइ लहिांलः ॥ ३२७ ॥ अरे द्विवृां सां
वृन वृपारः तेरां वृन परवृ रन द्वितारः ॥ ३२८ ॥ ओवृां सांपी
अरपरसडाः नला वृपा छरहा स्पडाः ॥ ३२९ ॥ वृहनलांग
नलारसूलः पेरी लातवृवृरी वृवृलः ॥ ३३० ॥ नलतंपेस
ल स्पपारीधीः पा ठ स्पूलीतल पेरी धीः ॥ ३३१ ॥ तंपा अोन
पहिरन द्वि ठां अोः पेरे हिाधिवृां सांलस स्पा ओः ॥ ३३२ ॥
अे लात सूनोंल इ आरूनेः पासन देत सल लांगो रोनेः
[illegible] ल न वृहिां अे द्विवृां सांइ आरः न द्वि स्पू स आ

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n546/mode/1up

https://archive.org/details/bk177/page/n547/mode/1up





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n549/mode/1up





realpatidar.com

# ...ગ્રામ પંચાયતના સરપંચની ચુંટણી

...વિકાસ લક્ષી કાર્યો માટે તેમજ સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ વહીવટ માટે.

## ...પટેલ કરમશી રવજી નાકરાણી (તા.પં.ના સદસ્યશ્રી)

ને આપવા વિનંતી છે.

તા.

રવીવાર

: સમય :

સવારના ૮ થી સાંજે ૫ સુધી

**બળદ**ના નિશાન ઉપર જ થપ્પો લગાવવા વિનંતી છે.

---

નામ : શ્રી ઘર નં. :

...સ્થળ :- નેત્રા પ્રાથમિક શાળા મતદાર યાદી ક્રમાંક : ૭૭

---

મુદ્રક : શ્રી નીલકંઠ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, મેઇન બજાર નખત્રાણા-કચ્છ.

realpatidar.com

realpatidar.com



realpatidar.com

२६७

[illegible] ॥ ३६९ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ३७० ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ३७१ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ३७२ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ३७३ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ३७४ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ३७५ [illegible]
[illegible]
॥ ३७६ ॥ [illegible]

realpatidar.com



[illegible]

२६५९

[illegible]
॥ ४०४ ॥ [illegible] ॥ ४०५
[illegible]
[illegible] ॥ ४०६ ॥ [illegible]
॥ ४०७ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ४०८ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ४०९ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ४१० ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ४११ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ४१२ ॥ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n557/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n558/mode/1up



realpatidar.com

पेरांपकु डेन मनाथः कोइइ कि = आवकरवकरे न आंतः॥ ४३३॥
रनांतपाकुने घ = पो साता अः तमाता = आ = आकृ = आपः॥ ४३३॥
आवआपातपानें सुनी = आनअः = आघरपे पेरघरकापेत
अः॥ ४३४॥ रांते = आ = पे न आ के पांसः ढूना रे सुमडी = आस
सः॥ ४३५॥ = अरे आवांकोइ आ कि रखडांः कु तअलाइ = आं
डे वअडांः॥ ४३६॥ डरको आता कर तां किः पोकार पोकारपु
रको कि तां किः॥ ४३७॥ न आी रसुल ने से कर = आपः पे टीगले
लेगाइसा तां अः॥ ४३८॥ नाथ पे रां = आ सा र के कि परः रां रां
के कि नलांगाइ कि करः॥ ४३९॥ = अरे पेरा तनान ती किः कां
... पी छान मारे किः॥ ४४०॥ कमांआंवां पे कि = आन ...

https://archive.org/details/bk177/page/n560/mode/1up





[illegible] ॥४४१॥ [illegible]
[illegible] ॥४४२॥ [illegible]
[illegible] ॥४४३॥ [illegible]
[illegible] ॥४४४॥ [illegible]
[illegible] ॥४४५॥ [illegible]
[illegible] ॥४४६॥ [illegible]
[illegible] ॥४४७॥ [illegible]
[illegible] ॥४४८॥ [illegible]
[illegible] ॥४४९॥ [illegible]
[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n562/mode/1up





=આ ફરિઃ॥૪૫૯॥ પંનજવડુ ના લેના ફિગાઃ તોરનાં ફુળ
પાં ફિગાઃ॥૪૬૦॥ આદાને જુનવુ ફરા આંતઃ રના જે ફિદાતા
નપા જેહાપેઃ॥૪૬૧॥ ન અરાંઈલ ના=આ=ગ્રે ફિ સફાલઃ સ
તરફ નારપીર સતનાલઃ॥૪૬૨॥ જાગાંઈલ ના=આ=ગ્રેસ
તાઅઃ લે સફર સાથે લા=ગ્રે=આપઃ॥૪૬૩॥ ઈસ રાંપીલે ના
દીડે=આ=ગ્રેઃ આહાત પીર સતે સાથેલા=ગ્રેઃ॥૪૬૪॥ ઈન સાં
ઈ લતાં ધાર જેથેઃ નપાલા અંહાસ્ફ તેથેઃ॥૪૬૫॥ અડે સા
રાને ન અરાંઈલઃ ન. પાફા આજુ જેહગાંઈલઃ॥૪૬૬॥ ડાં
પા આંજુ ઈસરાંપીલઃ જુદપ પાસેઈન રાંઈલઃ॥૪૬૭॥ ના
નરપેત અસારુ=આરઃ રાં તાધા સારાં ધાર દુ=અ [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n563/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n564/mode/1up



realpatidar.com



पसानः धुसतांगखडां=आसधांनः॥४७६॥ कुरसुलखो
दांकुपे=आरे=आवेः कंधर्मपरसवलवारीनांवेः॥४७७॥ क
नरतनेतवई द्विकुकां: खोदाक्री=प्रेतोकनें धा=आं:॥४७८॥
पंन=आनवखरांईलकुरोवे=आंनः कुधुनकुखोदाक्रे
ई=आकेसां धांनः॥४७९॥नखनखरांईल=अलेकसलां
धः नवा सेंईद्वि कुरक्रा=आकुलांधः॥४८२॥ खदांने=आं
पसकांदादारः वांकोतसधांरांखुसनवारः॥४८२॥कु
=आनधकंधदधीछा=आवेः नरतनरसीनकु=आथावेः
॥४८३॥तखकनेरतनेदा=आनवाखः=प्रेतोधुनपरकेस
वावः॥४८४॥पंनधुनपरखदाकुई=आः खुख[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n565/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n566/mode/1up



२९४

[illegible] ॥४९४॥ [illegible]

[illegible] ॥४९५॥ [illegible]

[illegible] ॥४९६॥ [illegible]

[illegible] ॥४९७॥ [illegible]

[illegible] ॥४९८॥ [illegible]

[illegible] ॥४९९॥

[illegible]

॥५००॥ [illegible]

[illegible] ॥५०१॥ [illegible]

[illegible] ॥५०२॥ [illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n567/mode/1up



[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n568/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

२२९

॥पद२९॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३०॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३१॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३२॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३३॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३४॥
[illegible]
[illegible] ॥पद३५॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३६॥ [illegible]
[illegible] ॥पद३७॥ [illegible]

realpatidar.com



सर्रा=अे: वृहिन पे वृा=आवृ हिवे वृा=अे: ॥५४७॥ वाे हाे त रा
=अे वा वा वा पा त पा: वा वा=आ सां रा=अे वृ हि नां ना: ॥५४८॥
न नें वड़े नाेघार वृ सारे: नां री वर वर रा=अे पा वृारे ॥५४९॥
रा=अे न वा वृ सारे ई=आर: रा=अे गां पा सारे पा वृार: ॥५५०॥
न वा न वा वा वा पा ता (पा र्नक्षि:) हिरे=आ सां कु वृ हिां ईश्वि: ॥५५१॥ वा=अे
परां कु पड़ा पा नें ह्रि पर: ई ता ल पें हिर कु वृाेहा वृा सवृ घर:
॥५५२॥ =अर्रे=आ सां=आनें परां कु कु=आ: स व सु कु पड तां
जू=आं: ॥५५३॥ =अे ह्रि न वृ नें पर=आ सारे: पां हाे व द्वा वर
=आ घारे: ॥५५४॥ =अर=आ सां=आनें पें रे पर: पू रा हाे र हा
पें रा ह्रि पार: ॥५५५॥ =आनें पें हि रा=आ पर ह्रि पर:=आ ॥५५६॥

realpatidar.com

छो दुगा =अधार: ॥ प५६ ॥ =अरे =आसां =आन पे रांकु लाधा:
बोल नां सधी कु =आ तं पांपा: ॥ प५७ ॥ =अ बा =आ सा तें रेंघ
रपांहां: =अ वान पे रां सुनें गाई हां: ॥ प५८ ॥ =अरे =आ साध
र पें पुनकु: =आन पा छ न हा दे खं तं: ॥ प५९ ॥ लां बा स
पार =अबनां दुगा: पीर ई सधार पें न हा =आ दुगा: ॥ प६० ॥
बा बा =आ सां न सुनी =आन बा: रां न ला गोई दु कुर तं बा:
॥ प६१ ॥ वा =अ हां =अ गां रे खा दां: वां =अ हे =अ रे पा हं पा दा:
॥ प६२ ॥ वा =अ रे पें रे खां स पा के बां पा: पु न कु छांड सलें
कु दु =आ पा: ॥ प६३ ॥ =आन पे रे पर लां कु हां: गां पा पा रां बा
[illegible] ई =अ न दां हां: ॥ प६४ ॥ वा =अ =आन पे रे न बा दु पर:

खां दांन नेजा कि लां बा सपार: ॥ प ६ ५ ॥ पी रे सा कि लां

= [illegible] ॥ स प ६ ६ ॥

बाइसा = आ सा कू = अ रा त सू: सा रे लां गे रा न कू: ॥ प ६ ७ ॥

बा बा पा त पा रा = अ पा को र: = अ रे बां वां कू हि म ल बा

सा र: ॥ प ६ ८ ॥ तं पा था कू न कू था = आ दा र: = अ ब कू न कू

को न कू रे पा = आ र: ॥ प ६ ९ ॥ = अ रे = अ ब कों स पा कू बां प:

कू लें नं न ल ब ल कु = अ कू बां ब: ॥ प ७० ॥ = आ खा दू कू खां

लां ई = आं: न वा सा था दू कू बा लां ई = आ: ॥ प ७१ ॥ = आ न बा

वा न वा सां हि प र: कू ला पा = आ र सू कू रा न न र: ॥ प ७२ ॥

पी रे वा लि गा रा ब न रा स: को स कू नां कु र बा सें [illegible]

realpatidar.com

॥प७३॥ गोहा जेई न कुले वे कुनः गा ले पी ठे हे वे कोनः

॥प७४॥ कोनई नकांपाले गालदः कोन ई नको कुरेस

मांसः ॥प७५॥ ऋरे आवांमें पाते पाड़ि परः ऋअपी

छेकेड़ि कुरे सअरः ॥प७६॥ ऋें सई दाड़ि पातके पे ऋारेः

पारनें नकुके ड़ि आ सारेः ॥प७७॥ आ आ पात पांनी

रांकुरः आवां सआले ई ड़ि कुरः ॥प७८॥ नला आवां

कुनें कुसातांअः ऋानें पीरां अकुअ मांवे पालापः

॥प७९॥ ऋानें पीरां अकुअ मांवे तअ ई ड़ि आले पेगा

अरः ऋरे आटा कुछगा पा पातकुरः ॥प८०॥ तेरां मारे

[illegible]ली लनांः मां वे गा मां नें कां सरके ई ऋानेंः ॥प८१॥

https://archive.org/details/bk177/page/n576/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n577/mode/1up



त कै हि पर धा लना ह्रावे सा ताल्या: ॥ पद २६० ॥ भूल सरां

त कै हि पर नल्या:=आवे जेरी हि पात सल्या: ॥ पद २६१ ॥ तल्यां

हि पा तद्यांनें: ल्ये रा ह्रावे ध्यां कु पे: ॥ पद २६२ ॥ ल्य डां पे ध्यारू

ई=आग ल्यार: जेरा हि पा त कु पार हि तार: ॥ पद २६३ ॥ तल्या

ल्या रां=अगांपा स्क: पा=अ पे रां ल्या कु नें ध्यां स कु: ॥ पद २६४ ॥

=अ रे पा त पा कु ह्रा=अ कु प ल्य त: ल्या प पे रे दृ ल्य कु=आस

कु त: ॥ पद २६५ ॥ दृ ल्य=आ=आं तु नें पर न्ना रा: कु लें नें कु

धा=आ लां गा ध्यारा: ॥ पद २६६ ॥ क स न कु सें न के हि रे ह्रागो

रे: नां नां ध्यां स कु के ह्रागो रे: ॥ पद २६७ ॥ ल्या ल्या नें तल्या रां

नल्या नें ल गा=अ छां ता स्क: ॥ पद २६८ ॥ =आ ल्य भूपां ल्यां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n578/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n580/mode/1up



realpatidar.com



=अेन वी पी =आनां: ॥ ९१६ ॥ तम गुनाथी तांमाकरे:
तांमांकुकुछ पीकरकरे: ॥ ९१७ ॥ तां नी पांहे =अेन मा र
सुल: तेरा हांसभीकु कुमुल: ॥ ९१८ ॥ तम कुहां रे नमरां
ईस नांई: =अेमात पेरेनन =आई: ॥ ९१९ ॥ =अेमी हिपात
परमात: कु =आनां हांप लेगां पांहांत: ॥ ९२० ॥ नमराई
सनेकुहांई हिः सुनां पांहेपाद मात कुहिः ॥ ९२१ ॥ नं =आ सा
तुनं हिपा तकु: सारी हिपर गपां वेगा: ॥ ९२२ ॥ नम पांहां
तकुई सकु: =आठु हान =अगार रहेपे ई हिः ॥ ९२३ ॥ तां नी नं
पे तांमाकुरे: गुनां थी गपाकु छहां सपां हुरे: ॥ ९२४ ॥ तं
री हां सती =अेस रवरे: गुनां मकु सुपात कुर पी [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n581/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n582/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

॥ दु ४३ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ४४ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ४५ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ४६ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ४७ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ४८ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ४९ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ५० ॥ [illegible]

[illegible] ॥ दु ५१ ॥ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n584/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

वेजोन: ॥११२॥ व हां ईन पर जोन पडे: पां नं गुनो थो जो

न जुरे: ॥११३॥ नां ईं ष्रुनं =प्रे=आ ता सोनं: जु=आ हा लई न

जो जु=आ पात जे रो नं: ॥११४॥ त भ नं भ रां ईल ने जु हां नी:

स्रु नो हि पा त जे स पी: ॥११५॥ भ हां तू नं हि पा त जे स र हि प

र: हु=आ भ ली पां गं पा पा त जु र: ॥११६॥ प जु ड भा सा र थ

=प्रे रे न भा: हि पा त जे गा पा गा=प्रे स भा: ॥११७॥ न भा हां

वे भां हां त भू स हा ल: भां सा ली स्रु भा ल भा ल: ॥११८॥

=आ र जु हां =प्रे ई नं रा ल: =आ=आ ह भ जु=आ जु र ते हि ठा ल:

... ॥ त भ ई नं रां ई ल=आ=आ=आ गा हां थे: सो नं प र ध

... गां=आ प: ॥१२०॥ वे स पे गा जे दू ल: ई नं रां ई ल



[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n588/mode/1up





[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n589/mode/1up



[illegible] ॥ ९९ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ १०० ॥ [illegible]
[illegible] ॥ १०१ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ १०२ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ १०३ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ १०४ ॥
[illegible] ॥ १०५ ॥
[illegible] ॥ १०६ ॥
[illegible] ॥ १०७ ॥
[illegible] ॥ १०८ ॥

https://archive.org/details/bk177/page/n590/mode/1up



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n591/mode/1up



मात संनांटक: ॥११७॥ ईनराईलने छोडी जाहांन: सो
=प्रेनवा हो साजांन: ॥११८॥ जे हो साथी कु =प्रे हो सो =प्रार:
वां लिनवा नी सासां पार: ॥११९॥ कुन सर जे क्यां =प्रे ह्वा
ल: क्यो हि हो वेगा जेरी हिंजत कां मांल: ॥१२०॥ सदेजेरे माकु
माकु: जर सलांकु कुन पर सार: ॥१२१॥ =प्रे क्यांन नई फा
वेहेगीरे: कु हि कुर नांह सहे गीरे: ॥१२२॥ सारांईन कु सा
र क्यांनार: फेरी रुप र =प्रान हि तार: ॥१२३॥ सारे हिंजत
कुकुरवाट: =प्रान पर पा तक फेरी नात: ॥१२४॥ ईन सा
हो सकु कुगा जे हे: सारां वो सकु कु गा जे हे: ॥१२५॥
ईतनां कु मांनम: सा हो क्यांन वो कुला =प्रां तम:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n592/mode/1up





॥१२६॥ [illegible]

[illegible] ॥१२७॥ [illegible]

[illegible] ॥१२८॥ [illegible]

[illegible] ॥१२९॥ [illegible]

[illegible] ॥१३०॥ [illegible]

[illegible] ॥१३१॥ [illegible]

[illegible]

॥१३२॥ [illegible]

[illegible] ॥१३३॥ [illegible]

[illegible] ॥१३४॥ [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n593/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com


भारत INDIA
15
KUTCH
31.5.79
पिन PIN 370620

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n595/mode/1up



realpatidar.com



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n596/mode/1up





[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n597/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

कहपकपांसः रुनेकुलागेप्यासः ॥ १६२ ॥ नप्याकी जे
सांनी परः व्यो हातपसीनां=आ=आनरः ॥ १६३ ॥ पुछ ते के
नप्यीपसीन कुः=आर कहतेनाते पेइहु ॥ १६४ ॥ पुर्नप
रहारेहुपातपरः=अंसा=अेसपकतीपी=आसानकुरः ॥ १६५ ॥
पांनी कुप्यदने नरकुरः पांसरप्यां=अेपेगाप्यरः ॥ १६६ ॥
पांनी लेपेप्यदने सः लेलेपासले छातीसः ॥ १६७ ॥ =आ
पकपी=आकुलातेः रोराईहु कहते नातेः ॥ १६८ ॥ =अंसां
सपकरांतां=आसां=आंसानकुरः पुर्नपर जेराईहुपातपरः
॥ १६९ ॥ =अरेनप्यराईल नाईरेः हु=आंप्याद्दांकेनपांजां
रेः ॥ १७० ॥ =आपपुर्नसपकहानानां=अेः कहछेक [illegible]

realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n600/mode/1up



[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n601/mode/1up

२२५२

मांहे सुरजण सो तारे सप्त: धुणे पांहोत तुंसुणो=प्राण
प्र: ॥ ७९७ ॥ गांहांडपा हांडणणांयरसारे: हण रत
परसप्रसे=प्रेपांक्षारे: ॥ ७९८ ॥ हणरतपररसे=प्राहे
री=प्र: सप्रणांहांनपांहांगापपडा=प्रा: ॥ ७९९ ॥ सप्र
=प्रातप्रांनगापप्रा=प्रा: सप्रक्षासाकुपांहांतप=प्रा
=प्रा: ॥ ८०० ॥ साकूणे पासकुहांईहि: पां=प्रेप्रसाप्रत
तांसाकूकु: ॥ ८०१ ॥ =प्रे सप्रडेनप्राहपारे: ईनपरहर
देपणां=प्रेपारे: ॥ ८०२ ॥ देकूदेनप्रापरपडा=प्रां नाई=प्रां:
प्रप्रातनांपेपरहासलाई=प्रां: ॥ ८०३ ॥ प्रप्रातनांपे
सपूरसाछे: सांपापतनपे: ६६ ॥ ॥ ॥

realpatidar.com

फरकास सपाधाद ल ल पाछे: श्री सारदा जी न पः गुर जे न पः

पालगाड इसने ब्रह्म दन गार गांपः नें तावां काः प्रानाव

डनांपः ॥१॥ वन न नाथनी पूजा करे: नाव नांव पदः प्रो

यरे: ॥२॥ ईस वर वर त सं नाथ प्रंत दरा: नो प्रे पांप

नंनापनांप पी: ॥३॥ नकातां रवे नवा नवनांपांप:

नावडते वन नाथनो दास: ॥४॥ गुरु का पत पर पानं

इसर दब्रह्म दनो दकाः पागुब्रह्म द पर पार थत काः ॥५॥

[illegible] प्रगार रयं इंन प्रोफे नांप: के सर रुसत करा सर

[illegible] तार: ॥६॥ नो प्रे नाव नी फूकि तापर नव ए: नांव

https://archive.org/details/bk177/page/n604/mode/1up





[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n606/mode/1up



२२५३

गुरा पर रहा जी: तेनेनां जी अमृद आवी सजी: ॥२३॥
ज्ञांनी गुरु बीजाबा जांपा ज्ञांर: ज्ञं ठेजा पाले=अे ज्ञां
पवा हार: ॥२४॥ लुनीजो सर लु=अमृत: लु ज्ञई
=अे ई सपर नां पुत: ॥२५॥ तर रा जा पांन स पारेतां
रनापा: तेनुहा=अेने अपा ज्ञांपा: ॥२६॥ पुरे पांनेसा
रहा जरा: पांन सरा पर नां पा=अे अरे: ॥२७॥ ज्ञां
स पेरा श्री कुवा पासे नां देवा: सर वन रतेनी करे
सेवा: ॥२८॥ अ हिंदव हांनेन पांन नांर: तेनीज्ञा
ईन लाई पार: ॥२९॥ वेद सा सत्य. पुरसा [illegible]
र: जा तां जाजा पांतज रां जां हांर: ॥३०॥ रांजा [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n607/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n608/mode/1up



[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n609/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

जकाजकां ज्ञा ज्ञा लासतः सजकानोगासरसां
कः ॥४६॥ कसजरारजररेमिनरपुरः सक्रु द्य मीगलानं
ज्ञा ज्ञीलांसतः ॥४७॥ कतकानां जख ज्ञांकाज्ञांपां=प्रे
दा जरनोजसांगपां=प्रेः ॥४८॥ =प्रलाजकावांखाहे
=प्रा पां रापा=प्रेः पांनइछापुरसाथा=प्रेः ॥४९॥ तंपे
गारवजंने सरवे सक्रुद्य लेमीः इसवरतक्रुवरत
नो जमीः ॥५०॥ पांसगाडनगारेंवसेसो जंगः सो
पानांथतांमांछेगांगः ॥५१॥ नगारवसतांनो=प्रं
...सतारः वरसावरसातांमांवसे=प्रछारः
...रांनजकी तांमां वसे मनारछे =नी सः

॥३६०००॥ पराणिमा व सेतांहां से सत्य पत्री सः
॥३२०००॥ ५३॥ वैवारी ऋाव सेतांहां से सत्य ऋछा
रः॥१८०००॥ पत्री व सेतांहां से सत्य वार:॥१२०००॥
॥५४॥ ऋाठ से सत्य धार सानी फिरांसार:॥८०००॥
रंगारां व सेतांहां से सत्य सार:॥६०००॥५५॥ पां
च से सत्य धार तांसां पाधी तक्षां:॥५०००॥ छा पां
व सेतांहां से सत्य चार:॥४०००॥ ५६॥ सात से
सत्य धार ए ऋषिना नांक्षा:॥३०००॥ पक्षा मारं[illegible]
पानु ऋषिकव पांक्षा:॥२०००॥ ५७॥ गंद्रप प[illegible]
तांहां मां नगर नमा रे: नफसा त पांढन [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n611/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n612/mode/1up



२८६

[illegible] ॥६५॥
[illegible]
[illegible] ॥६६॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥६७॥ [illegible]
[illegible] ॥६८॥ [illegible]
[illegible] ॥६९॥ [illegible]
[illegible] ॥७०॥
[illegible]
[illegible] ॥७२॥ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n613/mode/1up



[illegible] ॥१२॥ [illegible]
[illegible] ॥१३॥ [illegible]
[illegible] ॥१४॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥१५॥ [illegible]
[illegible] ॥१६॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥१७॥ [illegible]
[illegible] ॥१८॥ [illegible]
[illegible] ॥१९॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n614/mode/1up



Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n616/mode/1up



૨૯૯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n617/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n618/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

२२९८

नांनाछे ब्यांधः ॥ २१९ ॥ तारे हे ब्र तां ह रखा नां नां गांठ
घरखाः तुनांनां रे पार द्वा कु छ तां रे सरखाः ॥ २२० ॥
नै र ले पार द्वा ऋे द्वन कु ब्यांखा कु ड कु डांधः तारे हर
खा ऋे वर्षांन नों कु ाधः ॥ २२२ ॥ हो हो रे वर द्व तुना ऋां
पं सकु न ना खाः फुरवनंन वनी कु धां कु कु ऋा वखाः
॥ २२३ ॥ पे ले ना वकु ऋ व व छ रां हों तीः रा व द्वा व सकु ना
यतीः ॥ २२४ ॥ ऋं कु ऋ व व सर लां गा वां रः कु वां सरां
पतवरसन ब्यारः ॥ २२५ ॥ ह रखा नखां रे पार द्वा कु
सा ना व वा री वातः फुरवनंन वनी कु धाव[illegible]
रब्यो कुरतां घातः ॥ २२६ ॥ हो ह राः ऋे दरत[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n619/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n620/mode/1up





दुनां फुता तेनु लागे पाप: ॥ २२१ ॥ वळी = असत्री पा
= आरा पर ख्यसु रे पेः पी तां ना पर ख्य दुः ठोन गर्भः
॥ २२२ ॥ फरे पर ने हांय ख्यांसी = आप: रहु तां लागे
तेनु पांप: ॥ २२३ ॥ वळी = असत्री नर धार नी जगती
ना फरे: सा ख्रुससरां नी सं ख्यां नां हरे: ॥ २२४ ॥
न साहे ने ठांसी नन फरे फेके सा: पाप सी = असत्री
फसी = अंते = अपरां हे सा: ॥ २२५ ॥ वळी = असत्री पांनपा
के फरे = अंके फार: ते हिं = ती पारी = आ पे = नरधार:
॥ २२६ ॥ वळी = असत्री = अप गरु सा ख्यां ने धार त [illegible]
त रहु तां पांप लागे ते त सा: ॥ २२७ ॥ वळी = अ [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n622/mode/1up





फरंभ संडांभः तेनफ्रभ डा दे दि पनें फां भः
॥२३५॥ नें=असचो डो=भेभफुलोनरणीः तेनीवा
त सुफफु घरणीः॥२३६॥ नें=असचोनें नांगजीफट
भ सार्नेनानडधारः तें=असचो तो सरनें भोभारः॥२३७॥
परतपरतोसार्नें=असचोनांफरेः नतदिहनें पट
नौनरेः॥२३८॥ नें=असचोवारपरभनांफरेदरे
भः कुकुतोसाजीतेनफरेभः॥२३९॥ नें फोईनरन
भाडेनातः सहुनें भेसाडे=भेफनें भांतः॥२४०॥
नें पोरसनारोवंजीफरेः तेनें पांचे सरव [illegible]
रेः॥२४२॥ नें=असचोनसादनें यडांवे=अ [illegible]

[illegible] ॥२४२॥ [illegible]
[illegible] ॥२४३॥
[illegible]
[illegible] ॥२४४॥ [illegible]
[illegible] ॥२४५॥ [illegible]
[illegible] ॥२४६॥ [illegible]
[illegible]
॥२४७॥ [illegible]
[illegible] ॥२४८॥ [illegible]
[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n624/mode/1up





॥१४९॥ जे अस सचा हो अे अे छल सरवर: नगजे
पाडी सी नगजे पाकर:॥१५०॥ नगजे जाई ब्रह्म
पने व्यापे: रहु तो लागे ते छुपाय:॥१५१॥ जे रात
दीप स सरवे नांर: ते कोल तर्गा नजांदां सार:॥
॥१५२॥ छुनां छुरेनां छुछु पांन: ते अस सचा छु
ही स दीअेनी जांन:॥१५३॥ ले रगा लगा डे छुरे छुा
रगा: पर नं दीपर दीर हरा:॥१५४॥ वर्हि वर पंज
ने ने नार ख्यां अे: ते अस सचा तो गरो दीपाछे अे:॥
॥१५५॥ जे अस सचा सर वे सरल डे: सरवी हि गनं
दीछुरे:॥१५६॥ जे अस सचा न हि गतो जे ... ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n625/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n626/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n627/mode/1up



[illegible] ॥२९१॥ [illegible]
[illegible] ॥२९२॥ [illegible]
[illegible]
॥२९३॥ [illegible]
[illegible] ॥२९४॥ [illegible]
[illegible] ॥२९५॥ [illegible]
[illegible] ॥२९६॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२९७॥ [illegible]
[illegible] ॥२९८॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n628/mode/1up





पूरे पासे आोदर संतांन: ते पाोनी पेरे पूरे छे
सांन: ॥ २७९ ॥ रमा पसु जा पापका आध: धारतां रे
आापु ज्ञात पुजांध: ॥ २८० ॥ रहु तां तेना आपुवाय:
पुरू परतगनां तपानां साय: ॥ २८१ ॥ नें प्रसची
मां प्रे ष्यहुसा न मला: ते वात न नां सां स्वप्यद्व मत
मी: ॥ २८२ ॥ ते पुरू मावधां न आां ले धासू: रहु तां प
प ला जां तेत सू: ॥ २८३ ॥ नें प्रसची स्यांपां नें पुजांप
माां पुरे: ते पा प मी पां न पां सं भ्यांन गमा: ॥ २८४ ॥
प्रे पुपुपुत्यानां साधि नां प्रे: ते तां सवां [illegible]
री धा प्रे: ॥ २८५ ॥ नेगां नेगा च पां ने नुनां [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n629/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n630/mode/1up



realpatidar.com



नी पर ती वंतां नु पा जे द्व रं भा: ते तो कुला = अ = ओत
पा कु रं भा: ॥ १२६३ ॥ नी = अ स ची ने भां न पा सी स न
काल गा रः पं सा स ख सा नी कु नां नु खां भा: ॥ १२६४ ॥
नी = अ स ची कुड कु प र न नां सो कु रं भा: तं न कु
ख डा ठ का = अ पां हां द्व रं भा: ॥ १२६५ ॥ सा स रा नं नी = अ
स ची न पो: स्वा मी ने नं पा डा ने नं पो: ॥ १२६६ ॥ नी
= अ स ची सा ख स स रां नी ग ग ती कु रे: ते तो ग व
सां ग र पां हि त रे: ॥ १२६७ ॥ नी = अ स ची स्वा मी नी स
खां भां न पा न द्व रे: पी क र प सा नी = अ द र कु रे
॥ १२६८ ॥ ते नां न स खा लि स र वं सं सा रः ते

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n631/mode/1up



ऋषि सफळा नानार: ॥१९९॥ नें ऋषि सत्ता नाफ
ळा ऋषि सात वाचांसा: गात नाद सरवेग्रसाना
सा: ॥२००॥ नें ऋषि सत्ता फ्रेफे फ्रात हिपर ऋषि फळजां
ना: ते ऋषि सत्ता फळा ऋषि पद्दपानी: ॥२०१॥ नें ऋषि
सत्ता स्वरूपे ऋषि आद्यारात: नें सघवाफेसा हिठेपर
गात: ॥२०१॥ नें ऋषि सत्ता नें फाफेफाणे नसागो
वार: तेता फळा ऋषि अंतनानार: ॥२०२॥ नें ऋषि स
त्ता फसत फळगो अंतेनर पापा: रुपसरुपे ऋषि अंगे
[illegible] फा: ॥२०३॥ नवानवां फरेवा आर: तेतो
[illegible] ऋषि फसतनी नार: ॥२०४॥ नें नेरात द्यावस

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n632/mode/1up



realpatidar.com

३०५

क्पासुक्रांपा: तेद्दरपतकुनवांसोनांपा: ॥२०५॥
वेंनुवूव्पासेनेपांनपांकि=आंसोक्रांपा: ते तांकुगी
=अंसंख्यसोनांर: ॥२०६॥ वें=असत्रीनेनांआ=अ
संतांख्य: स्वाकुनुवनोनगसोद्दूख्य: ॥२०७॥ सा
नपरनोंहोनगसोक्रांईतसो: ते=असत्रीकुगी
=अपांहांपापसो: ॥२०८॥ वें=असत्री ख्यांसेपांडां
पांड: तेकुपापांकि=आंसोख्यांड: ॥२०९॥ वें कुरप
तसोनकुरे संघात: ते=असत्रीकुगी=अत्रनां
त: ॥२०९॥ वें=असत्रीपुरख्यनपांडिनांपा: [illegible]
=आपेनरांख्यपांनः ॥२१०॥ नपासोवे [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n633/mode/1up



डा जां=भ्रे: तेतां वंननी वा घांरा थाा=भ्रे: ॥२११॥
नें=भ्र सची छान्द छ पन्ह पाहरनेळरे: पसां ध
र स्हतर स्ह पांननाद्दरे: ॥२१२॥ प्रीतनगा पेना
रधारत स्नाः तें=भ्र सची व्रुह=भ्रे पांहां पांप स्नाः
॥२१३॥ स्हख विधा=भ्रे नें हां=भ्रे नारः दोहिलांवे
धां=भ्रे तें नरधारः॥२१४॥ नरधारनें नें मडांवे
दो सः तें=भ्र सची सरनें नधो सः ॥२१५॥ नेंनां
स्वांपी हां=भ्रे हरी नगातः पंसातें नाफांइनवांसां
तः ॥२१६॥ फ्यां ह्रुर्भ हू पार सेंना=भ्रे: तें=भ्र
तां पीसारा थाा=भ्रे: ॥२१७॥ =भ्रे पाव मनत

https://archive.org/details/bk177/page/n634/mode/1up



realpatidar.com

३०१

सतपुरीषानः सतपुरुतेनइ ईनांनः ॥२१८॥
सतें द्रिगोपुषषासुरः सतें षागे घर घर तुरः
॥२१९॥ सतें पर से षांगा षोहेः सतें पर ष षा
षा दुनं होः ॥२२०॥ सतें पुषषा हुनंगा=भ्रेः स
तें पुषषांहें फरुरुं बाहेः ॥२२०॥ सतें करी करा
पुनां अईः सतें अ द्रिद्दे वेदा=भ्रावईः ॥२२२॥ स
तें परषषा आलेसंसारः सतें पुने पांपनांमा
=भ्रांनी सतारः ॥२२२२॥ सतें षरांपारवे वेद=भ्रां
अरेः सतें नांगा नंगाषांफारेः ॥२२३॥ सतें नां[illegible]
प्रपनी=भ्रासः सतें नां=भ्रे सरषापार षा[illegible] ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n635/mode/1up

https://archive.org/details/bk177/page/n636/mode/1up



realpatidar.com

306

मा: सत सगाधा सां संत धर्मा ंसा ॥२३१॥ स
तरांमांजन सरपरां=अे: सत हित रा=अे परसा
पा=अे: ॥२३२॥ सतरप्रपांगत=अपरापद
रूपर लाजे: सतनमी प्रकाश लंपांक रांजे: ॥२३३॥
सतप्रधरांमां यं पापी=आधा: वां पान रूप दरू
धा=आधा: ॥२३४॥ सतप्रचा से पुरस हित्रा पु
न: तेनां पुनतसा छे=अ दन: ॥२३५॥ सत सेप्र
नागसर छोडी=मार: सत सपुदरन लोपेलगा
र: ॥२३६॥ सत=अेला तारां रांका दरूपता: [illegible]
पानीपरापांमां सता: ॥२३७॥ सत देहपत [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n637/mode/1up



वणी: सत संगावता· संदरांवणा· फ्गता
वणी: ॥२३८॥ सतनवानी पातफ्रह्रे: सत
=अक्तातरसोफ्पा=आ द्वरे: ॥२३९॥ सत छ्टा
=अनेनपानांपांप: सत पापी=अवईक्तार=आ
प: ॥२४०॥ =अवफ्सतफ्रदापांनांका: घेरतां
रै=आवफ्परपांका: ॥२४१॥ =अवावमनफ्स
तफ्रापांनः फ्रु=आमफ्न हिदफ्वसापांनः
॥२४२॥ हाकिरी: वरद्वनसोरेहरसासी: फ्रसा
सपारीवात: फ्रनईवणी हिवावणी: तारां
मसंघात: ॥२४३॥ पारासंतां पांहिसरफ्

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n638/mode/1up



realpatidar.com



रसो: पंथना नेरा सरना तेपुर रसो: ॥२४४॥ ता
रेपा आदहना नेहरस्ना गाई: ची ना पोरनी वेद्या
पई: ॥२४५॥ सा द्वा बां ना ने रेहो =अ के दे =अ
न: पार घा पार वा ने अरे पांन: ॥२४६॥ पांन
नई ने दुपर पडे: =अ स्ना पे रेई सवरना पूना
पडे: ॥२४७॥ =अर द्वो पोरनी तां तेगा =अ: पार
घा =अ के सरो वर =आ घी =आ: ॥२४८॥ पोहोर ना
ना ना वेद्या पई: वर द बां ना अडां वी बे हो स
ना: ॥२४९॥ डा हो पार घा पो हो पांत: सरां [illegible]
ने हर खां अंत: ॥२५०॥ नेट ले पारु घा [illegible]

realpatidar.com



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n641/mode/1up



realpatidar.com

वरवंनप्रांह्रथां=अः ॥२६५॥ स कुहरथे ज्ञांनेंह्र
नवेप्रां=अः घेरतीनेंह्र जे कुवपगा=अः ॥२६६॥
नकुरेनगती ह्रखा कुरे गा=अः तेपेसेनवकुसर
=अथा=अः ॥२६७॥ नेंनरनेंसो नको=अ=अती घरको:
कुरे सवारथपातांतको: ॥२६८॥ नेंपरवेहनांन
नाको हेकि: तेनरसंवंनथां=अतेकि: ॥२६९॥ नेंनरकु
रोह्रानेरहेनकाहे=आं: कुवसानें द्विपरनकुरेप्रा=अः
॥२७०॥ गकारती=अववगकानकांरः सोनरहसें
[illegible]रेछारः ॥२७१॥ नेंनरप्रांबापनेबोलेगासः
[illegible]वसा का ठे य डावे=आवः ॥२७२॥ नेंकंरप

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n642/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



प आने पा प्रीदंह: तीनो पांपतसाॅ नकी छीक॥२७३॥
नेनरजूठांजूर अ= आयरे: जूठागवाई सांपने
नरे: ॥२७४॥ = आ आरजूठांने = असत नं पं णीया:
रहु तोसांगतेहे जूदा ख: ॥२७५॥ नेनरसत छोडी
ने = असत = आयरे: = अंने थापसा जेसोपा = आराह
रे: ॥२७६॥ जूठू पोसोने = अंठू पांजे: तेनर पंनक
पाजपा = अं: ॥२७७॥ नेनरगातनाहदसेहतेसोसा:
सोपाजूपा स्हदरपरपांसा: ॥२७८॥ पत्ना सत्य
सापक्ष पपापंत: तेनारजूठा = अंपदपासानो
पे: ॥२७९॥ सजूपा जूपा गहसा स्हदर नांसा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n643/mode/1up

realpatidar.com



[illegible]

॥२८७॥ [illegible]

[illegible] ॥२८८॥ [illegible]

[illegible] ॥२८९॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥२९०॥ [illegible]

[illegible] ॥२९१॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥२९२॥ [illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n645/mode/1up



realpatidar.com

३२३

नधाकुधरेः ॥३००॥ नेनरनतासतीनांनो

दुवांनः तेनरपेसेनवधा=में सवांनः॥३०१॥

नेनरभवाद्दसंवांराथ्यांसाधरेः धांछेसेप

रपरघेरपारेः ॥३०२॥ नेनर तेननाःआवाम्पे

धांवा=आद्दवांः तपेसेनवधा=मेवेदवांः॥३०३॥

नेपरम्पनेपेहो=मेनारः सानवातेवांधकुवा

यारः॥३०४॥=में कु=आघी=मेकुपांछाधरेः तेते

सवांनकुवावांहे=अवतरेः॥३०५॥ नेनरभरांवा

राभरांवरानेकुरेघातः=आंनेभरांवरा

से कृतपातः॥३०६॥ भरांवराकुरसावा

https://archive.org/details/bk177/page/n647/mode/1up



[illegible] ॥३०७॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥३०८॥ [illegible]
[illegible] ॥३०९॥ [illegible]
[illegible]
॥३१०॥ [illegible]
[illegible] ॥३११॥ [illegible]
[illegible] ॥३१२॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥३१३॥ [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n648/mode/1up



realpatidar.com

३२४

[illegible] ॥३२४॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥३२५॥ [illegible]
[illegible] ॥३२६॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥३२७॥ [illegible]
[illegible] ॥३२८॥ [illegible]
[illegible] ॥३२९॥
[illegible]
[illegible] ॥३३०॥ [illegible]

realpatidar.com

रसरवाजेप्रांगनीप्प:॥३२१॥ जेनरनसेहे
हरान्नुनांप्र: वधानंदेजेनप्रनाठांप्र:॥३२२॥
नंदेगरुनेनंदेप्रांहेप्पाप: रकुतासांगेतेकुपांप:
॥३२३॥ परद्धनकारेसांनधा प्ररधपांरा: तृता
कुहे=प्रे सरवेगुरानारा:॥३२४॥ जारा=प्रोत
प्रजारापद्धप्रसार: तेनांप्रंनेकुहेवीसारे:
॥३२५॥ सतप्रारगंजेनरकुरेवीसार: प्रंनस्र
नांईनसेहे=प्रार:॥३२६॥ जो वदे=प्रांजेनरपाजे
प्र: तेनरकुहे=प्रे=प्रोतप्रकुरंप्र:॥३२७॥ जेन
[illegible]न हे=प्रे=प्रतीधरा: कुरेसवारथ=प्राप

https://archive.org/details/bk177/page/n650/mode/1up



realpatidar.com

३२५

स्वा: ॥३२८॥ जेनर दुंनदेखाने पांनेघासरु: पं

दुपनांपाकुता=श्रेतत स्वरु: ॥३२९॥ जेनर दिदेपाकु

ती सांजनां धरे: नत दिवा=श्रासपा=श्रारा कुरे:

॥३३०॥ पिरनरां स्तुजेने खांपः तेनु कुता=श्रे=श्रद

रपीनांपः ॥३३१॥ पर दुनसारे=श्रे कुकुनी सांन:

पात=श्रे कुनी कुछनेवे: ॥३३२॥ कोसा कुरखनें

पासानरनांसा: तेनु कुजनें कुतावख्यांसा: ॥३३३॥

जेनर डाडु=श्रसाडाडुकुरे: कुरपातस्व=श्रतीपांन

नो दुरे: ॥३३४॥ पडांसाडांनापांने=श्रासा:

तो कुता=श्रे=श्रातपनांसा: ॥३३५॥ =श्रे कु=श

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n651/mode/1up



गरुफरे=आपकाके: =अ सत=अ दुरे पनां ख्योले
घरकः ॥३३६॥ =आप सधार धनें गरीब प्यांना:
तेतां फरमा=अे प्याजोंनां का: ॥३३७॥ =अे फरमारी तका
जगतीनो फरे: फरे पतका=अतीपांन दरे: ॥३३८॥
फरमारानो पांटो पीरपांन: तेतां फरमा=अे जा
नोनांन: ॥३३९॥ थोड घरकने नर सांमे दुंन:
=अवसर दान फरेने फूनः ॥३४०॥ अरांपका
पांनव दे पर पांका: तेतां फरमा=अे साथीनां का:
४२ =अे फरफरमनें हुनपेपां=अे: मरतीका
=आपरीगा=अे: ॥३४२॥ सनांपां रनें प्यां

realpatidar.com

३२६

से घरकः पुरखनां प पुरने जे ते तकः ॥३४३॥
जे नर कडकड कसेः ने जो छे संघातेवां सोवसेः
॥३४४॥ पंकाओं लावों ओं लेजेहेः ओ जो पुर
ख पुरने जे तेहेः ॥३४५॥ सत हाव स जे नर
पुरे हुआरः पकागरथे जे ओं ले सारः ॥३४६॥
धनतको जे नर पुरे ने जे पुरारः ते तो पुरख नो जो
सारः ॥३४७॥ जे नर गुन खांस पांहे रंगः ने आ
पने आं पकरपखां को नंगः ॥३४८॥ गा ठगरथ ने
दरपु खां ने जेः ते तो पुरख सो धो धा ने जेः ॥[illegible]
परध नको रे सपुवा हु वां पुांजेः सतवं[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n653/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com



आणीनीगाजुक=ओर्तीके: ॥३५७॥ पांन=आपीजुां

छपाणीजुाइनती: सुष्यसंताजुणेपांनवरती:

॥३५८॥ रेसरेकीआसरवेगुआणांसः आथाणीगा

तेपरपांसः ॥३५९॥ रांतद्दावसणेनरष्या=आपा

न: संणनसांजुवपणेणे ष्यासेपांन: ॥३६०॥

द्दांगतीजुांपाजुांणेनवजुरे: =आजुनीगापरद्दा

=आयरे: ॥३६१॥ पेसांवसथनपेरेनरणेकी:

सष्युनीननननजुरेतीके: ॥३६२॥ ष्यारुष्यांरुणे

नरपरकरे: ष्याणीनीगातेपरद्दा=आयरे: ॥३६

गातनेद्दांसेनकानेजुपांन: =आपसरष्या

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n655/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n656/mode/1up



realpatidar.com



र सुखी=आं ळई=अ संसारः ॥३९१॥ जेनी गाठे हो=अ
धः मिल रे भंन सुध रे पूनः ॥३९२॥ हरी हर नगात
हरी गुरु सरांमः पीं जो सुखी=आं तेनु नामः ॥३९३॥ दे
खले खोजे नवधुरेः धन धारसा परदेस नुपारः ॥३९४॥
जेनर पी=आरी नधुरे भातांतः =ची जो सुखी=आं
ते सुखा धुहुवातः ॥३९५॥ जेनर नेदेखे भानहरी
गः परहरे सोजनें साधुं जोगः ॥३९६॥ नी दराधुरे
धन हातें ने सरखोः भाभी सुखी=आं भरघजो
खोः ॥३९७॥ जेने धीरज धी=अर हे=अ धों वाडः ने
दिठों ने धुरे पडवाडः ॥३९८॥ भाभी रखा ने धुः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n657/mode/1up

realpatidar.com



वरद्दनासारे पारघ=आनघजद्दंनः तंपदरसम
पाहा=ओफुन पूंनः॥३८६॥ वरद्दनासारे अकुफुहा
नेपः पारघतंपे तोफुहा=ओ पो रां देपः॥३८७॥
=ओ कुपातफुन हईंदपसाः पा सा=आदपानेफा
रा=आपासाः॥३८८॥ नेनरसुपे सदां=ओ=आद्दारात्ः
संघपांपेसोद्दुपरनात्ः॥३८९॥ नेनरनेपत
पतारथपरतनोकुरेः तं=आदपापारघ=आपरेः
॥३९०॥ =आदसद्दतारथपरतनोन रकुरेः ग=आ
पंतनईनेपंदनोद्दरेः॥३९१॥ =ओको=सापु
पा=आद्दारेनरनेहेः पानो=आदपा कुहा=

realpatidar.com

[illegible]

३२०

आपासा पर घाओ सरे: ॥ ३९९ ॥ पेर वडे नं
नर ओ जागा क्रे: घर पुत्र पर देसे पारे:
॥ ४०० ॥ नं नर वर तद्धरे पनां क्रे ओ क्रा द सा:
तें तां क्रता ओ नो आ पासी: ॥ ४०१ ॥ नं नर वे
द्धमसोने सो पे क्रे पा: अव सर आवेन क्र
रे द्धरे पा: ॥ ४०२ ॥ भाई अर नी नें पाने ओसा: तें
तां आपासी सोथी नासा: ॥ ४०३ ॥ वर द्धम सारे
पर घरां न रा सर खे क्रे: पे सा ओ क्र वात
नां फ्रुनं र हां खर खरे: ॥ ४०४ ॥ पर घा पड [illegible]
पे क्रतां वा आर: द्ध र पा पां पी तें क्रां सा सां [illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n661/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n662/mode/1up



realpatidar.com



नसनांनां कोप्राईः सोथा द्दर जीनां कां सां ईः
॥४२३॥ जेनर जांतजी तानें द्दू नवेघ करुः उल
का मांलें अ सजीत करुः ॥४२४॥ पर द्दू नवेनें द्दां
करेजांनः ते पापी न सो नरगनांनः ॥४२५॥ ज
त गावाईन रेनें कां घणेः अद कूल ईनें बसे सो
अः ॥४२६॥ सो घा सरकनेंनी उाजकरेः तेनां नें
पांपी पर घ आं उरेः ॥४२७॥ जेनर नें लो न करी
द्ध बहू अती घणांः ते अवन सबों लें नरकान का
तकाः ॥४२८॥ अपर द्दर सरकानूनें जोडे जांनः ज
नों पापी तेनें नांनः ॥४२९॥ पर द्दू न कोरे जार

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

॥४२६॥ सो कुपां बोले तेण सत्ते कि: ते नी सुरो
तेन कुकि: ॥४२७॥ नेनर वा सावई कोट वासे:
अर सो कुनी न कुरे आ स: ॥४२८॥ पा ओ पा एअ
ती न व कुरे: ओ धा सु रो पार घ आयरे: ॥४२८॥
ओ कुकुर पानी पां आ कुरे: धु आ न कि एते सां
पिधरे: ॥४२९॥ पार गो णा ता वी ए अ पां र: ओ
कुका ए रते संसार: ॥४३०॥ नेनर लख ओ कुरे
आर: कुरता पुन पूछे परवार: ॥४३१॥ कासा नें
खपा नेनेन पडे घररस: पीणा कुा एर तेनं नां
सा: ॥४३२॥ नेनर ती रधनां कुरेन: परदे स

https://archive.org/details/bk177/page/n665/mode/1up



घेरसेठांवातोघरगोरीकरे: ॥४३३॥ सां=ग्रंप्रागो
ने=आपेहांना: चीनोक्रां=प्रेरतेकनांमा: ॥४३४॥
जेनरकहइ५ सतनापहरे: =ग्रंनेसोनानीवांत
घरगोरीकरे: ॥४३५॥ हेवहरेमानोननांसोसांर:
साखाकरा=प्रेरतेसंसार: ॥४३६॥ पारहनसोपार
घतनांसा: तांहांगु<sup></sup>सातोमांहांपरमांसा: ॥४३७॥
पंसा=प्रेकवांतक्रिपनीमनकइ=प्रे: क्रोसाजीकूने
क्रोसाखाकूकइ=प्रे: ॥४३८॥ जीकूनोजनजीठोनां
: जीठोमांकुतनेनोसरवोसाह: ॥४३९॥ जीठ
पनीसुहरवांसा: जीकूतेनरहेनजांसा: ॥४४०॥

realpatidar.com

realpatidar.com



पा तू जोग नपां हि पार: पोजपी ठातर सांपीने
नीर: ॥४४१॥ लोजी ने पीर तूसांगो हंन: दर पीने
पीर तूसांगो पून: ॥४४२॥ जोगा ने पीर तूसा गोगोनां
न: जोगा ने पीर तू सांगो पांन: ॥४४३॥ सूरा तं सोज
न पीर तू सां र: = अस जात सो पां न पी ठा सरागार:
॥४४४॥ जगत ने पीर तू हरा तू ना पा: सां धू पीर तू
पई क्षोर ठांपा: ॥४४५॥ = अे कूकूड वू नें पा थे रस:
पसां कूड वू नें पो रा न हंन: ॥४४६॥ पसां कूड व
नें कूल ठ घेरना र: = अे वू कूड व न गा सांसां र:
॥४४७॥ पसां कूड वूनें लोगें जूप: पो नू कू

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n667/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n668/mode/1up



realpatidar.com



ભાઓરધૃતારોકરીજે: ॥૪૫૪॥ સાધતને સાંધે
કરંજે: પરપંચકોઈન. નકરે જે ધરંજે: ॥૪૫૫॥
કુડકાંધજાંનાંકોધરઃ સાધનાજકરીજે
તતકાઃ ॥૪૫૬॥ પાપધકોનનરખાજેજપારઃ
ધરંજેજધરંજનાંકરેવાચાઃ ॥૪૫૭॥ જાજેખાપ
નીનેજગતીકરેઃ ખાનીસાધજારધજેઓસરેઃ
॥૪૫૮॥ નેનરનેલોકરીજેજેપ્રતીધકાઃ જેનેજ
॥૪૫૯॥
રજનાંખોજેપોજેતકાઃ ડીઠેજાપડીઠેનાંજે
ચીનેસાધવેનસાનજથાજે: ॥૪૬૦॥ નેનર
ઠેખેસેજેઆતંજ સાથઃ કુડકપરનીનનાંસ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n669/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

[illegible]
[illegible] ॥ ૪૬૭ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૪૬૮ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૪૬૯ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ૪૭૦ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૪૭૧ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ૪૭૨ ॥ [illegible]
[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n671/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n672/mode/1up



realpatidar.com

३२६

०र हि=हेवर द्रव्य लांहा: ज हिद वंदा सरव नग हान
हा:॥४८१॥ अनी सल पिहागरहा वपांहा: तेह
री पूजा फल पार नाहा:॥४८२॥ नंघर सर पू
जा हुजा=हे: नात नवी प्रीत सो=हे:॥४८३॥ प
रांस रूपवंता पास पसे जांहा: तेहरी पूजाना
फल पव पांहा:॥४८४॥ फेड पीतापर पे रहासार:
नतन वांछरे संहा धार:॥४८५॥ =हे छु परप
हा=हेर से=हेग: तेहरी पूजानां फल साउंग:
॥४८६॥ पांन फूल नांनां नांचंग: =हे जा न
पा सपा फूटे नवरंग:॥४८७॥ =हे ...

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n673/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n674/mode/1up



realpatidar.com



नथा सः आवेन रणें हेः न रहां णो ख्यापान दे ख्येते
हेः ॥ ५९५ ॥ आर ख्यां हानो ष्फे रो रष्यैः तं हरा पू
जोंना ष्फा पा पा रधा ः आो यरेः ॥ ५९६ ॥ पा र धन
हो रे धंन धेन तकपा रगाः तं पा ने हांणे ः अपरहा पर
सरगाः ॥ ५९७ ॥ संकु पाणेन पाता ः आंहो संसा
रः ध रं पात हा ता णा हो यी आरः ॥ ५९८ ॥ ः अे पा
फरतांणो हु ः आो पर न्यातः कणा रे पा रधा ः अे हा
संघातः ॥ ५९९ ॥ पोकुलांवां पा रधाने सं यरोः
ः अे र लं पर धना यो द्वित रोः ॥ ६०० ॥ द्वित रतां पां
ना हे ठांपडेः ते तां ई सप रनी पणां यडेः ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n675/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n676/mode/1up



realpatidar.com



अ सत्री तारीग ताआंरः॥प०९॥ आ पृ रतनप

धारधिसारः जे पांगते आ पृ सारः॥प१०॥ अेवा

तनरी नरनई प्रे आसरः सत जीतावरा नण

फरः॥प११॥ सासोवरदणारे धारु नरसीः ता

रे वितरा सहरताश्री नरीतरनाः॥प१२॥ जांनवांनि

यंताफरेवासांरः द खणफ आसांसांसांरः

॥प१३॥ जेनणारा सारवे अपा वागा अंः तेतांजी

सह अनारधीधी अंः॥प१४॥ अजांसांणवनी

फीदाधातः तेनी फांईनजांसावातः॥प१५॥

वापीवांफरजाणहहां अंः दां नसी वंवा

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n678/mode/1up



realpatidar.com

३२८

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n679/mode/1up

https://archive.org/details/bk177/page/n680/mode/1up





॥ पद ३७ ॥ घरका घरकाना भ्रातसजां रः सायवां
तना कुकवी सारः ॥ पद ३८ ॥ पंनपां कुकते घरकाः
साचपाकने कुकतेत काः ॥ पद ३९ ॥ आपां हांडो
पंनपां हिपरोः जपचा हो अेकुना सांयरोः
॥ पद ४० ॥ अेपकुरता नो कुओ परपांतः घरनी
हिपनी पंनपां पांतः ॥ पद ४१ ॥ तेरा कुराकु पंनपां
रहाः पांहीनापाने भांकासां घी हाः ॥ पद ४२ ॥ नेर
सेकुई अेकुने घगाः करका अेकु तां हां आपासं
सरीः ॥ पद ४३ ॥ नेरसेकुरे कहू भांकाः करका
सरी सात कपांकाः ॥ पद ४४ ॥ हां हां रेवरघत

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n682/mode/1up





सें=आपकता हरिः॥ पद २॥ हरसा=अंकु=आ ठा दितरीः

तंसा=अंवांआं दादा प्परीः॥ पद ३॥ प्प र जां· वास

नप·जा हसर वांजः· घं रतारं=आ कुसां जः

॥ पद ४॥ =अंकु=अ जरतठा ठातां हां· हजसां हरसा

=आपसें ईहांः॥ पद ५॥ हरसा हरसां जवां=अंकुसा

जः =अंनकु जां हपु छे वातः॥ पद ६॥ वा जा=आप

सां दादा सारः· तेनां रप्पे रां प्पतां नां रः॥ पद ७॥

वा जा दादा के जरहा=अंः नं सां नाव सागर जां हे

तरा=अंः॥ पद ८॥ =अं जरनहा पां=अं सं सां रः

वा वातनां कुवां वा जारः॥ पद ९॥ हरस

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n683/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n684/mode/1up



realpatidar.com

332

[illegible] ॥ प ६७ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ प ६८ ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ प ६९ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ प ७० ॥ [illegible]
[illegible] ॥ प ७१ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ प ७२ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ प ७३ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n685/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

realpatidar.com



मकांतं मेळ=प्रेमी वासार:=प्रेवी वातनक=प्रेस
सार:॥ प०२॥ =प्रेकुवारे खडकुलईने साथेजा
र: नेकुं नदखनदे खे संसार:॥ प०२॥ =प्रेरख
सतदरुने घरघे: तारे नारदेवात अलावासर
घे:॥ प०३॥ संकुरवानतीक=प्रेवा द्वार:=प्रेकुवा
तथाक संसार:॥ प०४॥ कंथावारतां सघवाघक:
तेईसपर=प्रोगजानईने कुक:॥ प०५॥ कर खांकुव
पासंसंकुरदक: प स=प्रेवात सकुवा द्वा घरक: प०६॥
वेवानपाकुलोकरखांनो कुारक: खे साजलां वे
करखांने करख:॥ प०७॥ खे ठांकरखां=प्रोवां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n688/mode/1up





[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com



वे संग:॥ =अवछरांनां अेनवानवां रंग:॥६११॥
ज्ञु =अो सुरीनर पुनधारवार: धरंपारांनांज्ञु
=अांतेधार:॥६१२॥ आचवआच तेडांतेलावार:
कुवसापुनज्ञाद्धु संसार:॥६१३॥ आचवआचे
तो =आलेख: जंनपालगानकाधरंपालवलेस:
॥६१४॥ =अंनेकुपुनज्ञाद्धु संसार: तेनांज्ञाइनां
नांसापार:॥६१५॥ =अेनुपाप =अेसापेरेरवकु:
कुरंपाज्ञारसा संजोगेपाकु:॥६१६॥ =अेकुपुनत
र्सो =आधारे: तेसांहितरी =अोपरखोपार:॥६१७॥ =अे
परतज्ञाद्धुसीवरांत: वेतंपेसाजपोसहवां

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n692/mode/1up



realpatidar.com

335

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n693/mode/1up





339

पांडुवने परसात तंपरां ए: अं गुर शेख्ये हीये तो
नीए: ॥१॥ अरनें नव्यो लो आदर गुरी: वात अ
गु सान भणी करी: ॥२॥ गुव कापांपीनें पागलाथि
आ: अंनें एगु आसका ल्ये सार आं: ॥३॥ गुव
कापांपेन रः रंगुणें था ए: व सच कासा नें हृय
भगुथा ए: ॥४॥ अं द्वांथ आतें यो कान पाप: गु
कागुर संनम आपां आप: ॥५॥ गु कां गुर सन
मगुभणापती: ओ अरनें न पूछे येनती: ॥६॥
तांरे पांडुव परते प्यो लां श्री नगवांन: सान भो
रनें न अंक्द्व आन: ॥७॥ धरांव भ रंभवांन ॥८॥

https://archive.org/details/bk177/page/n695/mode/1up



री: कलांभाणे ए करता करी: ॥८॥ =अपापणाप
नेनाष्मीधात: पांगपाथे=आ तेतेसा पांप: ॥९॥
प्रं स्तावसच करांवीप्र =अतीत णीतस्तां: =अंनेनं
नपपांपतां की धांधास्तां: ॥१०॥ देवतस्ताने=आ
स्ताद=आं: तेवसचकीस्ताने कप्रपाथे=आं: ॥११॥
=अेकु=अेपापाईने=अ पगारकां: तेदूरथे कीदे आ
पदी=आं: ॥१२॥ सापेरकीने की धासांन: तेनारं
धाता=अरणेंनपांन: ॥१३॥ =अरणें नपूछे=आद
कुरी: पात=अेकुसाप्रपाणे करी: ॥१४॥ =अेकु
करां पातीनी कुंठे पांपा: तेकुवस्ताप्रंने=आं

realpatidar.com

પ્રેમ=આ જ:॥૧૫॥ =એવ તેણ તારંગ ચડે: પેરસા
પરીધા=અંગે લડસડે:॥૧૬॥ તારે પાંડવ પરતેખા
લાંશી નગપાંન: સાનલાં=અરજણ ન=એ ક્યાઇ=આ
ન:॥૧૭॥ ગા પત દાંન ગા પાતા પાંદાદ્ધાં: તેને ક્રા રા
પાતી પાં કીર્ની ક્યા દ્ધાં:॥૧૮॥ પ છગ ઠ્ઠીવા પર ની પારે
ગ=આં: ના તીપાં ના પાર તાં નઇ ધ=આં:॥૧૯॥ તેણ
પતેણ તારંગ ચડે: પેરસા પરીધા=અંગે લડસ
ડે:॥૨૦॥ પછે=અરજણ ના ખોલાં=આદરવ્યા: પાં
ત=એવ સાનાંપાની કરા:॥૨૧॥ =એવ વાદ્દરખાં
ખેના રાયઇ: જીવસા પાંપ ને વા ગરા કરા:॥૨૨

https://archive.org/details/bk177/page/n697/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

३३२५

पांढ्मपख तांहां हाडा घाख: ॥३०॥ पछे पांखाव

पे परनेघेर=अवतरे: मरणीजने रांडानर

धारपमरे: ॥३१॥ =अेवनेजालेपार सनेहातीनां

रे: सासससरांसखरतीवडवाड: ॥३२॥ =अेव

घरणींघ=आपतांपरे: तेपांपेपरघेरपांशान रे:

॥३३॥ सासससरांव संतांपूजांन: तेपांपे हां

सी=अरनंना: ॥३४॥ पछे=अरनंनजालां=आदरव

री: वात=अेव सांनघणीहरी: ॥३५॥ =अेवजां

रंपछेनरनेनार: पांपंपंडनेसखपांससांर:

॥३६॥ नींनो ह्री=अेतेपांसे=अपार: घरणां=अेव

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n699/mode/1up



तानो पर वांरः ॥३१॥ सकु=आवीने लोंगो पां=ओः
तत खां कु सांपे पां=ओः ॥३०॥ तनर पल गोलों
रेः तनां पां ननी वा कु हा सां कुरेः ॥३२॥ तारे पां
उवपर तलो सां श्री नगा वांनः साजा पां=अर
नेन=अे कु दे=आनः ॥४०॥ =अे कुगारी वनारी कु
=अेरा सांवीगईः आपा=आपे नई दि नीरईः
॥४१॥ तने पांनावादे=आनो कुरीः नेनरसंघा
त कि तजधीः ॥४२॥ ते संसार सुख पां पावधीः
रा दे वजपां हाव कुवा हां प्रीः तन कुरीः ॥४३॥
रवार नी द खां=आ खां=अवतराः तेने=अंत

https://archive.org/details/bk177/page/n700/mode/1up



realpatidar.com



रसंदननां था = अ सें पनवरी: ॥५४॥ = अपसं
नदरनों पांन: = अ पराातरों नों = अरनंन: ॥५५॥
= अक = अंगनें = अक = अदांसः: ५ाढ पछ छ ता स की
परपांसः: ॥५प॥ तारें = अरनंन प्यां सां = आदरक
री: पातें = अकसा नपनों करी: ॥५६॥ पांतां = अ
पुत्र परीनंन पी = आः: कुवरा पां चनें वीदपथ
= आः: ॥५७॥ नंन पदपी = आतेंनरपारें: कुरीक
सारनें पेंरनोंनारें: ॥५८॥ नता सांनं कीठा धारना
नारें: वईपडे पी = आरें दां = आरें: ॥५९॥ पछें = अ
नरें = आठ पारना रनवेंहें: = अपधप गद नां न

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n701/mode/1up



રેહિ: ॥ ૫૦ ॥ સાંગ્રહ્યો નેળ જ જાંપતી: =ગ્રે= અરતનેં
નો પૂછવા નતી: ॥ ૫૧ ॥ તારે પાંડવ પરતે બોલ્યાં
શ્રી નગવાંનઃ સાન જા = અરતનેં ન = ગ્રેહ દે = આનઃ
॥ ૫૨ ॥ ગ્રવાગ્રૂં દન = અંગે સેજ નળ રે: વ ધા તે = અ
તી સાંનાં = અંગે = આ ચ રે: ॥ ૫૩ ॥ જાકી જા = આજાતે
નરપરે: પરનારી સ પ્રીત નવ રે: ॥ ૫૪ ॥ વધાપ
સ્વખાં સાળ રાંવેનર નેહિ: વાદ ફાયદ નેં = અવત
રેત હિ: ॥ ૫૫ ॥ તળ દે ખે સ્વખ સંસાર: નેં સાં કરી
ન = આ રા ના રઃ ॥ ૫૬ ॥ વધા ધ્યો = ગ્રે ળ દે સનો રાંને
= ગ્રે: તતા તાં હાં વાં જેગા = ગ્રે: ॥ ૫૭ ॥ ચડાવારી

सर्वे=आपेगाधा रांजने सरअडांवेनारः॥ पत

तेपछ=आपंसाछ्यनांगा=आंः वकातातेवईआं

प=आंः॥ ५९॥ पछे=अरणें नलोलां=आ१६२७

रीः वातत=अंछसानवानों हरीः॥ ६०॥=अंछन

रदासेछे वेवारी=आंः छपसापूनणें पांपी=आंः

॥ ६१॥ रहिवावासस्थानछणें हिः=अंपस्थ=आ

पूछेतेहिः॥ ६२॥ हुलापांलदासेनांपी=आंः=अंवा

स्थनोंगावेवेवारी=आंः॥ ६३॥ छहिछरसनजे

छपापापतीः=अं=अरणनपूछेवेनतीः॥ ६४॥ताते

पाउवपरतेलोलांश्री नगावांनः सांनपा=

https://archive.org/details/bk177/page/n703/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n704/mode/1up



realpatidar.com



तखतीः ॥१०॥ तारे=अरजंन खोलां=आदरफरीः
घात=अंफसाजधर्णो हरीः ॥११॥ =अंफनरना
रीसंर्णोगारेहेः फो=अंफनीखखखरनलेहेः
॥११॥ परखावीनेनाखीर्जोठांरः फवखापांचे
दोहोगाखानांरः ॥१२॥ =अंफनरनारी खेंद्रिजेटीः
खेंद्रिर्णइपर=आद्यानस्रठोः ॥१३॥ =अंफनांनां
धाधातपेतांप्ररेः =अंनकारखातेरवावजेः
॥१४॥ परधोरपरजां दरर्णो=अंः =अंनकारखा
=आंदासाधा=अंः ॥१५॥ तारेपांडवपरतेखोलां
श्री नगायांनः सांनधों=अरजंन=अंके द्वि=अं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n705/mode/1up



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n706/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



धर्मपात पवांजरे: धनवंता भकुसंकां जरे:

॥८४॥ संत भकु ते धरनी पांनः ए ज्ञान सांभलो

रनांनः ॥८५॥ ए कुन धरम वा पाल दिसा ए

वासः पासे पगा सां पे भवासः ॥८६॥ काथी तेने

ज्ञाना संजुले: पा वाती नी पुठे पले: ॥८७॥ दिस

प दिसे तेना ज्ञांसाः ए पुरांन साचा परवांसाः

॥८८॥ सभ वांचीन तेना रे भांकुरे: ज्ञांने तेना

सरपर छतर छरे: ॥८९॥ कुन कुथां नपां रां ए

वासः ए ज्ञात पांले भे कांकुव वासः ॥९०॥

गुसांगा नांन पां कि ज्ञांगा वाथां ए: रूप ते

https://archive.org/details/bk177/page/n707/mode/1up



कुनवना=अ्री: ॥ दूहो १ ॥ नी उुकु छ्क ते घरनो पांन: पर
घांनपरांतरो पूछ=अरनेन: ॥ दूहो २ ॥ तारे पांउ
परते थोसांआ नगावांन: सानथो=अरनेन
=अ्री कु द्दि=आन: ॥ दूहो ३ ॥ ज्यो=अ्री कुपांहां सतवाद्याध
=अ्री: तेईसपवरे=आवानेर=अ्री: ॥ दूहो ४ ॥ =आगोत
तांघारवेवारा=अ्री: ततपसाथईनेतपकुरवां
ग=अ्री: ॥ दूहो ५ ॥ तसेनासा रूपेथ=अ्री: =अ्रंने=अ
कसाठतीरथेगा=अ्री: ॥ दूहो ६ ॥ ज्यारे कु=असपपांप
तां=आर: तेजुथ्यारे हितावंन थ्योजार: ॥ दूहो ७ ॥
पतपकु द्दु=अ्री कु पांन: तेपू पांपां छ=अरनें

realpatidar.com



नः॥१९८॥ पांञ जु=अे दरा सा मन रे=आंः तहेंस
मारनारां नाधि=अोः॥१९९॥ सतावी स वर स
=अे वा सेवा कुरीः =अे कु पांने=अो रांद्यां करीः॥२००॥
तने पर जुध=आ पर सांनः तने सर वे सो पु=अ
रनंनः॥२०१॥ प छे=अ रनंन मोलां=आ दर कु रीः
वात=अे कु सां जल नो करीः॥२०२॥ =अे कु नेन व
साधरनी नारः नव मे कुर पापर वारः॥२०३॥
=अे कु नी रांत द्याव स जाके छे कुं=आंः कुव सा पां
पनं कुं छी=आं धि=आः॥२०४॥ =अे कु ने सो सादकु
नेन सर सो कुंनेः =अे कुन सं पाजा सां पजे सां [illegible] ॥२०५

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n709/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n710/mode/1up



realpatidar.com



[illegible] ॥ ११२ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ ११३ ॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ११४ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ ११५ ॥ [illegible]

[illegible] ११६ ॥

[illegible]

[illegible] ॥ ११७ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ ११८ ॥ [illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n711/mode/1up



realpatidar.com

न=अंके द्दि=आनीः ॥ ११९ ॥ नें सांगी=ज वाचा पर नारि

ताकरीः वचनातेने कुभाकरीः ॥१२०॥ ते कु=आ

नं सा कुछ नवी=आंः न छ ते=अ व गाती=आ रि

=आः ॥ १२१ ॥ =अंके करसावे जे आडेर नभूतः =आर

भ अन्नदृ करे=अ भ दूतः ॥१२२॥ सुरद्वारसंताके

नरेः तेना॰ सेवा सद्गुणो करेः ॥१२३॥ =अंके नर

नारीने परआवी नेमां=अंः वारवातेने वधान

नेआ=अंः ॥१२४॥ ते तकाने वारे परेः तेजवस

रधा ल ते के सं पड़ेः ॥१२५॥ नें सांजुजा केरू ले

दाणः तेनां आलेनें प कांनः ॥१२६॥ हो स

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n712/mode/1up





२ दासावको=ग्रे=आवी=प्रेः गाजने पावातत

व्वरथे=प्रेः ॥२२७॥ गाजजेसावांनेनां=ग्रे·

बारः तांकांजरेतेने फ्रुव्वदेदारः॥२२८॥ पर

पेदना कुरेनरनारी नेकेः नरगतसा=अदको

रीतेकेः॥२२९॥=ग्रे कुनरनांराव्वे दि=आदरकुरीः

व्वे दिपासीने पाकेकरीः॥२३०॥ कुंजकुंजपा=ग्रेसे

पनकुरीः पारसेव्वेसारां परपने दरीः॥२३१॥

पछे करीगेनानने=आपेगा=ग्रेः कुटपसईतव

ईपारनां=ग्रेः॥२३२॥ को=ग्रेकु सकतेनुं कातांव्वां

रः=आंसाठीठे सडावे=आवेः॥२३३॥ पछे तेव

realpatidar.com

realpatidar.com

साकलाकलेः कलाकलाव नारीनरगोपडेः
॥२३४॥ =अंकलाद्धपातांकरे=अंकांरः नीरक
री जातेपी=प्रा[illegible]नांरः॥२३५॥ पछेतपरांसा
धन सकनेरनरद्धारः=प्रांनेपाथेनंपाद्धतनापा
रः॥२३६॥=अंकपरतवरतांसाकरे=प्रपवांसः
आरंपापरीतेपांजेवासः॥२३७॥नेपांरांद्धांस
तसांनेद्धांसः तनेपारतांकाकु=आसपासः॥२३८॥
नेपवाछकुसंगोगा=अंः तंपंअंतांककुकां=अरने
नरां=अंः॥२३९॥नेपापांपावेआंवाकनेः
रआद्धरीनरनारीगा=अं=अंपानेः॥२४०॥ना

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n714/mode/1up



realpatidar.com



रंपरपानंद कृतपुरषा=अैः वईष्कारतका

पांपुपापापां=अैः ॥१४१॥ दें=आनंदरीनें कासं

जारसें: तेनापातकनेनपानांरसेः ॥१४२॥ पां

ऊपत्यो दते आरसा छोडः कहे कवाताबेक

रनोडः ॥१४३॥ ४॥ ✿ ॥ ✿ ॥ ✿ ॥ ✿ ॥

अंनतनां जुग छे: गोरईपापसां हां=अंप बोल

=अः =अंनबोला=अंपरतनुरः पातीवेसातारंना

सीताः नाहीतांआवानेहनुरः ॥१॥ संवतपंनर

नेवरसपरलोतरोः =अंनकारतकनापासः ता

रीखसवंतरसी=अैनांपांछपावी=अैः तपारकुब

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n715/mode/1up



realpatidar.com

पांरः ॥ ६ ॥ तांहां तंम सान कीं नांइ वात कहे=प्रेः=प्रांने
कहे=प्रेते सायांआपः हम कां तांवे जा अरयनोः
तंम सकजांगा छी=प्रापः ॥ ७ ॥ =प्रे जकरतांहेन सवापा
रयजी=प्रोः=प्रांनो यडांतेसो ठांजः तांहां लोकसरवे
कआयोथ=प्रांः तांहांथ=प्राजांठां कांजः ॥ ८ ॥ तारेगारइपां
ज सांहां=प्रे=प्ररनकाढीः=प्रांने=प्ररनकरेआवांनेसा
रः हवे पेतां जवजनन कोजे=प्रेः आवां लोकहंस
छी=प्र पारः ॥ ९ ॥ तारे संधु कजांहेथा हाथ कोडे=प्रांः=प्रं
नेकांडांतेगारनीनातेः तांहां लोकदेखता=प्रापा=प्रा...
स आं इ पाप सांहांने हाथः ॥ १० ॥ तांहां इ जांपस...



૩૪૯

તારે ભાભા દ્વિ સરવે રોઈ આં: અંને રોઆ સારીના
ન: આવા ઈમામ સાંહાં બે સના: હમશાંમા તીનુને
હાંકાં મ: ॥ ૧૫ ॥ ઞાપા આ તાંહાં મા રે પૂરાં કરે: અંને
કરાત દ્વિ મનમાં એ: વમાતા તાંહાંથી આસી આં: ગાં
ર આવા દે સનમા એ: ॥ ૧૬ ॥ તાંહાંથી ગાં રઈમાંમ સાં
હાં આસી આ: અંને આવા નુકશાન દાનમાં હે: નેગાં
રઈમામ સાંહાં આવી આ: તે તાબે ઠાં ખાનાં માંહે:
॥ ૧૭ ॥ તારેને માતરાંતે દાવા એ ખાંને આ વી આં:
અંને આવાને માત સાંરે: તે કાં મારા હાં કાને કાંડ
આં: કાગ આ તે ખાના થા ખારે: ॥ ૧૮ ॥ તાંહાંન

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n719/mode/1up



realpatidar.com

पां छांपूरां थे=आ: =अंने थे=आ तेडां ठां भा: द स पंथ
छ गोर रखा सी=आ: आसा ते भांनाथी भार: ॥१९॥
=चडा सा छड हित ां कां भाटा हि: =अंने भाटा हिते भासा
भां कि: तो=अ पंन भान सा वी=आ: गोर ने द्ध ष्ये दल
भां कि: ॥२०॥ तारे गोर ई भाभा सां कां भो सी=आ: =अं
ने भो सा नें भात ने साथे: तं पं सई=अ द स द छ छ
टी भांन नो: पा र छ भा र दान नी भात: ॥२१॥ तारे
ने भात व चारी ने भो सी=आ: =अं ने भो सां ई भां भ
सां कां ने साथे: तां कां पार छ भा र दान नो छ भ सी
:तं पने पाती न दा दा कांथे: ॥२२॥ तां कां रे गो

रईपापसांहांव्योलीञ्राः तंपंसानपापजान
पारः ञ्रंपंनहाकुछपातञ्रंः नांईपांतञ्रंतं
पारांपीरः ॥२३॥ तांहांधागारईपांपसांहांसाला
ञ्रांः ञ्रंनंसालातंगापनंव्यारः तारिपरपाजखां
नांकुंडञ्रावाञ्रांः तंपंकुरांञ्रंपारासारः ॥२४॥
तांहांपरपाजखांनांव्योलीञ्रांः ञ्रंनंकुवालागां
पातः नपाकुरातंपंसालनांः व्यावाञ्रावांञ्रं
पारेसाधिः ॥२५॥ तांहांदसपपांकुछटांहिः ञ्रं
नांछुरांतंहांठांपः तंपंनपाकुरानेसांलीञ्रांः गां
रेञ्रासासदादीञ्रपारः ॥२६॥ तांहांपकुगारर

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n721/mode/1up



[illegible]

ખી=પ્રેમ ને=પ્રો ધા ખાં: ના સાં હુંઈ હુગા રી ખ દ ર વે

સ: તા રે પુ ખી ગા લા જા આ લી=પ્રાં: ગ=પ્રા સાં હાં ની

ગુ રની ધાં સ: ॥૩૨॥ તા રે હાથ ની ડ ને પુ ખા કિ નાં ર

=પ્રા: =પ્રાં ને હુ રે છ=પ્રા ર દા સ: સાં હાં જ હુંઈ હુ ગા રી

ખ=પ્રા વી=પ્રા: તે=પ્રા વા=પ્રાં ધા રે ધા સ: ॥૩૨॥ તા રે

હુ ર સાં હાં હ સી ને ખો લી=પ્રા: =પ્રાં ને ખો લી=પ્રા પુ ખા

ને સાથ: ૩૪ જ વ તાં ધા રાં હુઈ=પ્રે: તં પે હુ રા ખ

ન ધા ત હાથ: ॥૩૩॥ તાં હાં=પ્રાં ધા ર ધા ની પુ ખા=પ્રા વી

=પ્રાં: =પ્રાં ને=પ્રા વી=પ્રા ગા ર ની ધા સે=પ્રા ન: પુ ખા રા

પી સા વી ખા હ ર ગ=પ્રા: તે ગ=પ્રા ખા વાં ને હુ ાં ન:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n723/mode/1up



ટાંપાવિઝા ની=અંધારતા=અંગારલાવી=આં: =અંની=અં
ધાં=અળજર=અપાર: તંથીઈહા=આવીનીને ધાળી: તેધા
રાં ળીસા છીનાધાવીઝાર: ॥૩૫॥ તારેસાઈ=અદ સ્યુ
ળુથાબાવી લી=આં: =અંનીગારીબ=અંધારી=આસ: દેદા
રળાંની=આવી=આં: તે=આવાસાંહાજની પાંસ: ॥૩૬॥
બંદાગલાધાની=આંધાખ: =અંનીનાંહાળાઈળુખા
નીનાત: પખરી=નીનીદાડિગાર બાલી=આં: તાંહાંબા
લાધ્રુપાની સંઘાત: ॥૩૭॥ =અરની=અધારીનઈની
ળુની: ઈધાધ સાંહાં=અંધાડૂનાંધા: દેદારળાંરલા
ધાલી=આ: =આનંદનો=આછે ચન: ॥૩૮॥ વારેબા

३५२

पीरसा पनांरसा=अां: =अंनेई तांगा र=अ वतार: तां

हां सेवा करवा सागा=अां: नांई अनंत तव कहु=अपां

र: ॥ ३९ ॥ तां हां थी करणी फरीने आसी=अां: =अंने

ग=अा सांहांजने ठाम: =अा दे दार करसा वार जुव:

फेरी छे ई पापा सांहां=अं पारनां ग: ॥ ४० ॥ तांहां नर

नी मार सां=अ ह कप का दां: =अंने का दां कपाने=अ

हे: =अं पे थाव रवा रें=आव सः =अा [illegible] स्त ते पानां

पां हे: ॥ ४१ ॥ नांई थाव रवा रें=आ वा=अां: =अंने=अ

वा नर सांहां=अ वतार: दे दार करो ठां सांहां=अ सा तरां: ।

तां हां रांजा थे=आ=अ पार: ॥ ४२ ॥ =अ रन घरसा

https://archive.org/details/bk177/page/n725/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n726/mode/1up





realpatidar.com

તાંહાંથા આવીઆં: આંને સાત કોગાર આરદાં
સ: નેહાં છુ પાન ગાજાં દરંપનાં દાદાં: તેનુ આં
રેહાં આહાંપાસ: ॥ પર ॥ નેહાં દ્રિ ઠાં સરુ ન હાછુ: 
આંને પાઆ સુજા વલા આં: તે ઈહાંના ગાનુ આં
રેહાં: તાંહાં પાંહાં દન પાં છુ સાં આં: ॥ પર ॥ ને ગાતગાં
ગા પાંન હાપા કાં: આંનેન પાકાનુ રને પાર: ઈ
હાંતેજા વાઆ ઠાં રેહાં: ને પુરે છે પાંન જુઠે સાં ટ:
॥ પરુ ॥ નેહાં સુતછુ પાતછુન દ્રિતારા આં: આંનેન
પાકાંગાતગાંગા પાં હિ: ઈહાંતેરેહાતા આતાઆછુ
હિ: પછે પાંહાં દનપાં દુઆ પાઆં: ॥ પ૪ ॥ નેહાં

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n728/mode/1up



realpatidar.com

३५४

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

प्रे: =अंनो कुरे छे=अंनं द: तां हां गा रह सा नो भ्यो
ली=अं: नां ई तं पे स्रुह सा छा पें न द: ।।परई।। तं
ज व तां हां थी भ्यो ली=अं: =अंनें भ्यो ली=अ गा र
सु=आप: =अं पे पा र कु भ्या र हा न सेवा=अं: नें
सा सेवां तं पां रो भ्यां प: ।।६०।। तं कां र सा ज व रं पें
नें पे: =अं नं पा सा=अंनदनां रां नें: पं सा=अं पा रा कु
डि नें ज व भ्यं ठां: तें नां कुं वा था सें कां नें: ।।६१।। कु र त
भ्य कु पां ई नें नी नें या ह से: =अं नें तं या प्र पा तं भ्यां
=अं: तं नें पां हां द न=अा न नां सा नों: नां ई पा द न वं धां
नां=अं: ।।६२।। नें गा र पा र कु भ्या र हा न कु हा=अं:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n730/mode/1up



realpatidar.com

३५५

अंने ते तं पारो छे आप: अं पार तेहुनां पानां नका:
ते दिने पां हां इन आवा आप: ॥६३॥ गोर इ पांप
सां हां फे हे नांइ जुना वरो: अंने सान पां गोरना
पाल: ने सा गोरनां व अन जपानी आ: तेना आ
गपा से आहवाल: ॥६४॥ तां हां धफा गोर रयाला
आं: अंने डा ठां अफ दीवार: पंसा हे दुन ज वनेर
लापारे: नांइ ते रहे ते सा ठार: ॥६५॥ ने सा आवडु
गपां फुरसा फा ढी: अंने तां हां फ ठां ते पा आ: पं
सा इने आपाने नी पांरा प दे: नांइ ते ना पां डां फां
पां भा: ॥६६॥ सतगोर पंनां ने फुरसा फरे: अं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n731/mode/1up



realpatidar.com

तेछहे =अंस जांनना =अे: पंथा =आ ज्म रनातांते
पडे: पछे र द्धफर सा था =अे: ॥ ८७ ॥ नाई सत पं
थ वांना ज्मोरां फई =अे: =अंने ज्मोरां सर वे द्धां जः
पंथा नो =आ लई जां जनी जांनी =अे: तो पो त्या =अे न
सत फ फां जः ॥ ८८ ॥ व जी तां हां थी गोर नां रे आसा
=आं: =अंने =आवा ज्यी ने फ फां जः फ स ल जान
ज वतफ ता =अे: नो ज्यो ठां ते सा ठां जः ॥ ८९ ॥ तां हां ए
फरवेने =अे फस वे: =अंने =अे फफ रे छे =आरदा
स: ने फरां स द फर सल ने जान से: ते पो त्यं
=अे न सतने वा स: ॥ ९० ॥ नो र सल ना दान जांटां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n732/mode/1up



realpatidar.com

૩૫૬

ગુરૂ ઈમ: અંને ગુરાવે અલીનો પરવાર: તેને આ
પણ આંવનાં ગુરા આગુરૂ ઈમ: તાંહાં આવે આરદેદાર:
॥૭૧॥ તાંહાંનન રૂતને હાંગુરા: અંને વસે તેહેંની
આંપાંહ: નેવીરપઈને વપાગસે: પાંઈ તે સત
ગોરપંનાં નાં ઈમ: ॥૭૨॥ ને સતગોર નર પપાર હાં:
અંને સસાપ દાનનો હાંપા: તેનાં પીર સાંપસદા
નનાં ઈમાનો: પીર ન સાર દાન નાં પ: ॥૭૩॥ પાર
સાંહ પ દાન તેને ગુરૂ ઈમ: અંને સોદર દાન સાં
પા: પીર ગુરૂ પાર દાન નાં ઈમાનો: આન ગોર ઈ પાં
ન સાં હાં નાં પા: ॥૭૪॥ નર પહં પદ સાં હાં પર પાં

realpatidar.com

realpatidar.com

अें: अंने तेंनी आसनां प्ररा इथा अें: ते इार इसां
इ आस सें: तेले सेसर घन पां अें: ॥१५॥ तेगार
नांनां सा ध्रां ईनथां अें: अंने नकथा असगार: पां
र ते कुने पाड सें: ता की आवीने देसें देइार: ॥१६॥
र स्रूल व्प रपांने रस्रूल हीन: अंने सां कां असा
नी जार नांन: तेसां हाडे सां कांने रपांनी आं: ते
आन कु पसावे ईपांन: ॥१७॥ नां ईते हाडांनां रु
आपडां: अंने रु आं पडां नसां ई आर: तेनी अं
पल अंपाने नकी: तेस्रूवा इन फर सांलगां र:
॥१८॥ सतगार रुर आपे व्परं पां: अंने पारं

realpatidar.com

३५७

सा परास्नानी सांनः तेहांडे प्पर वर सातां हां ज्ञा
वीज्ञांः पंसानसा वा ज्ञाई प्रांनः ॥ ७९ ॥ सतगो
र सं पं स ज्ञा पे प्पर पांः ज्ञंने सांहांनर्ण फनी
पांरः तेहांडेई प्रांनन सांवीज्ञांः तांहां प्पास
तितांरी ज्ञपारः ॥ ८० ॥ तांहां ज्ञेवा क्रांप ज्ञागेव
ईज्ञा ज्ञांः ज्ञंने थज्ञा ति य फल सथांनः ज्ञंपेज्ञा
हि रथई तिनारहांः नांई तां ज्ञेनसा वाई प्रांनः
॥ ८१ ॥ गुपत क्रांप प्पर पांहिक्राहांः ज्ञंने न सार
हानत ठांपः तंना पार सांहि प्पहानकुवांः तेस्ना
क्राहांपर गार क्रांपः ॥ ८२ ॥ पछे सोहर हाने

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n735/mode/1up



[illegible]
[illegible]
॥८३॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥८४॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥८५॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥८६॥

नेकोर दुगाम मांसांर मांहिः = अंने आी कजरेहे
तातेसा ठांमः तांहांमांहिर ई मांनसांवी = आंः
मांनांठकर धरांचांनामः ॥८१॥ = अंवाहान
गार नामाली = आः = अंनेनर = अससांमसां
मांनीमारः = अंमेह्रि सकलकमां ह्रि मनांः ते
कहा = अं = अवलनां ठांरः ॥८८॥ तांहां मारकमा
रहानकुवांः = अंने हानका = आमांहिरः पंरा ह्रिस
कलके परमां हा = आः ते सकनरांमांवेवांरः
॥८९॥ माहिकमारामकसलमांनका हांः = अंनेका
हां मकु = अमांरः = अंकमकसल मांनने परम

realpatidar.com
realpatidar.com

realpatidar.com

दी=आं: ते सुन रां खोवेवार:॥ २५०॥ ते वे वा पांन
र=अ सलांप सांहां रहि:=अंने व्य रंपां ह सन सां
हां पर पांहा:=अ डार फर नेनतेनां हुवां: तेपां
सांत हर पनानांहा:॥ २५१॥ ता रे=अे घ तेनां व्यर
घहि=अे:=अंने व्यू व्यरांईनांप: नांफार सा ह घ
पहिनव्य घहि=अे: तेनां फरांई स ई ह नांहा:॥ २५२॥
=अ सा=अंपां रो हां हां घ ई=अे:=अंने हां हा फात पां
सां र: ह सनां हां सन=आ स घ ई=अे: नां ई=अं
पे तेना पर वार:॥ २५३॥ र सुल सा=अंपा रांना
[illegible]ा घई=अे: =अंने=अ व्य द्ध सां ना परवां र:

https://archive.org/details/bk177/page/n738/mode/1up



realpatidar.com



वी वी =आ सांभातां कुई =प्रे: त =अ वछलानी
नार: ॥ २५४ ॥ वी वी =आ =प्रे सांनानी कुक्ता =प्रे:
=प्रांनो रसूललला छेनासेन: =प्रे वा =प्रां भा रांक्रो
लकुई =प्रे: तं प्रेनु =प्रां वेदक्रो रांसन: ॥ २५५ ॥ नो
=आ लई भा भनानां सात =प्रे: =प्रांनो पीरकुवी
रहानव्याप: नुर सांनी वार कुई =प्रे: =प्रे प्रेवा
साई भांभ सांहां =आप: ॥ २५६ ॥ तांहां धा गार नां
रे आसी =प्रां: =प्रां न छ ठे घ्म सभाने =आप: तारे
नुर सा कुलफनां दैवडा ठां: तांहां डा ठां दांदाने
व्याप: ॥ २५७ ॥ जगत सर रवेतां हां डा ठां: =

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

३५०

ःअेनत पीर सांः ःअेज ज्योलां पेतां जनाथः

॥१०१॥ तं जे सां न जो पेतां जवीनतीः ःअंनेक

ःरुछःआरहा सः ःअंजानें नर सां हां नो नफ्ज

छेः तेनो वाःआवानेवा सः ॥१०२॥ तारे गा र

फजीर हानें कुआ हाहीः ःअंने हाही ई जा ज सां

हांनें जां सः लेःआ कुआ जी रा तं जा तरुणीः तंजे

नजी सरगनावा सः ॥१०३॥ तारे कुआ लई

नें आलीःआंः ःअंनेःआवीःआवई कोरहवाः

तेहरवानें नरवाई लजार सतोरेकेः ने ज्यो लो

तेरा ठारः ॥१०४॥ कोलातं जा रां नां ज जनीः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n741/mode/1up



realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n742/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



सोंनांनी सांभळा रूपांनांनळूयां: ॠषांनेता
रांपोतीनां सरागारः ॠषेमा आंघारे सूरनं
नडांः ने मा सिनांपरऊजपरवारः ॥१०९॥ सों
नांनां व्यार सांमरूपांनी सा ठेः ॠषांने तारां
नडऋनां सरा घारः सोंनांना दरवांनांऊना
ऋषिः तांतां आंऊपोतीनां तांरः ॥११०॥ सार द
रवाने सूरन छेः ॠषांने संदरनांनतापांरः
मांई ॠषि ऊपां सांऊलांतां रेतेः तेऊ ॠषांनवयाऊ
पा ॠषि सारः ॥१११॥ ते दरवाने फेली पांत ॠषावा
ॠषांः ॠषांने ॠषावा ॠषां सरा रीने व्यारः तांतां सां

realpatidar.com

नी इध्रुकुइ=प्रे: जां इकु सतकु री नी गार: ॥ ११२ ॥
व सांव मेकारां रतन नडां: =प्रंनेतनी =प्रंनीप
प सां र: नें सोनाकेरां सेरडां: तां हां इध्रु पां.
धे हार: ॥ ११३ ॥ सोनाकेरां पोन्त कुही =प्रे: =प्रंनेध्रु
पां नाप पी हि सां र: नें हि पर सरपे हारां कुही =प्रे:
तां हां नड=पनी न हापार: ॥ ११४ ॥ सोना केरां नस
=प्राकुही =प्रे: ध्रु पां नां पोन्त इ=प्रा पां धे हार: =प्रोस
रात सा=प्रे पानी गात नां रुपानी: तां हां कु रप र सोप
ध्रु=प्र पार: ॥ ११५ ॥ नें =प्रो सरा पु कुना ने पां हिग=प्रां:
ं न तरमत कु रां रुपां सां र: नें घर पां हि=प्र कुछे

सी॥ आं: ते नूर रूप अनंत अपार: ॥११६॥ पांई तेह
रना पपीआ सांभळो: अने ताहां नूरनो पर
काश: ते छो सो आ आगाध कुरांप से: ते ता
कुरांपु रांप मास: ॥११७॥ ते छो सो आं ह्रि परगा
रणई पीं ठां: अने पीरं पांई पांन सांहां अवता
र: तारे कुरांत धरनवां सांज: ने कुवांधा से हवां
से: ॥११८॥ कुरां ना हाथ पांक्रि पान नां पींडआं:
अने नूर अछे कपनी वाट: कुवां कंथ आव से:
ने ढई अ पांन नां पींड आं हाथ: ॥११९॥ तारे गा
रफ सी ने पी सो आं: अने सांभळो कुरांप आं स: ते

https://archive.org/details/bk177/page/n745/mode/1up



पारांमडथारस्रापसं: नेपुपांईपुरसेसंसं
र: ॥१२०॥ तछांसी=आंनु तंपि सांनपांः=अंने
से=आंपी द्यांव पासाः सांनाटसांतेनांपांई=आ
पुई=अं: रुपांनाई सुपरपांसा: ॥१२१॥ सारांनी
धांरीनापासापुसी=अं: =आंने रुपां=अंनत=अपां
र: तने पसगपो संग आरछे: तांहांनुरां सां
पछासासा र: ॥१२२॥ आरपांई=अे आररत
नपुई=अं:=अंने ते आंधारे परपांसा: तांहां=अे
पुपसां=अपुपै ठो: तेतांआर पुप छांसा: ॥१२३॥
हां रांतपुसतरीपरसं: =आंने दांडे=अंपरत

realpatidar.com

३५३

नोपांपा=प्रे: आंहां कु अहुतांहां न्रुरणा: नांई
नेनें कुंआर तांहां थाप्रे: ॥१२४॥ आर सोवा स
ने सांप छे: =अंने द्रवाणा नोपो स तार:
सोना तेयां रुपां कुई=प्रे: तेपा=प्रे छुन हांस
गार: ॥१२५॥ सेत्र सता हि मंदर व दना: =अंने
सेत्र सुरन ना सां र: तांहां आर आर देवळ
ना: अें ठा प आ स पुरी नां र: ॥१२६॥ तांहां प
आ स पुवरर रें पतां डा ठां: =अंने ते डा ठां सहा
पर पांरुा: डुरांप आ स नोंड नोंड सें: पुवरप
आ स ते ना नांरुा: ॥१२७॥ नोर तांहां थागार सां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n747/mode/1up



सो=आं:=अंने=आवांघरनेआर:=अंकुतांहां
अरांअअांद्वां:नांईतेपांसेआरहार:॥१२८॥
गारतांहांथीनारेआसो=आं:=अंनेहांनकाठां
आर:=अंकुतेपाहें सतनो:तांहांओनोद्दध
नोसार:॥१२९॥ नीनोहांनपांकानोकुहो=अं:
=अंनेयोथीपरसारतकरांन:=अंप=अंपा हां
नतांहांआरछे:तेअंदा=अंकुनेकांन:॥१३०॥
गारतांहांथीनारेआसो=आं:=अंनेपरअडी
कु=अंकु:तेपरअद्विपरपंअीरंपो:नेनातना
तनांपपंकु:॥१३१॥ तेपरअनुनापाकुसप

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n748/mode/1up





छे: अंने हेत पाधे सकर: प आस पुर व र व संत
नी हे ठस: ते तो खां दा पां से हे नर: ॥१३२॥ ते ठेकांसो
पां स प स: अे पर रे हे: तं पांने सर पन पन ने पात आं
ने: तां हां सो पीत नी प हे अे: नां श अे प खां दां ने
पांने: ॥१३३॥ नां रे गोर तां हां थी आस आं: अंने
आ वात खां ग नो वात: ते खां ग नां व खांस सां
न सो: तं पे सर सत थां आर पी आत: ॥१३४॥ प
मां स प स पी स जाड छे: अंने पड अे पर पर पां
सा: ते पां पुस नात नात ना: ते नो अंन तन हेन
र पां सा: ॥१३५॥ खां ग नो ईने गोर आं सा आं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n749/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com



धाफरषा=आतः दुंनदुंनतेपुपानतफांः नेंनपाषा
=आसतगा रनाथीः॥ २४०॥ सरगनेंछनंगार=आ
पी=आंः =आंनं=आवाछछठे=असपानः तांहांव्यांप
दादिधाफरानथें=आंः नें दुंन दुंन ई पापसांहांनां
पः॥ २४१॥ नांरेतांहांथागारयाली=आंः =आंनं=आवां
तेपांयर्पे=असपानः =आंफ=आंदररानां दुपरवसंः
तेफरेरानेंनांदु=आनः॥ २४२॥ नांरेतांहांथागारया
ली=आंः =आंनं=आवातेंयांथें=असपानः =आंफदरु
तारीतांहांवसंः तेरानेंफरे=असपेनंः॥ २४३॥ तांहां
थीगारवषायाली=आंः =आंनं=आवाची नें=असपां

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n752/mode/1up



realpatidar.com

३५६

ताँ=आर पातपासतीनॆ पांस॥ १४८॥ तारॆ दाडापां
यताँ हाँरॆ हाँ=आंनॆ थी=आछॆ तई=आर ताँ हाँ था हाँ
नरआँग साथै सीद्धां बरॆ सथावनॊ थावस ताँर
॥१४९॥ गार ईपापसां हाँ नॊ रॆ आँ सी=आं=आंनॆ
फूटछॆ नॆ नतनां पस साथाथई नॆ थालसॊ ताँ पा
प सॊ=आपापा ठांपस ॥१५०॥ ताँ हाँ थी=आँ कुई रगार
लॊ पी=आं=आंनॆ लावानां कूडा पपांहँ सां हाँ नत
पत तनॊ नी मन नी तंप रथ कुल ताँ कां हँ ॥१५१॥
॥ ❀ ॥ ईर कुरांनानलनकूछ फूजरॆ पांई
ताँ हाँ पकी=आँ कुई रनलावा=आंनॆ लावानां कूड

realpatidar.com

પ પાંહિઃ ॥ ૧ ॥ ફેણ રે ગાંઈઃ ઈર સાયીને અંપાંહિરુ
ર રાંખીઃ અંને છાંસી આતેની હિ છેઃ ॥ ૨ ॥ ફેણ રે ગાં
ઈઃ આ અ નાં પાંસતે નુ નાં પાણી સાંઃ તે સાંહાંનાં
ત ખત પર પાં સાંઃ ॥ ૩ ॥ ફેણ રે ગાંઈઃ છાંસી આં
પાંથી અંપાંરાં તપને ફુ ઈ અંઃ અંને ફુની તેનાત
નતગાં ઠઃ ॥ ૪ ॥ ફેણ રે ગાંઈઃ ગપત ફુંપાં અંપ
ફુનીપરને ફુહાંઃ ફુપાનનેપાનગાંથે સાં આવાંઃ
॥ ૫ ॥ ફેણ રે ગાંઈઃ પાંહાંદનઘાડાં અંપ નાંહિરુ
રીસુઃ તેતેપે સહાપર પાંસાંઃ ॥ ૬ ॥ ફેણ રે ગાંઈઃ
ફુ રની ફુાર ડાં અને ફુર પાંહપાદ સાંહાંપે ઠાંઃ તે

realpatidar.com

realpatidar.com

३५९

पे सांञांपजपनमांईनांक्षाः ॥ १ ॥ केनारे मांईः

गेनांन=अपीरस आसांगारईपांपसांहांः=अं

नेआसा=आतहिअनपांहेः॥ ८ ॥

नरसापेतानां कुहलआछेः गाकेगांवीहर्ने

परक्षांसांरुः स्वद्ध अद्ध हातांवाक्षीपांरुः ॥ २ ॥ अं

वधारपां=अं छांछंधक्षाः नांवेनां अकुडाश्रीपे

तांतक्षाः ॥ २ ॥ कुडांतेश्रीपेतातक्षाः=अंनेवरसा

पअद्धर्नेपानः धंनद्धन नागरनरसा=आंः

नेनांकुनागाछपांठांपः ॥ ३ ॥ तनेकारपांश्रीस

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n756/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

३५८

सनोदपरांपापेघवकठां: नारंगा=अंरांगपलां

र: ॥ ६ ॥ कुवरव्याइनगापतकोद्ध: पोसांक

फरूपोरांर: संवकुनाका सांपवां: तकहुडी=अंनो

संक्रांर: ॥ ७ ॥ वरसावकुवसतार=अंनो: व्रूधनं

=अनूसांर: करघ्यंनंहुडीसानवेः ततरनारनं

नांर: ॥ ८ ॥ मसा=चश्रीनरसीतसां: सकसाधा=अं

पवा=चपंठ: =आंनूवंतानरनांपेः =कुसानांपे

नवष्यांठ: ॥ ९ ॥ तारंतारथवासीवारयासी

=आ: =आवातेपोरीपाहिः आहांवारकांनाहुडी

करंछः सारवप्यारी=आंकांहिः ॥ १० तांहांअ

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n757/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n758/mode/1up





तांहांवीसनवननने आवी हितरांः तेप्रेतातत्का
धरपासाधः ॥ १५ ॥ तेहांतापाफ्रांसीने आसंगवां
तेः संप्परहाधूनगानेः तांहांरांसरंपेदापेद
रणः तांहांगानेप्रेफ्रफुवरांगाणः ॥ १६ ॥ तांहांटकसा
फहांने आधपाः नेअपगानेने आधानः तांहांपडां
छरांपदासीने आः तेप्रेतातत्कापेदरः ॥ १७ ॥ तेहां
गोपीसंदनतलफफलसीः श्री रांपफरसंन
फवाने ओः तेहायलोनदसने अवतारनाः ओ
फपां ताधासीववाने ओः ॥ १८ ॥ तेहांपगोआंधाघू
धरांः नाग्रेछनरपपपांनः तेहारांसं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n759/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n760/mode/1up





सोसोनें गरथे: ॥२३॥ रुपई=आंसोंसातछे:
तेआरनसोनुछेद्धंन: मारयकछेहोवार
कांपां: प्रेतातंपारुपन: ॥२४॥ पनतंतंपंनें
=अरथधासे: =अंपापुनने पेंठांतीरथवासी:
हंसीनांसोनातनी:- पंतसंपारांभी=अवनासी:
॥ कडवा: १ ॥ रांग=आसावरी: =आनें फोरतार
थ=अंपानेंफोधां: नें सोतं=आसोपांकुली=आ रे:
॥वालाजी रे=आपु=आसनने पुनांफोधो: तंप
ते=अंहनालेपरपरी=आरे: ॥ =आनें फोरतारथ
=अंपानेंफोधां: नें सोतं=आहीपांकुली=आरे: =आ

realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n762/mode/1up





नें कहो दासः ॥४॥ वालाजी रे समरसा कहु सांजणा
आणसुं: सुधा से परलु जारां रे: रुदा दिल रां स्यु जेतां
गनकु: न सोवे हिन पादा रां रे: आनंद कार तार थी अंग
न कहो दासः नें सोतें आ हि पोकलो आरेः आनंद कार ता
र थी अंग पानें कहो दासः ॥५॥ वालाजी रे तारथ वा सांजे कहा
तकरकुः संघ तसलकु नें पापा रे: नपा जें दारा नें इस
सारा: तोल सलकु रां कें आरे: ॥ आनंद कार तार थी अ
पानें कहो दासः नें सोतें आ हि पासलकु आरे: आनंद कार
तारथी अंग पानें कहो दासः ॥६॥ वालाजी रे हि रा सुरंग नें
वा गें संगः ठगा कु हां नें वचमा पारां रे: ई आं थी अ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n763/mode/1up



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n764/mode/1up



realpatidar.com

392

तंपीः कुडासखी आपी सक्रु अंपीः ॥२॥ अंपारेनां
तंपारे कुआपान पडे आंः तंपरपी सरनाडारांपे
आडे आंः ॥३॥ सक्रुध कुआरनपा अंतंपात कुकुःपी
कुसातेने पुन डानी घासकुः ॥४॥ संपकुतंपारो
कुडानकुरेः नेसखीते पाछी नवपारेः ॥५॥ पानीनी
आरांपां ठेठः नईने पुछनी सापाप सांसेठाः
॥६॥ तीरथपासा आपांवसेः रुपई आं आसो
सातसेः ॥७॥ ल खी पचा हिं तापापाहे आंः कुडा
आपासापे सतेसे आंः ॥८॥ पे तांजी कु कुरवकु
पः कुडा आपासा कराकुनापः ॥९॥ सांतसांतनां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n765/mode/1up



लो द्वांथी कुः सात सरूप ई=आ लो द्वां रो कुः ॥१०॥ जी
त घार पां कुकां जोरः ख रखी=आ पां सां ना थाजी
रः ॥११॥ नांकां व रा कोशीनव=ओ जा खेः क ई=आंख
रो ध श क कालखेः ॥१२॥ केक नर सी=ओ ना कुकुरनी
कः लनां रां खनी श्रीर सा छांकः ॥१३॥ नां कुर=आ व सी
क री=आ पार कुः तो सोव कुस वांजी नु प क सं पार
खः ॥१४॥ नो ठार ना गारे की द्वा ठगः पारे त=अंक
तं जा रा वगः ॥१५॥ रूप ई=आ जो गा रखा न लो द्वांः त
तं जा नो जो कुर सा ना पुन को द्वांः ॥१६॥ वं वार वद्व
रनो सां जः क का स कार नो=आं चना जाः ॥१७॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n766/mode/1up





नी कु नन सातं प्र पगी श्र प्र:॥ आहुडा नी तं प नं स
रं प्र:॥१८॥ प्रीते करपालो द्यां ता प्र: प छे सं प रां
श्री गा पा पा:॥१९॥ अ र अ रे न शी सो॥ आ स्रु डां अ
रे:॥ नर सा प्रीतो कचे वी न तो करे:॥२०॥ र खे तीर
प पा सी पा छा वरे: ते सो ह खे ण प डो नी सारे:॥२१॥
ता प वा॥ अ ने हरी गु रु सा गा॥ आ: सा प डी॥ आ को था नो
सा॥ अं:॥२२॥ कडवा:३॥ रागपरज॥ अ: परलो ने
नी वं सा॥ अं व सो: स अ पा व र ते पुर सा व सो:॥१॥
प र पा त नो हिता रां प्र द्यां द रु नें॥ आ पु॥ अ व ता अ
प दु:॥२॥ अ दु रां स सा नें रां प्यां ते श्री करा: वे अ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n767/mode/1up



realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n768/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

३९५

ज्ञ सतकृती करीने मुख्य: जेताणे कवे कहे ल ख्य:
॥२७॥ पोरा होवारको सागर ख्रे ठ: सरव ह्नि पमां
नींग सामध सां सेठ: ॥२८॥ ल ख्यतंग सेव वूण
रसीनाम: कल ख्यां पर मा सो करणो खांजा: ॥२९॥
तीरथ पासो हेन नाद्ध सो: तेने सात से रूप ई=आं
ईनो गरसो: ॥३०॥ कोरे मडांवा न करणो ख्यरां: न
वाको रां ने करकरां: ॥३१॥ हिन जातां आने ता पे
मडां: ख्यरां को रां ने अपार नाप डां: ॥३२॥ =आ छां
न ही मोटां मापनां: =आ कुकां न वी छाप नां: ॥३३॥
मोटां मां=आप नींगरसो: ने माया लें=अ डत=आप सो:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n771/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n772/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

सात सां: सतगुरनां सेखन नें खांट:॥ सेव्कारनां
सेवकनां हुकः लखनां कांगलमां कांमथे=प्राकः
वासानां नां हिछवारटे: सेव्कारनां सेवक
नां हुकः॥४॥ नरसां=आंनां कावटः सांकनां
सां कांटावाका: हुकवाकातां हवाकथासे:ता
रे सेवक=आं छसे मावारे:॥ सेव्कारनां सेव
कनां हुकः लखनां कांगलमां कांमथे=आंवः:व
लांनां नां हिछवारटे: सेव्कारनां सेवकनां हु
कः॥५॥ नवारकरसां=आकरसननां: तांछ
नागर साथिकांमा: परमांनंद पटन प्री छ

realpatidar.com

realpatidar.com



नोः भाईभाईरांसभवाभाभाइरेः सेवकारनी

सेवकुनी हुडीः लखमणोजुगालभाहाभाईजी

नः पालाणनो हुंढुवारेः सेवकारनी सेव

कुना हुडीः ॥ ६॥ कुडवाःप ॥ रागढुनारसीः

हुडीआपीनेसागापाईः तारथवासाकरवा

वेहाईः ॥ १॥ रूपईआपाकुकुनीआदधडाः

पासेपेसानेलेनीआडाः ॥ २॥ ननडेतेआव

नीआहानहुडीः वेआनसंघातेआपीसागराः

॥ ३॥ सेठनेआपापेसंगाकुगापाः नाहातेले

नीपारुनापाः ॥ ४॥ वेहाईतेतारथवासाथईः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n775/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n776/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n777/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n778/mode/1up



realpatidar.com

392

[illegible] ॥ २७ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २८ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ २९ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ ३० ॥

[illegible]

[illegible] ॥ ३१ ॥ [illegible]

[illegible] ॥ ३२ ॥ [illegible]

[illegible] ३३

[illegible]

[illegible] ॥ ३४ ॥ [illegible]

realpatidar.com

नर सोहं आनुपनः ॥३५॥ आसा तीरथ वासा थ
ईनरासः तारिहरी अं ना न्हनें सा नो पारोदासः
॥३६॥ वारे अगे आनो दव न्हुपः सी धु सापाप
सां न्ह रुपः ॥३७॥ सांपीः रुप ता सापापासात
रुतुः नो सी धु ईन ई आपाः नरपरपानं दफ्रे फें
पाः फे पापरसापु श्री गो पालः ॥३८॥ फुडवा ६॥
रांगपे वाडः नो दनना अे वाप्पा सी आंः पारो
वा सो नो पे आ छे वा सी आंः ॥१॥ नेनी अगापा अ
ता धु सरीः पारो ना थ पे आ नासावरीः ॥२॥ गोपा
सी फे रां घार पाः पापांती रथ वासा नें वारपाः ॥३॥


https://archive.org/details/bk177/page/n779/mode/1up
realpatidar.com
Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n781/mode/1up



realpatidar.com

सेर पगः अंगे ना आ छे जी सां पर पगः ॥ १२ ॥ पगां अं
आद्या ओरां नें के सरे पोरापार अद्दा से पर पोस
रेः ॥ १३ ॥ सादा तपगे अापे रां कर णः तेनो सी पनां रो
पगे अंदे रणः ॥ १४ ॥ प सअ पा सांअं पे रां सां जोः
पाअं पे रां सांद्दां पोनोः ॥ १५ ॥ पा रां नां धि जनां पें
आपारसोः नार पर पांनां दे नें नो अंनां पारसोः ॥ १६ ॥ सा
धे पा सां अ छे सांतः आं द्द पनें अरन न ना रातः
॥ १७ ॥ कं न पांन पपी अप रुः सा धें सद्दा पोनें पे
द्दरः ॥ १८ ॥ प रा अत नां कां धे पा पां नाः छ ग द्दार द्दा सें
कं न पा नाः ॥ १९ ॥ छ अ र गी स द्दां पे द्द कः वे द्दर ना

realpatidar.com

realpatidar.com



काय पांचई: ॥२०॥ पांरसा ओलेतां तलो: आद्धव
न क्याद्धि क्याधसी: ॥२१॥ अकुरू डगसा वरू डः नंन
कुनां काय पांजुर्डः ॥२२॥ अेंवां सापलो ओं अव
नासो: तनेनोई रकांती रथपासी: ॥२३॥ आपार
अही सेछिनवां: सहर्कु अरथ आपनां हुवां: ॥२४॥
आप कां कुपआं लां सरेकु: आघा आवेने पां छां
सां कु: ॥२५॥ तनां पांननी पारतां नां कां: पछें आं
लां सारगपरां कां: ॥२६॥ कु रां छांलन पापी: तारे
आं लां पेसतगनां पी: ॥२७॥ अं पे कु नागछ धी आ
पा: पेतानरसानी कुकी लां वां: ॥२८॥ मारे सांन

realpatidar.com

realpatidar.com

रकनर सा कुनां पाः तारे द्धा ईर्नें नें रा नगवानाः
||२९|| न रां आस कुनें अ अर्नेः कुका ली द्धीतें य च
कुनेंः ||३०|| तें तांवा आ वेंलो वेलाः श्री कराअं
कुका द्धि कुलीः ||३१|| सांनानगार हें आर कापातीः
नें नें काव सं छंना हवपतीः ||३२|| परकारन
सरवा हें आलः छांगा द्धि अरांपाला परती पां लः
||३३|| सरव द्धि पपानां गा छांस्वापीः नाथ ना
आवरापां हांनापीः ||३४|| परपार थपकुरयांचे
वः सं ह सापावासां वा सुहेवः ||३५|| छंकुनात
ख पांवासः ई तांपर कुत तंपारां द्धासः ||३६||

realpatidar.com

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



ऐ कघदानीनका हिद्वारः तंजे क सा कारणी श्री
जारां रः ॥ ३७ ॥ ऐ पदले खे हि सने: जा स त क
ध्रु र्श्री नगवाने: ॥ ३८ ॥ लखा नु का जसलवले
स: कता रूपद्ध = आ = आप सं हे स: ॥ ३९ ॥ तारथ
पा साने कहि = अवनासी: रूपद्ध = आ = आवा पजुन पा
सी: ॥ ४० ॥ तं जणे ता जारा छा स्त = अे: से ठ सा जा प
सा त क = अे: ॥ ४१ ॥ नरसी = आने वारां चनाने:
= आ नागर जारक छ छाने: ॥ ४२ ॥ करुवा सनव
ने नना संपा: कने = आं दख नर सी = आने पां:
॥ ४३ ॥ प्रीतं जे वारतां संगपी छाहि: नरसाने



https://archive.org/details/bk177/page/n786/mode/1up





रसो: लेयसालोद्वारे:श्रीलखपावरे: प्रेतांजने
श्रीकुरसनज: कवेकुसपवानतीकुरे: ॥१॥ कागा
रलखणनाइ सो=आसुडाछरे: =आद्ववव=आवानकु
रद्वरे: ॥२॥ वे सो सा=आद्वारे=आसुडावेके: =अंपर
=अचाकुघी=आवानंकुवेके: ॥३॥ कुतलनागपारं
कोके: पंसानरसो=आसापानकाको=ओ: ॥४॥ स
पतआकुनांगछ सुनसुधानंगापा: प्रेताश्री
पायनरसोनांपा: ॥५॥ कां पानी अंतांपाकुरसो
तंपे: कहालखपा=आपीसु=अंपे: ॥६॥ =आइ द्वितात
तंपारापायसे: पच्चानीनो द्विछ वाटे: सुनकां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n787/mode/1up



रन श्री हींयारखां:॥ व सवासपारुमाट:॥७॥
अरसतीरथवासीने पचीआपी: नगातनेग
गवांन: नाअ डाववसंघेथआ: करीहुवाअंतर
ध्यान:॥८॥ तारेता रथवासी अवरगसां:व
पाधुरी सासः आपसोडी हां रुपईआ: नवआप
मनगदासः॥९॥ नरसाआने नई पाअपडआ
सामीतारो सेठ: वासाअ ताकुमकु: प्यानासवर्से
सः॥१०॥ सवत सतर ७ ३३ सावरमे आतपपा
सवई साकु: पेदपरते देआपरपांध पीडी आ
चनीआनी साप्स:॥११॥ नयतपान गारगुनरे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n789/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n790/mode/1up



३८५

नेश्री पीरशाहः ॥ ९ ॥ सुखे पापा हे=प्रीगरुने पांसरा:

तारे गापापासापापीसापासरा: ॥ १० ॥ गुरु छे गापापे हुने

गापा सेः=प्रीनं सपाछे वसनी कुपासः ॥ ११ ॥ तेने

नपीन सातांवेनपासोः ई=प्रापासांवसे सरप

पासोः ॥ १२ ॥ पासी घरानां घरांप पेनसी=प्राः पी

तापांसा पाईन हिंगारी=प्राः ॥ १३ ॥ पड पंपी तेरागंने

पातांः पांन पुंपपाने सुरनीने पाताः ॥ १४ ॥ सुरा

गापप सांपांना पांसाः पुरांघेमरांसांरेगप रांसाः

॥ १५ ॥ पासीने पाछपानी ईछा पाहीः पी=प्रीनस

नो सहिने=प्रागाना घाहाः ॥ १६ ॥ सरपं पुरु श्री हरान

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n791/mode/1up



realpatidar.com

कौ धुः परासा माजेनमातांकांपीधुः ॥१७॥ गाजी
गांपने सडा किमेरः छसे धरसाने आवासे रैः
॥१८॥ नाधेजेपरत धरसरेनो किः नो तांमांकां वाख
कसाकसे प्यां किः ॥१९॥ कि ठीगाजी गांपधे आप्यैठां:
स कि कोनेसमानावा पैठांः ॥२०॥ छारे छोसनेनोस
जीसेः सरपजासेवासागेसरपेनेडासेः ॥२१॥ स
रपेनेमरतकनाजेनांगाः नेमनानातीरेरंमपांने
सागाः ॥२२॥ नेने सामसीजो छे सांजेः तेने स
रपधेका सधाजेः ॥२३॥ कासीनी पुत्रे माटेपां
डः जे कर्मा ससगा न काजाडः ॥२४॥ कासुनेस

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n793/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n794/mode/1up



realpatidar.com

369

[illegible]
॥४१॥ [illegible]
[illegible] ॥४२॥ [illegible]
[illegible] ॥४३॥ [illegible]
[illegible] ॥४४॥
[illegible]
[illegible] ॥४५॥ [illegible]
[illegible] ॥४६॥ [illegible]
[illegible] ॥४७॥ [illegible]
[illegible]

realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n796/mode/1up





छोकरवेहांगोवालोवारे=प्राणं:॥५॥ कणवंनांनी
घरांहमाकपघरसें: सकलावातनेसांहांपातांपर
सें:॥६॥ कहुगोपणसापर्पाणपाणें: गोरकागोडा
नाथपासलख्यांनें:॥७॥ कसा=प्र व्यांडोशावाला:
नाथपणेहिनाथेपारेछेतालीः॥८॥ नेपगुरांस्पांछे
पर्ईपांरनाथें: व्यांहांवासलोकेंडसंघार्त:॥९॥
पांघोनाहदिनपतकरांघ=प्राणा: कहांपांनसं
हसकुकपरांणा:॥१०॥ व्यासकनासररखाथासासा
गर्पः सर्लसरुनखंचनारांकंपें:॥११॥ जंरुपरख
तसरखवेहांसो=प्रां: हेपतांपरनाहांपेसानेव्यासो=प्रां:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n797/mode/1up



realpatidar.com

॥१२॥ तसा तसर सासन नधणाहि रे आप: नयनां
गन कधणी वराव: ॥१३॥ नें वासे अलख नो आर
द्विपडावा: तवार सीन नें मनाण प्रात्र पसावा: ॥१४॥
रुवे आ लख नें सो मनें नीरखडे: का ठ ए सानें
गा प सरवे रडे: ॥१५॥ सक्स संगारे सापा से दए
दाधू: नें सो द्वानें सतें न सच संगे सकाधू: ॥१६॥
ए ठां आर रखा सरप नें चंद्र प्रासा: पासे आले का
गंग्रे नागपासी: ॥१७॥ कसपार डे नें नाथा ने घडे:
ई आ नागा सा पधी रांघा: ॥१८॥ कांग्रे नें मांग्रे घघ
रीकाया: कांग्रे नें छरं के संकांग्रे नी वेला साया:

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n798/mode/1up



३८५५

॥ १९ ॥ ज्ञो इशाने रूढा=ऐ कीधा कार काले: ज्ञो इशा जूध्यंग
ने दूरनी आस आसे: ॥ २० ॥ ज्ञो=ऐ ने ज्ञ धाके जूडो दा
प फूलाती: ज्ञो=ऐ ने नाफू नर पप पाती: ॥ २१ ॥ ढूं ज्या
ज्यास फूने कीढु सा धी: पूछे नागरका नाथ ने सास
नाधी: ॥ २२ ॥ तारू रूप ने ईने धाकी धांधी: दासे अ हिंद
लो फूनो स्वाधी: ॥ २३ ॥ ढूं न ढूंन धात अतां तने पूछ
ना=ऐो: सू ज्याता नो साकु फूधा=ऐा: ॥ २४ ॥ फूरं पा गेळ
ने सर धार रधे सा द्वारी: =आ ज्या डा रतन राता नर ज्ये
सर पे नारी: ॥ २५ ॥ ज्या से ज्यासफू कीढे स ज्य सराधू
रे: ने धनाफूफू धाती=अधूरे: ॥ २६ ॥ तारू फूज्य ज्याती

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n799/mode/1up





३२०

रीपाजे: तारा छबीलीनोंईनें=आंनदसोजो:

॥३४॥ जीरता द्वापपणी प्यांद्वाकेंडतारताः ग्रेहोजो

ऊ होथपपा कुरांद्व=आरताः॥३५॥ पाईतक कुलोप

डी केंं=प्रजानाने=आर्यो: कालीद्व रीपाकें पाजप

लोपोः॥३६॥ स्वरतानारनीपारता=असेंकुनां प्यें:

पडी कुपानांवीप्ये कींराकांपपापें:॥३७॥ सेने

आंपापे स्वद्वरानांद्वननापें: कुपानानीतीरेप

स्वजोकुपागापें:॥३८॥ नेसाद्वापातननांद छेतातः

पारापेलछेपपानद्वरनतातः॥३९॥ श्रीकुर

सांननांपछे पाकः: आहिरनीनातह्रद्वनपाकः

realpatidar.com

॥ ४० ॥ पी नें नाव तां हक छवसी छासः धरु छभाळ

सां रे धर रां सः ॥ ४१ ॥ =अं धल सख दडो छे नी रपां काः

धां का छे नागाखी की धर संन तां काः ॥ ४२ ॥ धां सां

गाप वसे सर पधां सीः वंन रां वंन नी वंस प

रना सीः ॥ ४३ ॥ पां रु नी र पास न सव ख धी द्धः

ख गा पार दा पारा सनें खुद दख दा द्धः ॥ ४४ ॥ न सो

दां नां पे पान नख सदे खां ङः धा सी नां गनें द रे

प धां धाङः ॥ ४५ ॥ =असे वाव सन सापजा नां गरा

क सा सेता सीः ता रां कुंडमां संकर्णा नें कुंपा जाती

स नागधां सीः ॥ ४६ ॥ धां ई दांडे धां सी नां गा सां

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n802/mode/1up





सतीध्यांनेः तो नो सांसाप सांभ्रा हे भ्रावो सोने ॥ ५
नथी ध्यांभ्रेनाध्यां सुन र असी भ्रा साधेः भ्रेने जां
न पाग तांरां ध्यो सस पांरेः ॥ ४८ ॥ ज्यासी नांगना पु
रु थी गगन पार्टेः ते पारे पांछाव पीनां भ्रोनोसां
नाथेः ॥ ४९ ॥ व सरकः नागरता ह्रि ध्यो धा पाधरी ने
पान पागोः सर पसी सागी पां भ्रेरेः तंपतंप सांप
सी भ्रोपार गानेः सर पनान पना नसी नी भ्रेरेः
कडवा ॥ र ॥ पांरां ध्यो सन ध्यो सी भ्रेः सर प सा
न स सेः ध्या इ भ्रर ध्यावांन इने कपांडः ध्या स क
छ प सरेः ॥ २ कः ॥ सा ठ क पा भ्रो छे सा ठ पोः द्द

realpatidar.com

३२५२

पाटां आसन आसी अंग: सरूप सान पासें: आई
अपार ज्ञान ईन ज्ञान आदः आलख छल संरे: ॥ ४ ॥
एकपा: ३ ॥ आई पारा छा संनरे: आलख घलडा
ही संरे: ॥ २ ए: ई ता छछ छन पानें: अप्रेतो से स
अछरी ना सा संरे: सं सच परु पार्ले संलट पटा
नें: ता छा सच छछ धीना संरे: आई पारा छा सं
नरे: आलख घलडा हा संरे: ॥ १ ॥ अंनापा ठां सं
पापार सांनपा नें: अंनी पात पेता पारीना संरे:
छछ नागरमा द्विपारमा: तारे पछ सुपर संरे: आ
ई पारा छा संनरे: आलख घलडा हा संरे: ॥ २ ॥

realpatidar.com

=ऐ सां संगा क्राह्याछे नडगाँवांसांनारे: रा छी रां भ
सी रांवारे: पीनारांपसवां आरे: =ऐ कुह्याक्रांणी
लायें रे: भाईवारां छां सेनें रे: भालकु गांसडां
ह्यासें रे: ॥ ३ ॥ =ऐ कुकुक्रांनुनपांनें: वछवानंपां
हां रसा=आं रे: =ऐ पाक्रेकें परकुपरपांनांद सातांप
ती: नईपाहरपांद सा=आं रे: भाशवारां छां सेनें
रे: भालकु ह्यालडां ह्यासें रे: ॥ ४ ॥ कुडवा ४ ॥ नागना
सकन कुभ सापली=आं: तत भ रथे=आ: तारें गांवा
ला गां कुल पांगा=आ: ॥ १ ॥ वा=ऐ वा=ऐ कुरानकु
छां
रगारें सें: सकभ ठांनांदनी भालकु=आं यरे: ॥ २ ॥

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n806/mode/1up



realpatidar.com

3253

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

३२४

फड वाः प॥ पारु पासा फुडरी साईगढः सापाली
ज्याः तारांपंनपाई स्वज्या फुरेः सापाली ज्याः पा
रांफारे दे ष्फुवन पाला रेः सापाली ज्यांः॥ वल
ताः फालाहु रे नफालफपाताः पाकिय सी ज्यांना
गफांलीः कवं ज्या सासफाप पापातताः पारां
फारे दे ष्फु वन पाली रेः सापाली ज्याः पारु पा
सा फुडरी साईगढः सापाली ज्यांः तारांपंनपां ई
स्व ज्या फुरेः सापाली ज्यांः पारांफारे दे ष्फुवंन
पालीरेः सापाली ज्यांः॥ १॥ सलतानरुपा दंन
छ पांरुः फुरपालाहु छे सराः नतनफुरापांना

https://archive.org/details/bk177/page/n809/mode/1up



पापूनग: पाकूरतनपडछेछटेरे: सापसी=आं:
पाकूपासाकूडरीरांईगाद्धि: सापसी=आं: पारां
पारेदंप्पूवंनपापारे: सापसी=आं: तारांपंन
पाईसक=आपूरे: सांपसी=आं: ॥२॥ हुपूजपा
पाछछेले=आसरे: दिछेरांपरतीपापा: नाप
नांरसछलोगा=आं: पंनेपानोगे=आगोप्पापा
रे: सापसी=आं: पाकूपासाकूडरीसाईगाद्धि: सा
पसी=आं: पारांप्पांरेदंप्पूवंनपापारे: सापसी
=आं: तांरांपंनपांईसक=आपूरे: सांपसी=आं: ॥३॥
तारेक्कांवांकेपांतानेपांक्रपूंपांरसुद्धि: पांरपू

realpatidar.com

गट गार धारीः मारी मारी कु कांनांथी हुं मुः नरा=आवे
छै गाई आरी रेः सा मसी=आः मारु मानां कुइ रा सा
ईगाईः सा मसी=आः मारां कार हुं मुवंन मासी रेः सा
म सी=आः तारा मंन माई सुं=आवुरेः सां मसी=आः
॥४॥ कांनं कु ड सनं मुम मा मार सीः सां मे=अे कुसी
=आवेः नु मां छ कु कु नानं मरहुं माडेः मं नं मांनां
कुनानं मोसा वे रेः सां मसी=आः मारु मानां कुइ री सा
ईगाईः सा म सी=आः मारां कांर हुं मुवंन मा मा रेः सा
म सी=आः तारां मंन माई सुं=आवुरेः सा मसी=आः
॥५॥ कु सा कुड मी ता मारनी माहिः मन कु नं नं=आं

पाजी: हुगारछिपातावधणनासा: पंनेपाईडांपलो
पालोगेरे: सापसोत्र्भा: पाडूपासाऊदरीसाईजी
द्रि: सापसोत्र्भा: पारीघारेदेषुवंनपापारे: सा
पसोत्र्भा: तारापंनपाईसत्र्भापूरे: सापसोत्र्भा:
॥ ५॥ हुपरपेसरहुनवंनांगापाद्रिदेहाकेपाद
रसे: प्पापसंप्पानीफोसागती: तारीगाद्रिहासाज
सापरसेरे: सापसोत्र्भा: पाडूपासाऊद्ररीसाई
गद्रि: सापसोत्र्भा: पारीघारेदेषुवंनपापारे: सा
पसोत्र्भा: तारांपंनपाईसत्र्भापूरे: सांपसोत्र्भा:
१ द्रिडुनामलपापासोवसोत्र्भा: हुनेभांसापां

https://archive.org/details/bk177/page/n812/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



ठंपगांपसें: तारांपोरपोपरने पूतसो: =अंखो
रंपकुडण्यांश्यारंपसरे: सापसो=अं: पारूपारा
कुइरीसाईगर्जि: सापसो=अं: पारांक्यारेदेपू
पंनपापोरे: सापसो=अं: तारांपंनपाईस=आ
करे: सापसो=अं: ॥ ८ ॥ कुठ साकु सर तेथी कुठ
साछेसोछू: पनरतासेक्यापणपारू: तेसोकुने
सूदेप्याडपाडरे: सापसो=अं: पारूपाराकुइरीसा
ईगर्जि: सापसो=अं: पारांक्यारेदेपू पंनपासोरे:
सापसो=अं: तारांपंनपाईस=आवरे: सापसो
=अं: ॥ ९ ॥ क्यांहीतकगा=अंखे=अंछानेदूणपूछू: ते=अं

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n813/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n814/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

॥२०॥ जोरसजहकी दीवानजासी: तारेनड
की द्वि ठानागकासी: ॥२१॥ तारेनागरसा द्वि रूवे
सरवेसाथि: कवे=आजाजाकनी सनागतथा
से हाथि: ॥२२॥ के जनजव से=अनीजातने तात:
सुरतावातनेजवकरेकजातात: ॥२३॥ केडेमां
नगनेजाजनी: दे=आकरोते जे दानननी: ॥२४॥
=अे छे रंकुंनदकुवार परांरसा: =अे जनागरसा द्वि
जालवारसा: ॥२५॥ तारे श्री करसंनजकरड
रूपलई: कवेनागनकजनाजुजोई: ॥२६॥
जालीनागसेसत्र पुजजावे: गोपदजजा

https://archive.org/details/bk177/page/n817/mode/1up



तानथावासलाघुघवावेः ॥१७॥ गरनागा
नाथपांव्याचोथे सेः=आंघोघसापाछोख.से
नानावारवरेननसेः ॥१८॥ नागद्विपरसापाथा
=आंसेः वरावरोघ पां नाद्विपरवसेः ॥१९॥ तां
नानेसराव्यागोघसाः=अंनेख्नातपांपोछे प
नाः ॥२०॥ द्विठां व्यांलीनागसरख्माः=अ घासाः=आ
वावरोघ्व्यालवजासाः ॥२१॥ [illegible] अद्वने
नेपरांकुवाठांफेः स्वरननेपपोनेः तेपव्यां
लीनागानीफीसापाद्वेः सापाशा=आनी ईनेः ॥२२॥
नेपपासावनेपापारनेः व्यावनपेसंदनछो

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n818/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n819/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n820/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n821/mode/1up



हे नागरखा द्वि संघातः ॥ ३६ ॥ फ़ट्नपानं फ़रस
नजः पू ठुं नागरखा द्वि नारः नेने फ़ारगांपी द्वि फ़रः
परन्ठनी सरांन सथावांरः ॥ ३७ ॥ पोतानान
नहार ञांडः फ़गतांपसेव द्वावेः वेगपारहा
नें सहु ञ सतवेः पांसवांईनञावेः ॥ ३८ ॥ फ़ण
पारांनाथिनेः नागरखा द्वि सहु फ़ांनाञेः फ़ारतना
गनी पांसा द्वि परः फ़रसंनजधई धईनाञेः ॥ ४०
गांपासा सहु वि सांभिारङः गातगा ञे सहु पाणीः
इप तां तांनने फ़ारफ़रः नायेवनाडेतासाः ॥ ४१ ॥
ञ धीगना सेञ अवछरांः गाञे गांपी गातः स

realpatidar.com

५७१

पत रूपी = असतती कुरे: नाथीं नागने कोद्धून

रीत: ॥ ४२ ॥ वी प्प घारने कु रें द्धसडो: वीटाश्री

कुरसननी इंहि: सरप पा हिनें पसापासीं: नें प

अद्भ पां छां कां पेहि: ॥ ४२ ॥ अडजीगीन प्प सीप्प

लेगी: कुरे गोप हां हां कां र: श्री कुरसन नें पूछी कु

र पां घ्रेही: आंपी पंशापद्ध नां र: ॥ ४३ ॥ सरीर

पूसर को द्धघा सुः तडतडे नागनु = अंगः नें नां कां

ग पडो कां ली: सरप शापुरे सं न्हां नं ग: ॥ ४४ ॥ नाग

शा = पे नी न वा ल कु पे ला: श्री कुरसं न ने ज्ञां ल:

= अं पां रं कु द्धि पर कु रां द्धि = आं: = अपे नागशा द्धिर्वा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n823/mode/1up



सेः॥ ५५॥ घरमे आतम परमु जीवः हितारो ऐनी
गरवताभः नेहा पसवाभी भारोः संघ नाइ
तासराभः॥ ५६॥ स्वाभी कवे ऐ ज्ञारे नो हितारा आः
ज्ञा धो छे ज्ञानभारः आं जरे जहि पर जरोहा आं ते
भो जीरपा नं हजुवारः॥ ५७॥ गोपी हि सर वे अ
सतकता जरेः पी न वेन सोहां दरसा दरसा सः स
रवे नो असतकती सा नसीनः पर जु हित रां जग
दासः॥ ५८॥ जर संन जं ठे आरो पोः नां गरा
ऐ जुभसनो कारः श्री जर संन जार भा ऐ ज्ञाता
हि ठांः जर सर वे ठंठ पर जारः॥ ५९॥ नागनी आ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n824/mode/1up



४२

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n825/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n827/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

४०४

रांप्र:: पां छापुरी नें आधां छे:: तांहां वरस छपन:: ॥ ५६ ॥

पांहां कुरसां प्रा द्वा छे:: तेपछी वरस सतावन प्रांहा:: त्यांनां

रांप्रे नवन वारसा:: ॥ ५७ ॥ कुरांवा छे:: तेना वेगत:: गापावसो::

नी:: द्विगपासा त्यां गांवे:: पडत पावनाता रें:: कुवां त्रें कु:: ॥ १ ॥

नापनाथा कुवां:: पानी कुवां द्व पसां हां:: रांप्र सरोवरना

द्विगपासा पांसे:: नांप्रतेन अप्र पा कुवां:: ॥ २ ॥ त्रीनें कुवां::

॥ ३ ॥ तप सांनी नांगा त्रें:: सोथी कुवां:: ॥ ४ ॥ प सोधा गाम्रि

त्रें कु छे:: ॥ १ ॥ पांप्र पावा:: गापाईसानपर पद्धे:: ॥ ५ ॥

गांपर्दे वा प्र द्धे:: नवारसा कां:: ॥ २ ॥ तलाव अद्धारी आप्र द्धे::

कुवां त्रें कु:: ॥ १ ॥ पानी नां गां पातलाव तनी:: द्व पसां हांर्दे

https://archive.org/details/bk177/page/n829/mode/1up





वे: नांनां रांधाथेआ छे: तेनी पेगत छे: तेतें मे सुनां कं
मनीप रो: सोमसुन छे: तेना चोकयार छे: तेमां चोकप
रों छे: तेनना मछे: सपकास चोक: के पाज्ञे छे: तेमास
रहार अमरंमा छे: चोथा आंअकवाज्ञे छे: तेनेकाथ छे: तेचो
कनें कपासें: अमरंमा चोथा छे: ते चोकमाकें रंमातथाज्ञे छे:
तारे द्वेप सुन नां तांकां ज्ञावे छे: ते सुनथी तां घडमाथे छे:
तेनां घडपंज सोमछे: तेना द्वेपतां सुन माकें ज्ञावे छे: तांकां
सुननां अमरंमां चार सरदार छे: ते चार सरदारनां नांम
छे: तेतें मे सुनां कां मनीपरों: चार अमरंमानां नांम छे: ज्ञेक
अमरंमातों: नीमपुनरः बीना अमरंमातों: पकासकनरः

https://archive.org/details/bk177/page/n831/mode/1up



ीनी अर पातांः ० नाकुदृच्छनरः ॥३॥ साधातां पतितां कुनरें

॥४॥ ःसेवा आरसून नां अरंपासरदारछेः तेअर पांनेस

व कां सखां कुपांःआवे छेः तेःआवीने तअतनी नां ५ अंगः

तारे अनां ने आरसून नादेवतः आरे अरंपाने पास पा

गःआछेः ते पासवानां सअदे छेः तेनांवीआरनेः पर पा

सणीदां छेः तारे अरंपांःसे सापोन आपदादां छेनेः नं पांना

दंतअर्पांःआईःआःई पासानां नदेछेः तारे सरवे देव तां

आर अरंपाने मं पंछेः तारे आर अरंपापाहीः ःसेकुअ

रंपापाही सरदारछेः तेअरंपाकुनांपः ःअंतपासांसकुं

पांःसेछेः तेतअतनां सरदारछेः नारेते आर अरंपाः

realpatidar.com

तथां सरव दे्व ता आवां मेः अ रं भा आं त पा सा स नों से
सोः आं भ्र कु त नु ना प न सा स आं ग गो री कु या आं छेः ते नों त न
ग त नी छेः आं भ्र कु दं न न रं भा आं त ल पा सा सः ते को थो त को ह
हती ः नें ई पां पा कु व सा सो नु ः आ र दे र स का थो सेः ता र पे र
त सो कु पा मी न पा सेः तां मां आं र सो वा तः न ग त न सा स
आं ग गो री आं सा न सो हती ः ता र तें इ ड न सां स आं झ री ः तां
मां थी मा सो नेः आ नें ठां पः त प कु र वा नें ग आं आ छेः ता र तां
मां तां स्रु न ना मों कु पां मोः स र व दे्व ताः त थां अ र पाः
ते रं पा त नों या ना आं छेः ता र ई पां पा कु व सा सोः त थां न
र गो वं दः गो कु स न कु र त न र सा ः अ रों थो ध ई न स्रु न





realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n833/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n834/mode/1up



realpatidar.com

४०७

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n835/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

वर्षपाईअछेईअः तारेष्परंपाअणुसदादाछेः नपरतलोक
पातंपदेपथा सोः तारेष्परंपाईपापकवलासीः सांहेष्यने
पृछछेनेः स्यापी देप मारने अंपणुसदादाछेः तकहेछेने
अंपेपरतलोकपाः देपथईअः तदेपकेयाथासः तारेनर
गोपंदेगोपुसः नुरतनरसांनु पारंपानथदिछेः नेअदेप
मारपरतलोकपादेपथासः तहेनापांहेनांपछेः अंपदे
पतोपुछांन सांपुहेयासः ओनादेपताः सांहांपुपांराके
पासः ओनादेपताः सांहांपहारकयासः मांथादेपताः
अंमा सांहनकयासः तमारदेपकयासः अंरलोयातन
रीनंनेणहेछेः तारमोपुपेलीने सुणपाअंपापा छेः तारे



realpatidar.com
realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

४०९

कुनाअपरंपाः तारेपापाखिजनासेः तेपारेतंपेछोअपरंपाः
तारेईपापकूपसासाआसांछेः नेनाधिनजातनेरपतंपे
तेसपागाछोः तारेनगतनेरपआसाः नेअपरंपाअंपेता
तंपोरांः तंपारादिदारपागाअछेईअः तारेईपापकुय
ससाअकसदादाछेः नरतनरसानरगोपीदूनेपूछेः
नेसामलानरनंनाः अनेगतनेरपनेदरसणदिदारः
फिदाडीपासेः तारेनेरनंनआसाः अपरंपाः तंपनेवखने
कहीः नेतंपनोआः अपतधापूरीपाअपतारदरनोः
तारेपछेअंपाराअपतारः नेअपरंपातंपाराअपता
रः तदाडेअनेदरसणधारसेः तारेईपापकूपसासाः नर

https://archive.org/details/bk177/page/n839/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

राम्रेः ॥३॥ तं सर ण्यां पेहेला सः॥ कुरं पर पारथी पर
तः तप्ये से प्रे आसनेः रांया रांनीनारीतः ॥४॥ कुसट
फकाने सुणपुकारकाः तरनातरन संसारः सांकदुरप
रनारनोः दे पादासादातारः ॥५॥ तेपीनाम सकान
कुरंः सरसपकुरे संनीगः पापे अदपो आ ... दाःन
कातांयापे रोगः ॥६॥ चोपाई: पकापतीपान पानी का
तं कुरं पूनां कुरां कं पगाधरों नीन रांनी कुरनी कुरकाः
प्यासतं पूतसी पर तं कुकाः ॥२॥ सानजावी कुरं पाके
रुनापः सासा कुरां पर पारथी कांपः ॥३॥ तंवी सतारी
कुका न कुनः पं रांका वी पां प्रे सां गुरु छ तुनोः ॥४॥ तंवा

realpatidar.com

धा=ओतीपगाढरो:: नताखां=ओनोप्रनाढरो:: ॥५॥ जोर्न
कृके=अवीवाक्रप्पवाराः:: आसीप्रतसी यतूरसनांराः:: ॥६॥
दांकरो:: आसीपरपो पूसी:: सानवा जोर्न यतूरसना
राः:: ईदरतराो स्तत=आसांपत:: प्रेतापपतपरपारा::
॥१॥ लघ्रवेंद्यातेलके:: पर खांर्नतपरवंसः=अडसठ
वादां=ओयरे:: =आरा=अप्पीस=आहेंसः:: ॥२॥ =आख्रां
सपांनपाढरू:: सतीसरोपरारां=ओ:: द्यापसयतूरपा
सनां:: नीतयर०यार्नावाना=ओ:: ॥३॥ =अगारप्रू=अं
गोंढरू:: त्रुसपाटोप स्नन्नसीसः:: पनीपतीपेके पानास
रो:: वीसपांदांकेसोहेंसः:: ॥४॥ परखा=अरछारवासोव

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n843/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

४९२

भा॰ प्रे॰ अलें भे॰ आर: लें भसापासें सरानेः साद सि पाडे
सार ना रः ॥१०॥ पाटा दुध नें दे भन नह: भें ठों रें हें ठरा ठांप:
सां हां ना प सद पों भहें: पंसा भोर्ेना ना हां ना: ॥११॥ भों
छ॰ पा पे॰ आ गा सा: प्रद पों सें पा सा न: ठा॰ भों तें भ हुस वें:
दिड सद्धा सें॰ आन: ॥१२॥ पुस पां ठें पा गे तां हां: सें भ गा सां
पें सी नः पा न प रतें पा टा तें सः नें पा न प सा थें हों॰ भें पा
नः ॥१३॥ सां ना न र भां सें न पाः धा डें ध सा रां धा टः त स
फ रतें हें स पां न हें: हां सें ह रा सें हांर: ॥१४॥ ना गा सां पा भ प
टा त रां: सें नें ह नें पां ध नी सा थेः सां ना ठ सां न प रा:
हें तें॰ आ पें ह थें: ॥१५॥ नों॰ भं पा सां पु रा॰ प्राः चा भा कुं

https://archive.org/details/bk177/page/n845/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n846/mode/1up





सिरः ॥२२॥ पंनथी जनितनाकरेः करे पसांसो पराते नारी
पंतन परां करेः अनीं रातनारातः ॥२२॥ कीधा नें आखु
रसपांः हकें हरांसी पांहांमक आरेः हाडें हातारथा करेः
रांते पंत थी आरः ॥२३॥ हें खाहांप सफेनतीः फफेनता
पंनपांपः पहेंपसा ससफेनताः पसीतसां अखांपः
॥२४॥ नासेन रपपडाथीकाः छटीतारे सरः खाहोतारेखा
पर्डाः नाठीतारें नरः ॥२५॥ नीं आगरासा आगापनांः करे
खा खारां खातः अंपाल आरांगें आपासरः नीं अंक ठासीना
तः ॥२६॥ हें पड सफफेनतीः आछापरे अंगः सापाद्दरा
र्प सांनतीः रांनांकरांसंगः ॥२७॥ धसावखा कांफरेगड

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n847/mode/1up



तरुणां:: करे करपनां कुरि:: न सवां लोकरे नगतमां:
जुर्ते कासेकडि:: ॥२८॥ पासे असा परसन करे:: प्य
आपरनंपांप्यंत:: पासतानं ननेपारतां:: कईडना आ
सांकत:: ॥२९॥ नाइनी आनालोनांतनां:: पंरड पक्षीमां
कांपक्त:: लोनंपद्वारेलोकनी:: फोगरप्यासे पुस्त:: ॥३०॥
आर्वे आंसा पकपकरे:: याद्वयाद्वपेरेयप्यासा:: अंपारतके
आइरकरे:: तनं सुक्कारेपरांसा:: ॥३१॥ सकरांइनां इ यार
सानी:: प्यांलेपी ठांप्यांस:: पानेन कांनं पाकापती:: तरतसि
तारेतांस:: ॥३२॥ आपाइ: नापासेतातांनावे पार:: प
रसानांइ छि छांनेप्यार:: ॥१॥ कलप्यालोकतां प्यंतीकरे:: द

realpatidar.com

realpatidar.com

४२८

रक्षापतीतांहइडांपाहरेः ॥२॥ कुलपीलांकुनेकु सरघस्कः

सुखदृष्य नरषूतनेतस्कः ॥३॥ पारवाडांहुनेस्तागापाः नोसा

कुलपी=प्रेकुनांनोरांपाः ॥४॥ घक्षांछोरघरइसुचः पोछा

पारपरवापीकु पूचः ॥५॥ हलनागल=प्रलष्यतनोंढांढः

छाछा=प्रंतला=प्राढः ॥६॥ घडपाप्यरहेस्तारहाणारेः सहसुत

हिनूतारेः ॥७॥ प्यनेहलकुरीनेना=प्रेः र=प्रानरष्पीरानोरा

=प्रेः ॥८॥ परष्यतलेपेलासानकुः नोपाप्यडपाहलनोतरूः

॥९॥ प्यापरता=प्रावेना=प्रेः प्येस्रु=प्रेकुनपालेपरथपापा

=प्रेः ॥१०॥ पाछ माप्यरांकुांटांघस्कः रष्यसक्षाकुरेनहाईहा

नतस्कः ॥११॥ सुदकुरीनेपाडांकुरेः जपनतथपानाढरेः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n849/mode/1up



realpatidar.com

॥१२॥ धूप र अर सासा द्वद्वनीहै॥ लपरै लपरा ए पोताना हैडे

॥२३॥ पीहै पर संनि द्व रूनीहाडः सू अ कर वद थावाडः ॥२४॥

वावी अंग अ अ ६ द्वान आए॥ ए रला वार है आवे पाए॥

॥२५॥ तरसात रसी पीसी आर॥ एतील पाथी लहै अहनार ००

॥२६॥ पडारात घडपांअ पिर॥ नांनीरांप पद्वारां घरै॥ ॥२७॥

रासपरीसीनी डजड ए॥ एआद्वी पद्वरांत नांनीरांप सरु ए॥

॥२८॥ तांहांपसी वह नांवनी नहीपार॥ हिडडा स ए अ स अए

पार॥ ॥२९॥ आंपूथाडर वापूघाह॥ द अनर अूकुलअ

तरसा॥ ॥२०॥ ए कुदाव स ए आतनी ठांपा॥ नइ आसावा

नांनीरांपा॥ ॥२१॥ कांकांज द अ ए आछात पां॥ तनानरैन

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n850/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)



[illegible] ॥२२॥ [illegible]
[illegible] ॥२३॥ [illegible]
[illegible] ॥२४॥ [illegible]
[illegible] ॥२५॥ [illegible]
[illegible] ॥२६॥ [illegible]
[illegible] ॥२७॥ [illegible]
[illegible] ॥२८॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥१॥ [illegible]
[illegible]

realpatidar.com

पेः तवाको काकेवाऋः ॥२॥ पांननीवातमारांतकीः
ऋतीलऋकेवांपः सप्तखांईसारूकोः पखपपारूना
पः ॥३॥ रांऋपरद्यानतेपारपः पटेलतलाटाधाऋः
गापतारूगारांसीऋाः तेतीपारूऋापख्याऋः ॥४॥ नांरख्या
रखानेपरांपकाः पसवाईऋानीगतेनीकेः ऋासकरे
सरूऋंपकतकाः कुलपावासेकरांडः ॥५॥ तंपेकोका छां
तकोः तीसरूतंपारीवातः सावऋागानासारूककें
ऋपकृकतंपारानीतः ॥६॥ सेवकतोश्रीकरद्यासनीः
वापरदेवनोदासः पासकसरूपरनातंकोः पूरीऋा
वतकावासः ॥७॥ दखदेखतंपदेनान्दः कोऋेये ठो छां

https://archive.org/details/bk177/page/n852/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n853/mode/1up



रखूकपेज्ञंपानीतरखः ॥४॥ अरगासेसाउकदावसनी
ज्ञेः तारेपसतेज्ञंकुनकोज्ञेः ॥५॥ तेपाज्ञेकुघडानम
सुखः दांवादसलकुलमीनेद्रुमः ॥६॥ पांकांकुसरेज्ञं
नपेदाधाज्ञेः परसाज्ञछारसहुवेंसीमाज्ञेः ॥७॥
ज्ञेकुमलद्धनेकुलमीसारः परधेवानीज्ञेनेसार
मारः ॥८॥ मीनीमसीज्ञानकाज्ञेपंमेः ज्ञरतील
मारद्विपाडसंकेः ॥९॥ मरांपसाजाज्ञेनेकलसानें
सरगनाकमडांनासानीतेकेः ॥१०॥ गंगानरमदाप
सापाधसाः ज्ञपारपापतेमवपातसाः ॥११॥ धामापा
मीसूनसतांपः पांपिनांगकुलमीपांमारः ॥१२॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n854/mode/1up



realpatidar.com

४२१

नापा कु=आपीन खरां कु रेः तेतो नांगवा सपा करेः ॥ १३॥

ई साईं तलां टीगरा सा=अे घोरः औथा नांगत सा=अे औरः

॥ १४॥ सत पाद ताां कांकु पवरद्धः पांपे घोर वे ठां=अर द्धः

॥ १५॥ =अे रलीप रसा=अ छारे फुनीः सह फो=अे तेफुल व्याहि

परर नीः ॥ १६॥ फुल व्या=आ सा कुरे नें कनेः=अे वो=अे कु

ई व्याड फुर्नोः ॥ १७॥ फो ली नांगा था=अे औरः ना कुप नांगो

पा र्से छारः ॥ १८॥ पासा कु नांगा दावा कु सेलः न रांप सा ना

गांनां र्प ई लः ॥ १९॥ ई साईं नांगा दावो कुरेः नाथ फो=अे

=आगल नाद्ध रेः ॥ २०॥ न कु ना ना कुप ने कु रगरेः पासापो

तांनां=आगल द्धरेः ॥ २१॥ ध सप र=आगल पर ठे नाथः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n855/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n856/mode/1up



realpatidar.com

४२८

पंसी पाछ सा द्वि ठेरां तः पडेनां भाप रोडा आ सातः ॥ ३२ ॥
वाका पूर्न द्वि पनां वारानः नें नों ई अंतें सावे भानः ॥ ३३ ॥
अं रसें आवें आसाडे पनेः दुखनें गाच द्वि घाजदेनेः ॥ ३४ ॥ पू
नां तें परधवा भादरेः पचे आगासवाडा पूरेः ॥ ३५ ॥ पर
साका भावलभारडाः नका नातनें पंन अ रगः ॥ ३६ ॥
धांडुं परसेतां वारनु वेः नाजां परसेतां द्वि पे भों पूवें ॥ ३७ ॥
सरावका भास आवां नें रसेः नांदवानारान अंतें रसें
॥ ३८ ॥ अ डनंगनारान वें तनातः वेठे सर द्वि परवरसा
तः ॥ ३९ ॥ नांनाव सच देंना अं रा पाखवेंः ईरातें घर
सुखे सुवेः ॥ ४० ॥ नांदरवें वका द भाननंरेः घडा अं

realpatidar.com

फुनवरहेफघीरः ॥४१॥ साधीवालामोधरीष हुः
नांनु पासीआपतसहुः ॥४२॥ परहप्मलामतर
नाफुरेः आठपोरअंतीसेंफुरेः ॥४३॥ घरनां सुमसा
फुनपनुवेः सोआपीपगडांपासुवेः ॥४४॥ गालेंअं
नआवेनेंरसेः आसोआसाधाअेतेंरसेः ॥४५॥ सु
मपासापासतेडाछघरेः गोपालागोमेंने गोसांफुरेः
॥४६॥ हाहाहापुरांरेः हेहेपमीनेजांजांपारः ॥४७॥ फुसु
फोनुमातेमाअेः पाद्रुतेनुपतीसईनाअेः ॥४८॥ फ
रतफुपहानेफुरफुलेलेः हाफुपआवाय्सेपासेः ॥४९॥
मरेअप्रलाघावरसुघलाः धईलांमेंत्रनांद्दलाः ॥५०॥

४२२५

आतासेतां द्दि अनेने:: न ईन्द्र ड्रााधासेतने:॥ ५१॥ नीनीरेर
वीधारना जाप्राञ्ञ:: वाव नारांनीसो छे वाव्रु:॥ ५२॥ जांद्ध आपा
नानहीजेअे:: जअरेराजेतुद्दरसरेनीजेअे:॥ ५३॥ प्राग सरपासे
नेनेपांन:: नांग सारु द्विपनाचे जांन:॥ ५४॥ व्रुगव्रुहांद्दरस
र फुलनांर:: फुले वा सता हीजेअेन आर:॥ ५५॥ साराहीजेअे
तेसा प्रभुले:: नहीतीआलावा आल छुले:॥ ५६॥ वा छा फुर
न घर पांहीवी आजेअे:: जांन सांप्रन पनी वाजेअे:॥ ५७॥ पो
सपहीना द्विपर आहु परीत:: करे पाअरने पाफुल नारात::
॥ ५८॥ जरशा वाछु वासां हांसरां:: सोया द्विपरा वां आन रां::
॥ ५९॥ आरन आनुरी आते आजेअे:: जांन आजेअे पांहीजेन

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n859/mode/1up



[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

४२०

ईसुतार पो आ ग्रांनी हुंः नसोंनलो खेह अांपोना टः
॥ ६९ ॥ आरसाना अवाग्रावीने ग्रडेः नाकुनवाई ग्रा
ग्रती सिंग्रडेः ॥ ७० ॥ ने खोईनी अनी ईछाखुरेः ते ग्रावा
ने प्यांसो हुरेः ॥ ७१ ॥ खुटापतां पांनन रेपेरः ते ग्रावेखु
सप्यांने घरेः ॥ ७२ ॥ वसी पागरु पेरोना ग्रेः पेहाखुरते
फरुधा ग्रेः ॥ ७३ ॥ फांगराषांसे तेग्रे वसतः तेहाडेपेसा
हप्प ग्रंनतः ॥ ७४ ॥ जाडप्याडन सवारे रा ग्रेः अईग्रपां
सिलखुसां ग्रेः ॥ ७५ ॥ खुंग्रांखुंग्रां पांते प्याग्रेः पा खुतेहा
खुपसईनां ग्रेः ॥ ७६ ॥ वसी खोसी ग्रसवारी अडेः खुरा
पनूरापंधाप डेः ॥ ७७ ॥ खुसप्यांने नहेहप्पनो पारः

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n861/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

[illegible]

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

realpatidar.com

४२२

पुधाः तेअरं पाजेसरणेंनथीः ॥८७॥ खडदांन खाजे
पे हेजेंनाथीः ताजेकुसलखानाजेडेनाथीः ॥८८॥ घेरनां
जेपरथपापतीतें पोः नथापागतांक्वांहाजें पोः ॥८९॥ जे
पकहानेंनाकसासः तेंपेधेरपद्यारों पोटांईसः ॥९०॥
दोहरोः पाआरकरीपाकरंपकेंहः सतकतेंपेकांपः
पंनसंदेसपारींगजेोः तेंपेन्लान्नांन्नांरांपः ॥१॥ सक
पकासारोंपालाः पोंरपकाद्यापेरः रासनाकरसोंरहा
जेपापेः ताकहसायोसेरः ॥२॥ रांपकेंहसकरारांजेंगः
जेपलांछइजेजेकातः करेरासकेंपडः पंसान्नांगांप
नांनीन्नरातः ॥३॥ जेपगसाहांजेंनें वितसांः तेकहांजेपासों

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n864/mode/1up



realpatidar.com



स आरः ॥ ८ ॥ पराजा ध्रसाक रे फेनात वूतस्पः आँतीप्र

नगररसताचतन्धासः ॥ ९ ॥ तंपाफ्पा आँ पाराँ आने आ

आँः भीनी फ्रधफ्र रेफ़्नाआँः ॥ १० ॥ तंन्द्रनापफ्रेल छेना

तकूः तरफनहीफ्डवूफकूः ॥ ११ ॥ संगलाच्रसातंप्र

पानीआँः आपचसापारांपांनपाहीआँः ॥ १२ ॥ परतफ्र

पांपर्तेतापर अंकः आरध्रनागतेनां कंकः ॥ १३ ॥ परती

प्रतरफ्रहीतेनाआानः सेसनध्रसापांनपालानः ॥ १४ ॥

**दोहरा** नांनापूहीस्सरारा आँणेः नसा पूछी आँ नरातः

संईसहरनांच्रपांनताहीराः छ्र आपसा आँ फ्रातः ॥ १ ॥

पांचपाजतलनहीः आपनीनही आ फ्रांसः नही

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n865/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n866/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]
[illegible] ॥२३॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२४॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२५॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२६॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२७॥ [illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

नद्धरनों: प्रुलभीनारपालनांपः सेंसरापेंसोंस
रणौ=श्रोः प्रुसासरनोपाप्रांपः ॥ १८ ॥ प्रुकैपाद्धातांपा
सपपरतेंः=श्रेंकै=श्रांसा=श्रंसः=श्रेंप्रुप्रुसाभाका=श्रेंनां
कांलगाः तां कांलगासेंसरानोंवंसः ॥ १९ ॥ प्रुद्धासप्रुसा
भोनसेंः प्रुलभाप्रुपनोंना=श्रोंः तारेंभद्धासेंसरानाः
जपनोगतप्रुपथा=श्रेंः ॥ २० ॥ स्पापी सरगगें=श्राथप्रुः
=श्रेंनप्रुरेनें=श्रापः तेंथावंसनपाद्धसेंः नेंद्धासप्रुेन
कापांपः ॥ २१ ॥ =श्रोतपपरसा=श्राद्दै प्रुकाः तेंना=श्रपलां
भ्परें=श्रंसः सेंसरासंद्धापांपसेंः प्रुसाप्रुसाभानोंवं
सः ॥ २२ ॥ नातद्रुनका=श्रेंतोंनातद्रुः प्रुद्रुनेंगातनेंथां

https://archive.org/details/bk177/page/n869/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n870/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n871/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

पावकेसाव केरुषीजी ॥ २२ ॥ अेजी नाबी अेरोटी दईत
डाभीगा वीस्रावेजी ॥ अेजी अेवा मेनलरे दईत डाभीगाडे
र सीतार सीसार सतगपोइर सेजी ॥ २३ ॥ अेजी सोनानार रोटी
साहोजीडा हाहेजी ॥ अेजी सालनी भुनीवरो मेतनी ॥ अेद
इंन सचा पोहोर सुधाजी ॥ २४ ॥ अेजी तार हाड करोमोव
लाअ लाख ६ सो ॥ तेता सेन मेनावो करसेजी ॥ २५ ॥ अेजी
पंचकरोडी सुराल परलाजी आवसे ॥ ते पण साहेने
इरमानेजी ॥ २६ ॥ अेजी सातकरोडी सुराल हरीचंद आवसे
: तेत्रीस साहेने इरमानेजी ॥ २७ ॥ अेजी नवकरोडी सुरा
जजुठल सेरहा आवसे ॥ पंच पांडव ना साथजी ॥ २८ ॥

https://archive.org/details/bk177/page/n873/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n874/mode/1up





realpatidar.com

જી: ॥ ૩૪ ॥ એમ પછમ મંહે પાઅલા વરસે: ॥ મનલે મનલે પાઆ
ણી કરે જી: ॥ ૩૫ ॥ એમ પેલા મનલે તે ગઢ મુલતાન આવે: ॥
આવે તે સાહા અલી આપે જી: ॥ ૩૬ ॥ એમ બીજા મનલે તે રામવા
આપા પાસે જી: ॥ ૩૭: ॥ એમ ત્રીજા મનલે હરી આવસે: ॥ આવ
સે તે અગારની પાસે જી: ॥ ૩૮ ॥ એમ ચોથા મનલે તી આથી આ
લસે: ॥ તેતો જંબુદીપ માંહે હરી આવે જી: ॥ ૪૦ ॥ એમ જ
॥ જંબુદીપ મંહે સેન મળસે: ॥ તેના અંત નહી આવે જી: ॥ ૪૧
એમ સેન મળસેને જીજીઠા રથા સે: ॥ તેતો જંબુદીપ મંહે
સે: ॥ એમ ચારે સરવે સેન બોલસે: ॥ સવાં મીઆ પેઅ
ટાં ટાસે જી: ॥ ૪૩ ॥ એમ આપે અલાને આપે સે જી: ॥ અહૂન

https://archive.org/details/bk177/page/n876/mode/1up

https://archive.org/details/bk177/page/n877/mode/1up





४२२

उतरसे ॥ गोरखनाथ इम मछंदर ने कहेजी ॥ ६० ॥ एम तारे स
रवे सेन उतर से ॥ तारे इंद्रीत नेन प्रघाशे जी ॥ ६१ ॥ एम
इंद्रीत हाली गोविन्द करसे ॥ तोतो नेम उपर तीआ आवेजी
६२ ॥ एम वली इंद्रीत ताहां छीन पात करसे ॥ तारे ईमाम
सं कला मरके जी ॥ ६३ ॥ एम सात सात हारसेनी नन पाट ॥ पा
न कोई न हारे नकेजी ॥ ६४ ॥ एम इंद्रीत ने मारी ने काडसे ॥
आप फेरी तीआ आवेजी ॥ ६५ ॥ एम तारे गोरख नोजा
साहा तप सो हरसे ॥ एम इम पगपर नम आवेजी ॥ ६६ ॥ एम गो
रखजीने आपना पंथ आवता आवे ॥ एम सतपंथ मान ने गोरख नाथ ने लावेजी ॥ ६७ ॥
रहा सेन साहा तीआ आवता आवे ॥ नर ई साहा तप तआ
वेजी ॥ ६८ ॥ एम नर हरी सत न साहा ते आ आवता आवे ॥

https://archive.org/details/bk177/page/n879/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

अेजी ते दाहाडे अमे आवा आ: ॥ ते दाहाडे तमे कुंया हता जी ॥ ७९ ॥
अेजी तम तणा ॥ लख लख डाळ नाचा आ: ॥ ता दि त मे राई आ जी ॥ ८० ॥
अेजी ते दाहाडे सुंता अमे पाछा जगा आ: ॥ तेत मारी ऊ जी ॥ ८१ ॥
अेजी ते तान मे हंसा जी सुड्या वो: ॥ पछे आन नाडु र न वात जी ॥ ८२ ॥
अेजी छपन कुरोडी मेंगा पाछा फेरी आ: ॥ ते पोताने ठाम जी ॥ ८३ ॥
अेजी जमीस कुरोडी कुन र आवा आ: ॥ ते आवा आ को पंथ नि धारे जी ॥ ८४ ॥
अेजी साल पो सांचा वात डी: ॥ अने गारनाथ मे ला वात प जी ॥ ८५ ॥
अेजी त मेन माटु साला पना: ॥ पछे आ जी कुर न वात जी ॥ ८६ ॥
अेजी सच मो बाटली आ वात डी ॥ तमे सुड्या होत सा जी ॥ ८७ ॥
अेजी ने दाहाडे तमे गाल ताआ: ॥ ते दहाडे पांडवी आवा आ जी ॥ ८८ ॥

https://archive.org/details/bk177/page/n881/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n882/mode/1up



realpatidar.com



https://archive.org/details/bk177/page/n884/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

realpatidar.com

हाताजी ॥२२३॥ अेजे तेडा हाडे तमे जोल आलीआं ॥ तेनो गु
रु पोहे साहेबजी ॥२२४॥ अेजे सालणो गोरख आनडी ॥ न
होतो माहादेव मं पुछी रेजी ॥२२५॥ अेजे तारे गोरख तं
हा धुपाछा आलीआं ॥ तेतो गआ पोताने ठामेजी ॥२२६॥
अेजे मास डलाख देख देवाउ नमे गडी आं ना ॥ तेतो आ
पीआं सो पंथीजीने पासजी ॥२२७॥ अेजे सालणो सबंधी
हे ३ वातडी ॥ अेगारने तप मेलावोजी ॥२२८॥ अेजे
तारे नर हे साने बोलीआ ॥ तमे लते आपी आपेजी ॥२२९॥
तेह डाडा सालारने ॥ ने डाहाडे ॥ तमे सार पेहारीआं जी ॥२३०॥
अेजे पसाने लाड तमे पआ ॥ तेह तमारे पासजी ॥२३१॥
अेजे तेना हो साहेब तमे हीआ मुडा वने ॥ अेजे तेना ले

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n886/mode/1up





[illegible] ॥ ૨૩૩ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૨૩૪ ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ૨૩૫ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૨૩૬ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૨૩૭ ॥
[illegible]
[illegible] ॥ ૨૩૮ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૨૩૯ ॥ [illegible]
[illegible] ॥ ૨૪૦ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n887/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n888/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n890/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

५६९

realpatidar.com

: અને કુ ઇખીત સારજી ॥ ૨૭૫ ॥ એ જીત ઇખીત ગારી હેસાથજુ
ડાવલ ॥ પઇ ડરણ વાતજી ॥ ૨૭૬ ॥ નેદા હાડે બસાએ મેંગએ
ડુરુઠી આ ॥ તેદા હાડે ડાસી ગાઆ નર વાંછરજી ॥ ૨૭૭ ॥
એજસારે ખાડુ નલોને અને ઉભા રહીઆ ॥ અને બાત
નો મેરલીઆ આહારજી ॥ ૨૭૮ ॥ અરધાં આરમેલીને એલોજી
અને આગ્રા આ ગમારે પાસજી ॥ ૨૭૯ ॥ ઓલીઆ
તેનાતમ હ સાથજુ ડાવા ॥ પઇત ડરણ વાતજી ॥ ૨૮૦ ॥ એ
જી રાજ તેઆ પા ગાલીઆ ॥ ગાઆ પંતાને ઠામજી ॥ ૨૮૧ ॥ એ
જી તારે રાજ જુને સરણ આવીઆ ॥ પંગંવાર તેની
સાથજી ॥ ૨૮૨ ॥ એજી રાજ ધરંમ આવીઆને એહા ॥ બેઠા
નર નાનેડજી ॥ ૨૮૩ ॥ હજી રાજ ધરંમ બોલીઆ ॥ તેને

https://archive.org/details/bk177/page/n892/mode/1up





બોલા સ વાંમાને સાધ જી ॥ ૮૪ ॥ ગોર તો વખાતા હમારા રૂ
હીઅ ॥ તત પોમાં હે જે ઈહે ન ધમા બાતે જી ॥ ૮૫ ॥ અને જ તારે ઘ
રેન રૂડીને બોલીઆ ॥ સાંચાંમાં હેમના દુખ દેઓ અમને જી ॥ ૮૬ ॥
અને સવાં માંહે તાંહાં ખુંના રૂરસતા તેડા વા આ ॥ અને તેડી
આ પીર હજુર જી ॥ ૮૭ ॥ હેજ સાલ માં દરમનમે વાત કી
અને ઘેરેમ રાહે જી ॥ ૮૮ ॥ અને તમે પર દુખ જેનાર છો
તમે મોટા બલવંત રા અને જી ॥ ૮૯ ॥ અને તારે સાંચાંમાં
સંલા માં હૈયા બોલીઆ ॥ અને બોલીઆ તેણી ઠામ જી ॥ ૯૦ ॥
અને સાલ માં સાહા પાંડવાં ॥ અને સાલ માં માહા વાર જી ॥ ૯૧
અને નેદાડે લખ્ય ઘાણે દર માંમાદ ઉગારીઆ ॥ અને આગ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n893/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n894/mode/1up



realpatidar.com

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

ચાલીને આવીઆ:॥ અને આવીઆ સંવાંમ જીને પાસરહ્યા ॥ ૨૦૬
અને સાંભળી ગોરને તપરમેલા વી:॥ આનંદ ને પ્રસ્થાનો પાસ
જ:॥ ૨૦૭:॥ અને જુગ ચાર ની રમતા માંહે ગયા:॥ અને હવે
છે લીહ સાબજ:॥ ૨૦૮:॥ અને સવાંમી હજ તો માહાન આપ
સે:॥ લખ છે અનંત અપાર જ:॥ ૨૦૯:॥ અને તારે સવાંમી
તાઆં બોલીઆ:॥ બોલીઆ ગોરને સાધજ:॥ ૨૧૦॥ અને
તોઆં સાંભળો ગોર પાતસી:॥ અને તમે કહો સાચી જ:॥
અને તમે તમારી હિસાબ જુકાવો:॥ તમને નથી દુખ
લગાર જ:॥ ૨૧૨:॥ અને બારે રાંડી લઈને આવીઆ: અને
આપીઆ રૂકનો પાસે:॥ ૨૧૩॥ તારે તમને લોકા નાખીતા

https://archive.org/details/bk177/page/n896/mode/1up



૪૩૯

આવ્યા:॥ અને આવી તે અપાર જી:॥૨૨૫:॥ હે જી તેના હે સાધ
આવ માગી રે:॥ માગતા લખ હ સાધ જી:॥૨૨૬:॥ એ જી પાર
સોટર દીન પાછા વળીઆ:॥ તેતો ગયા પોતાને ઠામ જી॥૨૨૭:॥
તારે પાર ગુર સતગોર આવીઆ:॥ અને પૂછુ ભજ વંતરા હે જી॥
॥૨૨૮:॥ એ જી તારે ગુર સતગોર હસીને બોલીઆ:॥ અને બો
લા સર્વાંમાં જી હું પાસ જી:॥૨૨૯:॥ એ જી સર્વ માગોરને તપન
લાવી:॥ અને સરવે જ વંછે વાર જી:॥૨૩૦:॥ એ જી સર્વાં
માહ સીને બોલીઆ॥ અને બોલી ગુર સત ગોર શ્રી સાધ જી:॥૨૩૧
એ જી સાલમાં સતગોર જ વાત કી:॥ અને કહું તમને આવ જી:॥૨૩૨
એ જી નદહડા કે તમે પાલવા દેને પરડગ્યા:॥ અને વરસ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n897/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n898/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n899/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

४४१

आ॥ अने अया वा अ तेवाप डे पासजी॥२४९॥ सालपो
पेता वात कहु॥ अने कहुते सरप सामजी॥२५०॥ अेजी
ने पांणी पीध ततरे सन हीं जअ॥ ते पांडगा नकुं छंडानेजी॥
॥२५१॥ अेजी सालपो पेता वात डी॥ अनंत में कहां देखडा
रजी॥२५२॥ अेजी नहीं मानता॥ तेडार जाओ दीत पसारजी॥२५३॥
अेजी नहीं वरप नहीं जगता॥ नहीं नां मन हीन आ अेजी॥२५४॥
अेजी अेडा अेक दुखी आ॥ अने लार नेपंन मां हेजी॥२५५॥ अे
जी॥ नमी राये मां हे रडगाडी॥ अने डेरे छे मां डारेजी॥२५६॥
अेजी॥ नदी कुप मां हे हेपांडाम करीआ॥ अने गारे नहीं आ
करीआ छेल उसारजी॥२५७॥ ते डारडामे मेतप करो छो॥

[illegible]

realpatidar.com

સાળપણે ભાઈ પાત ઠી: ॥ અને તમને રૂડુ ઈમે આવે જી ॥ ૨૬૩: ॥
એજી લરલ પન ઈ ગ ગમાવામા: ॥ તેલો વાંપાનીં ડાન જી: ૨૬૪:
એજી તારે ઈમન સાહા તો બોલી આવતી: ॥ અને નર હ સો છ આપા
ર જી: ॥ ૨૬૫: ॥ એજી તારે તો ગારે ઈમાંમ સાહા બોલીઆ: ॥ અને
ડાડા રૂરપો છો આપ જી: ॥ ૨૬૬: ॥ તારે અમને લાડડી ઉ માર ઉ ન ષઈ.
તેપણ લોવાણ ન થાત જી ॥ ૨૬૭: ॥ એજી: ગોર ઈમામ સાહા બો
લીઆ: ॥ અને બોલીઆ તે તાજદીન ની સાથ જી: ॥ ૨૬૮: ॥ એ
જી: સોળ ખેલાઈ તમે મોટા છો: ॥ અને ઈમ પાટ ખેટાઈ સાર જી: ૨૬૯
એજી: નર તો તાંહાં રૂડુ ઈર આ: ॥ અને કુલાતીન ગલીઆ માંહે જી: ૨૭૦:
એજી ઈમામ ડરસી તે ડુબુલ છે: ॥ અમે નહી બોલીઆ લગાર જી: ॥ ૨૭૧:

https://archive.org/details/bk177/page/n903/mode/1up



[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n904/mode/1up



[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n905/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n906/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n907/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n908/mode/1up



[illegible]

तां आपता कुउडी ॥ रखी लुलो लोकुगा नार जी ॥३२२॥ अेजी
सगा कुमारी नर सं सारना सांचांमी पर घां सें ॥ तारे पापपते
तरस्ये धीद सेजी ॥३२३॥ अेजी खोलु तारपट राहें गारनारे रुं
ध सें ॥ अने सेवा पासे नर ओरजी ॥३२४॥ अेजी [illegible] नीम
नाथ पारसनाथ संतेरी सामधुं ॥ अने नेहें ने दीनांन म
नांपा लसे नर वांछुजी ॥३२५॥ अेजी पेताला स्हेन नीमा
लागसें ॥ अने पछे ते आवसे नरपेंडजी ॥३२६॥ अेजी
तारे सांचांमी राज पर छं बसें ॥ अने रा आआ घेरे हंसे
डाजी ॥३२७॥ अेजी तारे सपा लोक परशुणी राज करसें ॥
तेराजना आमार कुडं कुंतीपर आईजी ॥३२८॥ अेजी

[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n911/mode/1up



પડા નતા ગર્ભ વાસ જી ॥૩૩૬॥ એજી તેતાઆ ગાંનથી બાહેર રહેતા ॥
અને રે હેતે આદ ગાંથા અવતાર જી ॥૩૩૭॥ એજી તે ગ્રાફુ
ધમાં હેડી પાગલા પવન જહાજ ડીઆ ॥ અને ઘરેમા
દીધે દસોદ દાંન જી ॥૩૩૮॥ એજી તેતાઆ ગય સવે આમાસો ॥
તેતા અકુ સમાન જી ॥૩૩૯॥ એજી તે ભાઈઆં દસો દન હીઆ
ટીઃ ॥ અને નાઆલા ગોરખનાને દીપાર જી ॥૩૪૦॥ એજી તેતી
આં લોક ડાવેન સા બાઈઃ ॥ વેન સાબાર વહી નરવાં ભુજ
॥૩૪૧॥ એજી તે પાઈઆ આલ ઈમાં મની નહી માંના આ ॥ અને
અને ગાલ આપો તાને મન જી ॥૩૪૨॥ એજી વંતા તી આગ
ડાંકરા સોરત રૂપા આં નં ચાર માંહે જી ॥૩૪૩॥ એજી તે પાં

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n913/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n914/mode/1up



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n915/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

૪૪૯

લાસે: ॥ અને અનંત વંદા કરેવા સહી: ॥૩૭૭: ॥ એમ તાર
ને વઈ કરી ક અમ સે માં [illegible] જીવ દુઈ માંના જી: ॥૩૭૮: ॥ એમ
અનંત હુઆ તે નિમલ સે: ॥ અને મલસે પુરી અ મા સહી ॥૩૭૯: ॥
એમ પચાસ કુવર નિકલસે: ॥ તે વઈ કરી ક માંહે મલસે જી: ॥૩૮૦:
એમ અનંત મુખા તાંહાં અનંત લાખા: ॥ અને તે ગોરે ગાર ને
પાસે જી: ॥૩૮૧: ॥ એમ સોનાના ધાર સામ ધારે ગોહીસે:
અને સોના ના કમાડ જી: ॥૩૮૨: ॥ એમ હીરા લાલ રતન જડ
સે: ॥ અને વઈ કુંડ માંહે જી: ॥૩૮૩: ॥ એમ કમલ રીનાગા
રા તીમાં સોના ના દીઠું: ॥ અને માંહે મોતીના ડાળ જી: ॥૩૮૪: ॥ એમ
વારતા આગોર આંપ સે: ॥ ભાઈ અનંત સાથ ઘરની આત જી: ॥૩૮૫: ॥

https://archive.org/details/bk177/page/n917/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n918/mode/1up



[illegible]

https://archive.org/details/bk177/page/n919/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n921/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n922/mode/1up



[illegible]

Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n923/mode/1up



જી: ગીનાંન વાચાતાં મોરા ભાઈ: ॥ પ્રકાસ ઘટ પર મંડાણ જી ॥૩૪
એજી પ્યારા સધા ભરે આવસે: ॥ તારે કુછેક નાં હીં માંને
ખપ સે: જી: ॥૩૫॥ એજી પ્યારાં સધા નાકાલે ગોર કહે: ॥ એ
મે અંમાં સકારી આજી: ॥૩૬॥ એજી પ્યારા સધા નારા
ભ આવસે: ॥ તે દહીંત કાલીગાના મેલાજી: ॥૩૭॥ એ
જી તેતો મોટા મોટા ઠાંમ જુટસે: ॥ તારે ભગ્યાં પાર સુતાજી
॥૩૮: ॥ એજી તારે પાર સુતા નહી: ॥ પણ કાલપાખે છે સહીજી:
॥૩૯: ॥ એજી એ કાલ દીધાતે પાખવા: તે કાલે બોલા નહી લગા
રજી: ॥૪૦॥ એજી સુકર્ણા જુના પરો કરો વીચાર: ॥ અને
પ્યારાં સધાં માં હે કેનુ નહી ચાલે અગાર જી: ॥૪૧॥

https://archive.org/details/bk177/page/n924/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n925/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n926/mode/1up



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n927/mode/1up



realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n928/mode/1up



૪૫૫

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n930/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n931/mode/1up





realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n932/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n933/mode/1up



realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n934/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n935/mode/1up





४५८

डेरी अंगा:॥ अरजन सांभलो गीता सार:॥ ८५:॥ अडेह
री गहन ने अदरस सब हस्या:॥ मारा लगा ते पंडि आपे:॥
माता लगता केर करस:॥ मारे मुनी ते मुगट मोपे:॥
अरजन सांभलो गीता सार ॥८६:॥ अडे [illegible] ने
मे पांधाया:● अनेक तो हेकुना [illegible]॥ ते [illegible] नरो
न आपी छ:॥ हुकम छ डेहा:॥ अरजन सांभलो गीता
सार:॥८७:॥ आम मे रे तरखा मान डेरा:॥ अने मान
डी गेन डाने:॥ मारे सनर डर कुरता मो दरां: वची
डेट पीता नडे:॥ अरजन सांभलो गीता सार:॥ ८८:॥
आरमा नपा छ रे हरी गया:॥ अने डेरी गया अघ

રંગ:॥ હુ તાનવાની પાપાવા લાવા આ:॥ મારો કુ ડીબ
નવ ઘી આ ગર ગ:॥ અરજડ્ય સાંઘી ગાતા સાર ॥૨૯:॥ મારો
લગતનીઅર્થી નહી:॥ ગડાનતનેઅર્થી:॥ મારા લગાત
ડેરે ઝાર ઘી: મેહેણા પાહી લુમો સાન:॥ અરજડી
સાંધી ગીતા સાર:॥૨૦॥ મારા મા માને મનવાહુ ગઆ:॥
માર્હી:રે સાન મને આપહુ લુપ:॥ ઐ ક આટલા ચૈદ
ન માટે:॥ કુળનેહા લઉ રૂપ: અરજડ્ય સાંઘીગી
તાર:॥૨૧:॥ વળી આગેરા મારતા:॥ નાલવડલા
વીહાર:॥ મેતા ડારણ સ્મરે આ તેણિના:॥ આલેઆ
પધારય મા ર:॥ અરજડ્ય સાંઘી ગીતા સાર ॥૨૨:॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n938/mode/1up





पेलीतेपाणे पे सता:॥ परी नदेही घी गाढ:॥ ने
नेमारी ने व सा त्र सुराधामा:॥ मारा सा प्रागारे मा
गांधा पद॥ अरणडसा सो प्रो गीना सार:॥ २३ :॥ अेकेडे
देरेतलसी नीमापा:। इरेनलसी इनेनेलसा:॥ अने
इटेनलसी नीमा पा:॥ अेवानलइ छाया सामाना:॥
मारालगाने नो सा प्रागार:॥ अरणडा सो प्रो गीना
सार:॥ २४:॥ अे इ न लख माडे हुगमा:॥ मेमल
लो घोडाय:॥ मारा मामा ने डा पेह प्रेमा:॥ तेनाथे
देपुरे साधु:॥ अरणडसु रुप्रो गीनार:॥ २५:॥ मारे हतो
नेमेमारी मा:॥ अने हतो ते॥ मां डी॥ मां डाण:॥ मारान

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n939/mode/1up



गत कुरे कारणा: ॥ मे नाथा हाजु मे साथ: ॥ अरजु प्र
सोधा गीता सार: ॥ २६: ॥ अके साधन वा ने नाथा आ ॥
तातत कडा माहे: ॥ ते उद कपा सात व करी: ॥ ल
रे मन संभारी ताहे: ॥ अरजुपा सोधा गीता सार:
॥ २७: ॥ अके मगरी अे कुंवर छो: ॥ ते आलापु मारू बो
अेके ने मेला वता: ॥ मे सारो बाहुनाकाम: ॥ अरजुन सो
धा गीता सार: ॥ २८: ॥ हैके कान काअे कोत कुरु: ॥ तां हो
लोपु मारू नांमे रूपे: ॥ ल धा उरा अेनी केन आप धर
धा रु: ॥ परदल मपा: बहु लो प: ॥ अरजन डार सो
धा गीता सार: ॥ २९: ॥ नारे मे तेहु ॥ न हीने रु कु हे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n940/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n941/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n942/mode/1up





https://archive.org/details/bk177/page/n943/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com




બાજુ જણાવવાનું કે માતાજી વાલબાઈની
તબીયત કેવી છે તે જરૂર જણાવશોજી.
અમારે બાજરી, મરચાં, એરંડા, શીંગાળા નું
વાવેતર કર્યું છે અને તે સારૂં છે તમારે
મોલ પાણી કેવા છે તે જણાવશોજી.
માતાજી વાલબાઈ તથા માતાજી દેવકાબાઈ
ને માતુશ્રી સંતોકબાઈ ના જયશ્રી કૃષ્ણ [illegible]
બાજુ જણાવવાનું કે તમોને નવરાશ હોય
તો એકવાર ભેગા થવા આવી જશો બસ એ
કામકાજ લખશોજી લિ. ચેલાભાઈના વાંચ[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

કારા

તા.૨૯/૭/૧૯૬૬
રવિવાર

સ્વસ્તી શ્રી શું માતાજીના જોગા મધ્યે માત માવીત્રા જુવરાજભાઈ કેરસુરીભાઈ તથા માવીત્ર વાલજીભાઈ તથા માતાજી વાલબાઈ તથા માતાજી દેવકુરબાઈ તથા ઓઝજીભાઈ તથા જીતેન્દ્રકુમાર તથા કાન્તાબેન તથા કલાવતીબેન તથા અન્ય કુટુંબી જનો પ્રભુ કૃપાથી ખુશી-મજામાં હશો.

જત ગણેશપુરા થી લખવે દરઘડી યાદ કરનાર પટેલ પેલાભાઈ શંકરલાલ તથા બાબુલાલ તથા માતુશ્રી સંતોકબાઈ તથા લક્ષ્મીબાઈ તથા ભીખીબેન તથા વીમળાબેન તથા અન્ય કુટુંબી જનો પ્રભુ કૃપાથી ખુશી મજામાં છીએ.

જત લખવાનું કે આપનો ટપાલ મળી તો લખવા મહેરબાની કરશોજી બીજુ અમારે વરસાદ થયો છે અને હાલ પણ ચાલુ છે તમારે વરસાદ કેવો છે તે જણાવશોજી.

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n946/mode/1up





realpatidar.com

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n948/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

શ્રી ગુ રૂ સાસન નમ ૯૬૪ સં વ ત: ૨ · ૦ ના પોસ વદ ૬ [illegible] ની સારૂ લખ

આ ૬ રૂ ૬ અ ક્ર ય સ્નેહી ફ ય ર ના જો ધ્યા પા લ ખ્યા છે સ ડી

શ્રી સ ત ગો ર પીર ના વા ચ:

દ ર મા ન ક બ્રા સ ભ લા હું રે ખ ન ના ર ચી સ ત ગો ર થ!

ત ખ મા મો દ ર ના ખ મ સા ખ્યા હૈ પા સ ન લ ન રી વ ન ન રખ્યા

લ ખ ને દ રા ન રી વ ન ખ મ ન લી જ ર સ ત ગો ર રી સ રો ધ્યા:

અ સ સ લા પા તો પ સ લા મો ખ્યા લ હૈ: ન પર ખ્યા લા હૈ: ૧

અ સ સ લા પા તો પ સ લા મો ખ્યા લે હૈ: ર સે લ લા હૈ: ૨

અ સ સ લ પા તો પ સ લા મો ખ્યા લે હૈ: સ લા લ લા હૈ: ૩

અ સ સ લા પા તો પ સ લ મો ખ્યા લ હૈ: ખ્યા લા [illegible] હૈ: ૪

અ સ સ લ પા તો પ સ લા મો ખ્યા લે હૈ: [illegible] ૫

અ સ સ લ પા તો પ સ લા મો ખ્યા લે હૈ: [illegible] ૬

અ સ સ લ પા તો પ સ લા મો ખ્યા લે હૈ: [illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n949/mode/1up



[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

૪૬૫

અસસલવા તાં વસલમાંઆલક્રા: માંમદરરસુલલાહ: ૧૮

અસસલવા તાં વસલા માંઆલક્રા: સાહ હિ તનલાહ: ૧૯

અસસલ વા તા વસલા માંઆલક્રા: સાહેબાલકાનવલક્રાસર: ૨૦

અસસલવાતા વસલમાંઆલક્રા: સાહેબા સફાયેતઃ ૨૧

અસસલવા તા વસલામાંઆલક્રા: સાહેબાનનહામતવરસેસાતે: ૨૨

અસસલવા તા વસલામાંઆલક્રા: આ તનનાનાપુવત: ૨૩

અસસલવા તા વસલામાંઆલક્રા: નબીઆલમહણા: ૨૪

અસસલવા તા વસલામાંઆલક્રા: નબાઆલહરમા: ૨૫

સ.સ.લ.વા તા વસલામાંઆલક્રા: નબાઆલબારવ: ૨૬

અસસલવા તા વસલામાંઆલક્રા: નબાઆલવિલા: ૨૭

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n951/mode/1up



realpatidar.com

અસરસલ વાતા વસલાભાં આલે હ્રીઃ ના હંભાઃ ૨૮

અસરસલ વાતા વસલાભાંઆ લેહ્રીઃ ઃ ૨૯

અસરસલ વાતા વસલાભાંઆ લેહ્રીઃ ઃ ૩૦

અસરસલ વાતા વસલાભાંઆ લેહ્રીઃ ઃ ૩૧

અસરસલ વાતા વસલાભાંઆ લેહ્રીઃ ઃ ૩૨

❁ હિ હુ લાહુલા હા લાલાહાઃ મંહાંમદ ૨.૨ સુલલાહિઃ ❁

આ દ ૨ દ ફ વર અફ વર ... લ વી ...

... દા ન વ સા હિ વ ના ... ન ન આ હિ વીઃ આ દ ૨ દ ...

૨ ન પ દ સંઃ અ ન ય ડી ના સ તાઃ લ આ ... ના આ સ ... તાં

... ના ... ના ... ના.૨ા દ ૨ સ તા ન

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n952/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n953/mode/1up



realpatidar.com

નલખાંને ખાતીના પરીરાખરાં: તાતપ દાને નવા સાહેબ તેને
છપના મેંહેદાર દસ: પણ જ કી ધી મુમનખા દરૂઈ નપાય તી
ગુરૂબારખ ઘપાસુ ફરપાર નાંપાગ પુ: તેફ પારી તેખ પાય પુ
ખારગડારાત ગખાપછ: માપુ નેખ તરૂ અંખસ ખ સરીર પાર સપ
નેપડ પુંપણીઅ દરૂદસાત ફેરાપડીનેં: તેજ છ ફા ડીંસુજ ર નેપા
પાયા નાસ ફેતી લખાને પેઈ તાને: આસાફ મુજ્ઞી નસુ જ રેતી તેક
નીતેરાતેન ખાસાઉ પના દરસ નખાએ: જપાએ દરઈપડ
નારી મુમન મેરીજ સે: લપા સારૂ ફેરસતા આરસા આરતી
નાઆપસે; ખાફાસ ને પાતા નાપ ડપખા પસે: તનાજનાજ
પરનાં માજ પડસેં: નેફખા મતે ના દાડા સુ ઘાં: તનીફ પાયુ

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n954/mode/1up

2010 Before -Satpanth Manuscript 27 (177)

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n955/mode/1up





Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n956/mode/1up



realpatidar.com



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n958/mode/1up





[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com

Pages from 470 to 529 are completely blank and hence not scanned.

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n961/mode/1up
realpatidar.com

આ ચોપડી ગા. કછ નેત્રા નીઓ તા દીવ્ય
જ્ઞાનો છે ભોમા હસરાજ ઠા. સં. ૨૦૨૬ ના
માસે માગસર ૨૩૬૩ - છનાપા ૨૦
દા: ડાહ્યાભાઈ રામજી નાઈ પં મે
લખા ચાલી ... હ: ...દા: પેમરા

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n962/mode/1up





[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n964/mode/1up



५३८

न जाति नि सं जाश्रीः ॥१२॥ श्री अन पांणी पणी दा
श्री श्री वाणः तो साडी व्रुढ रुडी रूणरा पडे नवणः
॥१३॥ पवण सा ते धु श्री श्री ला सा ईश्वा धाः वृ रा
इजणी ईश्री वे सा धा ॥१४॥ पांच स्रुत नी जुण
वीन्न श्रीः श्रीः तो श्री अण पांणी पणी तेलण धाश्रीः।
॥१५॥ पांचे स्रुत नो श्रीः श्री रजणी श्रीः तो जा श्री
श्री लला पि रण नेडा पाश्रीः ॥१६॥ श्री हरवि हा पारसा
हल जा हु वेः तो पांचे स्रुतनी श्री लखण राङा रपा
सी रवेः ॥१७॥ श्री अण पांणी पणी मर्छडा जा मि ण
पश्रीः तणी पणी श्री वाण स्रुत राण नपासोण श्रीः
॥१८॥

https://archive.org/details/bk177/page/n965/mode/1up



realpatidar.com

[illegible]

realpatidar.com



realpatidar.com

realpatidar.com

realpatidar.com
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk177/page/n969/mode/1up